



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 11—फरवरी 17, 2012 (माघ 22, 1933)  
No. 6] NEWDELHI, SATURDAY, FEBRUARY 11—FEBRUARY 17, 2012 (MAGHA 22, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]  
[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

#### संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

सं. ए. 19011/05/2011-प्रशा. I--राष्ट्रपति, सुश्री मंजू कुमार, भा. डा.  
से. (89) को संघ लोक सेवा आयोग में 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन सहित  
पी बी-4 (37,400--67,000/- रु.) में दिनांक 18 नवम्बर, 2011 के  
पूर्वाह्न से या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, पांच वर्ष की अवधि  
के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव (निदेशक स्तर) के रूप  
में नियुक्त करते हैं।

एस.बी. सरोहा  
संयुक्त सचिव (प्र.सा. सत.)

नई दिल्ली-110069, दिनांक 30 नवम्बर 2011

सं. ए. 38013/10/2011-प्रशा. III--संघ लोक सेवा आयोग के के.  
सचिव. से. संवर्ग की अनुभाग अधिकारी, श्रीमती चन्द्र कान्ता नागपाल द्वारा

अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप वे दिनांक 30 नवम्बर,  
2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

नीरज सचदेवा  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए. 38013/9/2011-प्रशा. III--संघ लोक सेवा आयोग के के.सचिव.  
से. संवर्ग के अनुभाग अधिकारी, श्री पवन कुमार मलहोत्रा, द्वारा  
अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप वे दिनांक 30 नवम्बर,  
2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

नीरज सचदेवा  
अवर सचिव (प्रशा.)

#### गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 जनवरी 2012

सं. ओ. दो-6716/12-कार्मिक (डी.ए. 5)--सोसाईटी फॉर इंटीग्रेटेड  
टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड रिसर्च (ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाईटी),

बंगलोर में सिक्यूरिटी ऑफिसर (ई-दो) के पद पर चयन होने के उपरान्त केरिपुबल की सेवाओं से उनका तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री हर्ष वर्धन, सहायक कमान्डेंट (ईरला-6716), 190 बटालियन, केरिपुबल ने दिनांक 31.12.2011 (अपराह) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 31.12.2011 (अपराह) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

आर.आर. दत्ता  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 16 जनवरी 2012

सं. पी. सात-1/2012-मंत्रा--सूबेदार मेजर (मंत्रालयिक) से सहायक कमाण्डेंट (मंत्रालयिक) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप निम्नलिखित सूबेदार मेजर (मंत्रालयिक) ने प्रत्येक के सामने दर्शाए गए कार्यालय में दर्शाई गई तिथियों को सहायक कमाण्डेंट (मंत्रालयिक) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है:--

क्र. अधिकारी का नाम सं.	कार्यालय जहां कार्यभार संभाला	कार्यग्रहण करने की तिथि
1. श्री चरण सिंह, सहायक कमाण्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-8735	कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, श्रीनगर।	14.11.2011 (पूर्वाह)
2. श्री यशपाल, सहायक कमाण्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-8696	कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, इलाहाबाद।	08.11.2011 (पूर्वाह)
3. श्री देवव्रता घोष, सहायक कमाण्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-8685	कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, पूर्वी सेक्टर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोलकाता।	04.11.2011 (पूर्वाह)
4. श्री माधो राम आर्या, सहायक कमाण्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-8690	कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रामपुर।	11.11.2011 (पूर्वाह)
5. श्री ओमप्रकाश, सहायक कमाण्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-8718	कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बनतालाबा।	31.10.2011 (पूर्वाह)
6. श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक कमाण्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-8752	कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, त्रिपुरा सेक्टर, अगरतला।	14.10.2011 (पूर्वाह)
7. श्री अशोकन टी.एन., सहायक कमाण्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-8777	कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गांधीनगर।	08.11.2011 (पूर्वाह)
8. श्री आर. सुब्रामण्य, सहायक कमाण्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-8769	कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गांधीनगर	14.11.2011 (पूर्वाह)
9. श्री पी. प्रभाकर राव, सहायक कमाण्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-8759	कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त अस्पताल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, हैदराबाद।	19.10.2011 (पूर्वाह)

आर.आर. दत्ता  
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. ओ.दो. 3898/11-कार्मिक (एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. सुमन कुमार खण्डूरी को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 29.12.2011 पूर्वाह से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर.एन. मिश्रा  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ए. छः-1/2011-कार्मिक(स.कमा.)--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की समग्र नफरी में, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	रोल नम्बर	नाम	रिपोर्ट करने की तिथि
1	2	3	4
		सर्वश्री/श्रीमती	
1.	031085	वेनुबाबू सुन्नापु	08.10.2011(अपराह)
2.	092782	अमित शंखोलिया	09.10.2011(अपराह)
3.	088999	गिरीश कुमार	10.10.2011(अपराह)
4.	014879	आशुतोष सिंह निकुम्भ	10.10.2011(अपराह)
5.	014414	अनिल कुमार शर्मा	10.10.2011(अपराह)
6.	051155	गितांशु मेहता	10.10.2011(अपराह)
7.	028361	कृष्णा कुमार दुबे	10.10.2011(अपराह)
8.	107611	गुलशन शर्मा	10.10.2011(पूर्वाह)
9.	006091	एस. विश्वनाथ	10.10.2011(पूर्वाह)
10.	035377	आजाद अहमद हजाम	10.10.2011(पूर्वाह)
11.	050343	धीरज ओझा	11.10.2011(अपराह)
12.	021729	के. विनोद कुमार सिंह	11.10.2011(अपराह)
13.	063611	योगेश कुमार	11.10.2011(अपराह)
14.	076037	रवीन्द्र सिंह डांगी	11.10.2011(पूर्वाह)
15.	093571	प्रदीप सैनी	11.10.2011(पूर्वाह)
16.	036500	निशांत सूद	11.10.2011(पूर्वाह)
17.	013569	सुनील वर्मा	11.10.2011(पूर्वाह)
18.	055694	सुरेन्द्र सिंह	11.10.2011(पूर्वाह)
19.	002098	सागर प्रताप कौशिक	11.10.2011(अपराह)
20.	001954	अनिल ठाकुर	11.10.2011(अपराह)
21.	000445	दीपक ओझा	11.10.2011(अपराह)

1	2	3	4	1	2	3	4
		सर्वश्री/श्रीमती				सर्वश्री/श्रीमती	
22.	044042	अनुराग	11.10.2011(अपराह)	55.	014967	सूरज सिंह	12.10.2011(अपराह)
23.	051924	प्रवीण पाटिल जी.सी.	11.10.2011(अपराह)	56.	094579	मृणमय बनर्जी	12.10.2011(अपराह)
24.	035604	रौशन कुमार झा	11.10.2011(अपराह)	57.	091452	अपील कुमार	12.10.2011(अपराह)
25.	047434	अमित शर्मा	11.10.2011(अपराह)	58.	058301	लोकेश चौधरी	12.10.2011(अपराह)
26.	074652	महेश कुमार	11.10.2011(अपराह)	59.	064872	विक्रम प्रताप सिंह	12.10.2011(अपराह)
27.	033941	तेनसुबम बिजेता देवी	11.10.2011(अपराह)	60.	069472	कौशल चौधरी	12.10.2011(अपराह)
28.	013964	शक्ति प्रकाश	11.10.2011(अपराह)	61.	024614	राम प्रवेश शुक्ला	12.10.2011(अपराह)
29.	074468	प्रशांत सिंह यादव	11.10.2011(अपराह)	62.	103967	सोहन सिंह रावैड़	12.10.2011(अपराह)
30.	067955	रोहित सिंह पटेल	11.10.2011(अपराह)	63.	011444	एस. जैक्सन सिंह	12.10.2011(अपराह)
31.	019538	अमित कुमार	11.10.2011(अपराह)	64.	058849	अंकिता	12.10.2011(अपराह)
32.	067919	मुकेश कुमार तिवारी	11.10.2011(अपराह)	65.	038630	वरुण शर्मा	12.10.2011(अपराह)
33.	048123	मनोज कुमार	11.10.2011(अपराह)	66.	051673	सचिन कुमार	12.10.2011(अपराह)
34.	051438	भाष्कर आनन्द	11.10.2011(अपराह)	67.	050708	गम्भीर सिंह	12.10.2011(अपराह)
35.	038784	सत्येन्द्र सिंह यादव	11.10.2011(अपराह)	68.	030529	हरीश चन्द्र मनौरी	12.10.2011(अपराह)
36.	021804	अंकित प्रियदर्शी	11.10.2011(अपराह)	69.	069285	अमित कुमार सिंह	12.10.2011(अपराह)
37.	054530	ज्योति प्रकाश शर्मा	11.10.2011(अपराह)	70.	056286	अभिजीत नाथ	12.10.2011(अपराह)
38.	048329	टी. उमाकांत मीटर्ड	11.10.2011(अपराह)	71.	055001	विकास कुमार	12.10.2011(अपराह)
39.	088855	कुलदीप सिंह चौधरी	11.10.2011(अपराह)	72.	063866	दिनेश यादव	12.10.2011(अपराह)
40.	063837	बेचन यादव	11.10.2011(अपराह)	73.	062683	दीपिका यादव	12.10.2011(अपराह)
41.	014231	मनीष मिश्रा	11.10.2011(पूर्वाह)	74.	032387	एल. मिसाओ	12.10.2011(अपराह)
42.	079023	दिनेश कुमार यादव	11.10.2011(पूर्वाह)	75.	029120	राजीव कुमार	12.10.2011(अपराह)
43.	068647	लोकेश राणा	11.10.2011(अपराह)	76.	008441	अभिषेक चौधरी	12.10.2011(अपराह)
44.	099603	कैलाश सिंह	11.10.2011(अपराह)	77.	046677	रंजीत कुमार दूबे	12.10.2011(अपराह)
45.	097262	बिरेन्द्र कुमार सत्यार्थी	11.10.2011(अपराह)	78.	038924	प्रणव प्रकाश	12.10.2011(पूर्वाह)
46.	023654	भारतेन्द्र सिंह	12.10.2011(अपराह)	79.	089869	शशांक गौड़	12.10.2011(पूर्वाह)
47.	026876	अविनाश त्रिपाठी	12.10.2011(अपराह)	80.	025522	जसपाल राणा	12.10.2011(पूर्वाह)
48.	027356	नरेन्द्र सिंह	12.10.2011(अपराह)	81.	015368	नीरज कुमार	12.10.2011(पूर्वाह)
49.	041536	आदर्श सिंह	12.10.2011(अपराह)	82.	068007	संजय कुमार	12.10.2011(पूर्वाह)
50.	034776	सतेन्द्र सिंह	12.10.2011(अपराह)	83.	029777	ओम कुमार गुप्ता	12.10.2011(पूर्वाह)
51.	022097	अमित श्रीवास्तव	12.10.2011(अपराह)	84.	000207	रौशन कुमार	12.10.2011(पूर्वाह)
52.	056158	मनीष वर्मा	12.10.2011(अपराह)	85.	111814	राकेश शर्मा	12.10.2011(पूर्वाह)
53.	027894	मनीष कुमार	12.10.2011(अपराह)	86.	000485	मन्मथ लाल	12.10.2011(पूर्वाह)
54.	005782	कमलेश कुमार साहू	12.10.2011(अपराह)	87.	018505	आर. अमोल बालासाहेब	12.10.2011(पूर्वाह)

1	2	3	4
		सर्वश्री/श्रीमती	
88.	086936	प्रजीत सिंह	12.10.2011(पूर्वाह)
89.	055435	राजेश पांचाल	12.10.2011(पूर्वाह)
90.	054427	अंकित मेहरा	12.10.2011(पूर्वाह)
91.	027329	बंकिमलंग ब्लाह	12.10.2011(पूर्वाह)
92.	009218	विनय कुमार	12.10.2011(पूर्वाह)
93.	005894	राजेश कुमार गुड्डू	12.10.2011(पूर्वाह)
94.	068946	प्रकाश चन्द्र यादव	13.10.2011(अपराह)
95.	033519	गौरी सिंह	14.10.2011(अपराह)
96.	002213	सुरेश कुमार	21.10.2011(अपराह)
97.	011352	विश्वदीप कुमार	30.10.2011(पूर्वाह)

2. इन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी, कादरपुर (गुडगांव) में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट कर दी है तथा इनके नामों के समक्ष दर्शाई गई तारीख से पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है

आर.एन. मिश्रा  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

#### महानिदेशालय

#### केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 11 जनवरी 2012

#### शुद्धि-पत्र

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/21--इस महानिदेशालय के पत्र सं. ई-16015(2)/32/2009/कार्मिक. 1/99 दिनांक 04.06.2010 के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में। क्रम सं. 7 के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के स्थान पर

क्र. नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहायक कमान्डेंट (अग्नि) के रूप कार्यभार संभालने की तिथि
07 श्री परशु कुमार सिन्हा	एनएफएल भटिंडा	02.02.2010 (पूर्वाह)

पढ़ा जाये

क्र. नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहायक कमान्डेंट (अग्नि) के रूप कार्यभार संभालने की तिथि
07 श्री परशु कुमार सिन्हा	एनएफएल भटिंडा	07.01.2010 (पूर्वाह)

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेंगी।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केऔसुब

#### शुद्धि-पत्र

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/22--इस महानिदेशालय के पत्र सं. ई-16015(2)/32/2009/कार्मिक. 1/253 दिनांक 20.09.2011 के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में। क्रम सं. 7 के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के स्थान पर

क्र. नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहायक कमान्डेंट (लोकल रैंक) के रूप कार्यभार संभालने की तिथि
07 श्री रंजित कुमार मिश्रा	पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय पटना	12.04.2011 (पूर्वाह)

पढ़ा जाये

क्र. नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहायक कमान्डेंट (लोकल रैंक) के रूप कार्यभार संभालने की तिथि
07 श्री रंजित कुमार मिश्रा	एचईसी रॉची	12.04.2011 (पूर्वाह)

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेंगी।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केऔसुब

दिनांक 13 जनवरी 2012

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/25--राष्ट्रपति, केऔसुब के निम्नलिखित वरिष्ठ कमान्डेंट को रु. 37,400--67,000/- (पीबी-4) + ग्रेड पे रु. 8,900/- के वेतनमान में केऔसुब में उप महानिरीक्षक के पद में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	उप महानिरीक्षक के रूप कार्यभार संभालने की तिथि
1. श्री एस.एन. सिंह	ओएनजीसी नाजिरा	12.01.2012 (पूर्वाह)
2. श्री सुरेश कुमार के.सी	आरटीसी आरकोणम	12.01.2012 (अपराह)
3. श्री एस.एस. गुसाईं	बल मुख्यालय नई दिल्ली	12.01.2012 (अपराह)
4. श्री आर.सी. हुरिया	ओआईएल दुलियाजान	12.01.2012 (पूर्वाह)
5. श्री शिवलोक सरकार	बीसीसीएल, धनबाद	12.01.2012 (अपराह)
6. श्री अजय कुमार	बीएसपी, भिलाई	12.01.2012 (अपराह)

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केऔसुब

#### सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

सं. ए-19018/1826/2011-प्रशा. (राज.) I--राष्ट्रपति, 26 दिसम्बर, 2011 के पूर्वाह से श्री पंकज गर्ग, आईटीएस (94) को सूक्ष्म, लघु और



मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय, नई दिल्ली में निदेशक के स्तर पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्षों की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि के शेष समय के लिए, अर्थात्, 30.03.2013 तक, संयुक्त विकास आयुक्त के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

वी. ए. चावड़ा  
निदेशक (प्रशासन)

सं. ए-19018/1820/2011-प्रशा. (राज.)I--राष्ट्रपति, 19 दिसम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से श्री पबित्र सरकार, आईटीएस (91) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय, नई दिल्ली में निदेशक के स्तर पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संयुक्त विकास आयुक्त के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

वी. ए. चावड़ा  
निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2012

सं. ए-19018/1827/2011-ए(जी)I--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप श्रीमती संयोगिता कराना को विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय, नई दिल्ली में 30 दिसम्बर, 2011 पूर्वाह्न से, अगले आदेश तक, सहायक निदेशक, ग्रेड-I (औद्योगिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण) के रूप में पे बैंड 15,600--39,100/- (पीबी-3) तथा 5,400/- रु. (ग्रेड पे) में नियुक्त किया जाता है।

महिन्द्र सिंह  
उपनिदेशक (प्रशा.)

दिनांक 12 जनवरी 2012

सं. ए-19018/1799/2011-ए(जी)--श्री धनेन्द्र प्रसाद की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, पटना में 16 मई, 2011 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक सहायक निदेशक, ग्रेड-I (विद्युत) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

महिन्द्र सिंह  
उपनिदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 19 जनवरी 2012

सं. ए-19012/512/2011-स्था. ए--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री इश्वर सिंह के आर., को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

में दिनांक 29.12.2011 (पूर्वाह्न) से सहायक संपादक के पद पर नियुक्ति की जाती है।

एस. दासगुप्ता  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. पीडी/7(30)/2011/भर्ती-IV/(एसओ/एफ)/868--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड 'ई' पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एफ' के पद पर पे बैंड रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 8,700/- के वेतनमान में उनके नाम के आगे उल्लेखित कालम सं. 3 में दर्शायी गयी तिथि के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से, इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
1	2	3
1.	श्री कौशिक कयाल	01.07.2011
2.	श्री पाटील माणिकराव नथु	04.07.2011
3.	डॉ. सौमेन भट्टाचार्य	01.07.2011
4.	श्री अमितवा रॉय	01.07.2011
5.	श्रीमती आसावरी संतोष ढवले	01.07.2011
6.	श्री श्याम राव घोड़के	01.07.2011
7.	श्री विवेक यादव	01.07.2011
8.	श्री गौरखनाथ	01.07.2011
9.	श्री विजय कुमार	01.07.2011
10.	श्री विरेन्द्र कुमार गौतम	01.07.2011
11.	डॉ. दिलीप नारायण वाघ	01.07.2011
12.	श्री माजिद अली	01.07.2011
13.	डॉ. थंकन जयशेखरन	01.07.2011
14.	डॉ. चौद कृष्ण भट	28.07.2011
15.	श्री निलेश चौहान	01.07.2011
16.	डॉ. महेश सुब्रमणियन	01.07.2011
17.	डॉ. मनोज कुमार वारियर	01.07.2011
18.	श्री जी. एल. एन. रेड्डी	01.07.2011

1	2	3	1	2	3
19.	श्री के. वी. एन. एस. वी. पी. एल. नरसिम्हम	01.07.2011	51.	श्री जॉर्ज थॉमस	04.07.2011
20.	डॉ. नूरबाशा नागुला मीरावली	01.07.2011	52.	श्री कृष्णनकुट्टि मेनन राधाकृष्णन	01.07.2011
21.	श्री राज कुमार गुप्ता	01.07.2011	53.	श्री मुरुगेसन रथिनम	01.07.2011
22.	डॉ. (कुमारी) मणिदीपा बासु	01.07.2011	54.	श्री नरहरी वसंत उत्तुरकर	01.07.2011
23.	डॉ. (श्रीमती) मृणाल राजेश पै	01.07.2011	55.	डॉ. सुलभ कान्ति दास	01.07.2011
24.	डॉ. सलिल वर्मा	01.07.2011	56.	डॉ. जामदार सहयोग नारायण	01.07.2011
25.	श्री सुनिल बलीराम शंभरकर	01.07.2011	57.	श्री अशोक कुमार वर्मा	01.07.2011
26.	डॉ. कृष्ण कुमार सिंह	01.07.2011	58.	डॉ. सुकांत कर्मकार	01.07.2011
27.	श्रीमती नीतू अमित बवेजा	01.07.2011	59.	श्री कपिल देव सिंह	01.07.2011
28.	श्री अमित कुमार	01.07.2011	60.	श्री एस. राजाराम	01.07.2011
29.	श्री देव कुमार त्यागी	01.07.2011	61.	श्री जयन्त कुमार बारिक	01.07.2011
30.	श्री राजेश टीकमचन्द केशवानी	01.07.2011	62.	श्री राजेश कुमार	01.07.2011
31.	श्री सुशील कुमार बहुगुणा	01.07.2011	63.	श्री आक्काड भाऊराव गणपते	01.07.2011
32.	श्री अभिमन्यु साबतो	01.07.2011	64.	डॉ. नोबल जेकब	01.07.2011
33.	डॉ. हेमन्त शिवराम सोडये	01.07.2011	65.	श्री वालिंजकर पराग बालाराम	01.07.2011
34.	श्री कांतिलाल गेनभाऊ शिवले	01.07.2011	66.	श्री जनार्दन शर्मा	01.07.2011
35.	श्री अलोक नाथ झा	01.07.2011	67.	श्री राज कुमार गुप्ता	01.07.2011
36.	श्री हर्ष मधुकर बापट	01.07.2011	68.	श्री प्रमोद सोनी	01.07.2011
37.	श्री मेरुगुमिल्लि नागमल्लेस्वरा राव	01.07.2011	69.	श्री छग मयुर नानालाल	01.07.2011
38.	श्री रत्नेश सिंह सेंगर	01.07.2011	70.	श्री राज कुमार सोनी	01.07.2011
39.	श्री अमित टिकरिया	01.07.2011	71.	श्री सरकार सोम्यो	01.07.2011
40.	श्री सुब्रत कौशिक	01.07.2011	72.	श्री गणेश गोविन्दराज	01.07.2011
41.	श्री मयूर दिनेश पटेल	01.07.2011	73.	श्री मंडपाक वेंकट राम श्रीकान्त	01.07.2011
42.	श्रीमती माधवी चोलेटी	01.07.2011	74.	श्रीमती दीक्षित अश्विनी रजनीश	01.07.2011
43.	डॉ. (श्रीमती) मेरी एलेक्स	01.07.2011	75.	श्री मुकेश लाल शाह	01.07.2011
44.	श्री अजय शिरोले	01.07.2011	76.	श्री शुभ्र प्रकाश दे	01.07.2011
45.	श्री चन्दन कुमार चक्रवर्ती	01.07.2011	77.	श्री विकास कौशिक	01.07.2011
46.	श्री रमाकान्त	01.07.2011	78.	श्री अरुण कुमार	01.07.2011
47.	श्री कौशल झा	01.07.2011	79.	श्री कौशिक नन्दी	01.07.2011
48.	श्रीमती निरुपमा नरहरी मिराशी	01.07.2011	80.	श्री पंकज कुमार महातो	01.07.2011
49.	श्रीमती राधिका मोहन राव	01.07.2011	81.	श्री सरोज कान्त मोहंती	01.07.2011
50.	श्री रवि प्रकाश जैन	01.07.2011	82.	श्री श्रीजित जनादरदन नायर	08.07.2011

1	2	3	1	2	3
83.	डॉ. अजय सैनी	01.07.2011	115.	श्री जोगेन्द्र कुमार राय	01.07.2011
84.	श्री मिहिर चैटर्जी	01.07.2011	116.	श्री रवीन्द्र कुमार	01.07.2011
85.	डॉ. (श्रीमती) अंजली अनिल गोडसे	01.07.2011	117.	श्री सत्यनारायण कुंडु	01.07.2011
86.	डॉ. (श्रीमती) मौसुमी गराइन	01.07.2011	118.	श्री वझे विनय विजय	01.07.2011
87.	डॉ. (श्रीमती) वनश्री प्रभाकर सापले	01.07.2011	119.	डॉ. (श्रीमती) अर्चना अभय दामले	01.07.2011
88.	डॉ. रविकान्त मल्हार आलतेकर	01.07.2011	120.	डॉ. सन्दीप बासु	01.07.2011
89.	श्री अंकुर चटर्जी	01.07.2011	121.	श्री के. पि. दिनेश	01.07.2011
90.	डॉ. (श्रीमती) गुलनार अब्दुल करीम	01.07.2011	122.	श्री लक्ष्मणन रमेश	01.07.2011
91.	डॉ. महेश वासुदेव राणे	01.07.2011	123.	श्री रामनाथ एच. के.	01.07.2011
92.	श्री अरिजिल लायेक	01.07.2011	124.	श्री रमेश किक्केरि लक्ष्मिनारायण	01.07.2011
93.	डॉ. मयंक शुक्ला	01.07.2011	125.	श्री नन्द कुमार चौधरी	01.07.2011
94.	डॉ. आनंद मकलकाजप्य बडिगानवर	01.07.2011	126.	श्री अरशद खान	01.07.2011
95.	डॉ. कुबेर चंद्र भैंसा	01.07.2011	127.	श्री सन्जीव नारायणन मेनोन	01.07.2011
96.	श्रीमती बिदिशा मित्रा बिस्वास	01.07.2011	128.	श्री सुरेश मुखरुजी प्रधान	01.07.2011
97.	श्री सौरभ गोवर्धन	01.07.2011	129.	डॉ. (श्रीमती) नन्दिता माइति	01.07.2011
98.	श्री आर. गोविन्दन	01.07.2011	130.	डॉ. अर्चना मुखर्जी	01.07.2011
99.	श्रीमती प्रेरणा मिश्रा	01.07.2011	131.	डॉ. सुदीप्त चक्रबोर्ती	01.07.2011
100.	श्री रघुवीर विरुपाक्षराव कुलकर्णी	01.07.2011	132.	श्री अरविन्द कुमार सिंह	01.07.2011
101.	श्री अश्वनी कुमार शर्मा	01.07.2011	133.	श्री राकेश कुमार सिंह	01.07.2011
102.	श्री चंद्रपाल	01.07.2011	134.	श्री अरविन्द सिंह	01.07.2011
103.	श्री हरिन्द्र कुमार सैनी	01.07.2011	135.	श्री राम प्रवेश सिंह	01.07.2011
104.	श्री इबुडोहल अयेकपम	01.07.2011	136.	श्री इमरान अली खान	01.07.2011
105.	श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी	01.07.2011	137.	श्री मुरुवा हरि प्रसाद	01.07.2011
106.	श्री प्रल्हाद पतंगे	01.07.2011	138.	श्री मुकुंद सखाराज बेल्हे	01.07.2011
107.	श्री अनीस अहमद	01.07.2011	139.	श्री सुन्दर दुराईराजन	11.07.2011
108.	श्री उमानाथ त्रिपाठी	01.07.2011	140.	श्री खुपेरकर अभिजीत	01.07.2011
109.	श्री करुप्पास्वामी सी. व्ही.	01.07.2011	141.	श्री रामकृष्ण पी.	01.07.2011
110.	श्री रामचन्द्रन इ. एन.	01.07.2011	142.	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	01.07.2011
111.	डॉ. कन्ति सुदर्शन	01.07.2011	143.	श्री कबिन कुकिल भुआं	01.07.2011
112.	डॉ. (श्रीमती) विजयालक्ष्मी चन्नकेशव आदय	01.07.2011	144.	श्रीमती नीता भास्कर	01.07.2011
113.	श्री पार्थ दास	01.07.2011	145.	श्रीमती तारा अशोक	01.07.2011
114.	श्रीमती राका मित्रा	01.07.2011			

1	2	3
146.	डॉ. (श्रीमती) राजुल रंजन चौधरी	01.07.2011
147.	श्री अविनाश कुमार मुड़ईया	01.07.2011
148.	श्री सतिश बालासाहेब पाटील	01.07.2011
149.	श्रीमती अरुणा रमेश स्वर्णकार	01.07.2011
150.	श्री अरुण देबदास	01.07.2011
151.	डॉ. अजय सिंह	01.07.2011
152.	श्री बि. वि. रामाराव	01.07.2011
153.	श्री अभय दत्तात्रय भालेराव	01.07.2011
154.	श्री छगन बलिराम पाटील	01.07.2011
155.	श्री फरहत तनवीर कुरैशी	01.07.2011
156.	डॉ. कृष्ण कुमार गुप्ता	01.07.2011
157.	श्री मधुसुदन पणिकर	01.07.2011
158.	श्री मनोज कुमार	01.07.2011
159.	श्री कोडग शिवाजी तुकाराम	01.07.2011
160.	श्री राजशेखरन पिल्ले. जि	01.07.2011
161.	श्री मेहता दर्शित बिपिनचंद्र	01.07.2011

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

#### परमाणु ऊर्जा विभाग

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400705, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

सं. ब्रिट/9/17(3)/जुलाई/2011/143--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ', डॉ. (श्रीमती) सरस्वती पद्मनाभन को दिनांक 01 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रु. 37,400--67,000/- के वेतन बैंड में रु. 8,900/- के ग्रेड वेतन में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'जी' के रूप में नियुक्त करते हैं।

महासेन गंडले  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. ब्रिट/9/17(3)/जुलाई/2011--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'ई' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 01 जुलाई, 2011 के

पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रु. 37,400--67,000/- के वेतन बैंड में रु. 8,700/- के ग्रेड वेतन सहित, वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ' के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम
1.	कुमारी प्रमिला श्यामराव राव
2.	श्री राकेश कुमार दुग्गल
3.	डॉ. (श्रीमती) जयिन रेजि जॉर्ज
4.	डॉ. विवेक नागेश येलगांवकर
5.	श्री भगवान नारायण पाटील

महासेन गंडले  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

जल संसाधन मंत्रालय

(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

फरीदाबाद, दिनांक 19 जनवरी 2012

सं. 3-1719/2012-वैज्ञ. स्था./82--विभागीय पदोन्नति समिति (समूह "ख" राजपत्रित) की सिफारिश के आधार पर श्री शशीकान्त सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भू-भौतकी) को वेतन बैंड-2, रुपये 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान पर सहायक भूभौतिकीविद् के पद पर अस्थाई आधार पर दिनांक 02.12.2011 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मध्य पूर्वी क्षेत्र, पटना में पदोन्नति किया जाता है।

वह कार्यग्रहण करने के तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के स्वेच्छा निर्णय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

एस. आर. चौहान, प्रशासनिक अधिकारी

कम्पनी मामले मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स क्रिस्टल मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

सं. 560(3)/00164--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्रिस्टल मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्रीतेजस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

सं. 560(3)/00109--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्रीतेजस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सियोउस मैनेजमेन्ट एण्ड फाईनेन्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड  
के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

सं. 560(3)/00151--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सियोउस मैनेजमेन्ट एण्ड फाईनेन्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सीसीआरआई एक्सप्लोरेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 13 जनवरी 2012

सं. 560(5)/158515--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स सीसीआरआई एक्सप्लोरेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जय चन्दा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 25 जनवरी 2012

सं. 560(3)/41676--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जय चन्दा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स निकॉन फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 25 जनवरी 2012

सं. 560(3)/115793--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स निकॉन फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

## कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जनवरी 2012

सं. करं/560(5)/2011/13113--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

Sl. No.	CIN	Name of the company
1	U18204DL2007PTC158225	ए.जी. एपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U74999DL2007PTC161616	ए.आर. पावर प्राइवेट लिमिटेड
3	U67120DL1996PTC082852	आन्दब ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
4	U80903DL2007PTC165019	एसेस इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U80301DL2005PTC141912	एचिवर्स एकेडेमी प्राइवेट लिमिटेड
6	U72200DL1998PTC092081	अल-फलह साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
7	U26960DL2008PLC179695	आसाम कम्पनी नफटोगज हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
8	U55101DL2009PTC187621	ब्लाइन बिस्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड
9	U72200DL2006PTC145687	बॉस सिविल इंजीनियरिंग साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
10	U31908DL2007PTC162627	बी.वी.एम. पावर प्लस प्राइवेट लिमिटेड
11	U74994DL1999PTC098443	चिन्तामनि फैशन एण्ड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
12	U74900DL2008PTC181311	क्लोरिस मेन्टीनेन्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
13	U51311DL1998PTC091906	क्रेजी राइडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
14	U64200HR2009PTC038680	साइनोस्योर कामटेक प्राइवेट लिमिटेड
15	U72900HR2008PTC038604	साइनोस्योर आफसोर कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U65991DL1996PTC076403	धनानिया फाइनेन्सियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
17	U15500HR2008PTC038110	डी.एन.डी. फूड एण्ड बेवरज्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U24231DL1999PTC099792	डॉनसाफ्ट रेमीडीज प्राइवेट लिमिटेड
19	U28933DL1999PTC100665	डारविन हार्डवेयर डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
20	U74899DL2000PTC108984	दुग्गल इंजिनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
21	U55101DL2004PTC128117	यूरोसन होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U80302DL2011PTC214245	एवियन मेरिन एण्ड एविएशन एकेडेमी प्राइवेट लिमिटेड
23	U74900DL2008PTC179108	इकजोटिक स्पीरीट्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U74899DL1990PTC041236	एस्पर्ट सेक्यूरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
25	U74899DL1994PTC059795	फाल्कन क्लोथिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
26	U85199DL1997PTC086474	फलेक्स एण्ड फिटनेस हेल्थ क्लब प्राइवेट लिमिटेड
27	U93091DL2006PTC152260	फाटेफ फ्रन्चाइज प्राइवेट लिमिटेड
28	U74120DL2009PTC196061	फंकीफिस रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U29199DL2003PTC123383	गनपति टूलकट प्राइवेट लिमिटेड
30	U45400DL2007PTC165586	गोल्ड बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

31	U45400DL2007PTC165633	गोल्ड स्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
32	U45400DL2007PTC165593	गोल्ड टाउनप्लानर्स एण्ड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U45400DL2007PTC165588	गोल्डबिल्ड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U45400DL2007PTC165642	गोल्डस्टार इन्फ्राकान प्राइवेट लिमिटेड
35	U55101DL1999PTC101609	गोस्था बिहारी गार्डेन्स एण्ड रिजार्ट प्राइवेट लिमिटेड
36	U35990DL2008PTC184321	हारमोनी रेन्ट ए कैब प्राइवेट लिमिटेड
37	U55101DL2008PTC182478	हिमालयनरिवर रिजार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
38	U72900DL2002PTC116381	हाटवायर इन्टरनेट प्राइवेट लिमिटेड
39	U74210DL2011PLC216529	एच.टी.बी. लाइबर्ट इंजीनियरिंग साल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U74900DL2008PTC182536	इंडिवा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
41	U74900DL2008PTC184178	इन्डो नारविजियन सोलर प्राइवेट लिमिटेड
42	U74899DL1994PLC057190	इनोवेटर्स इनफोटेक लिमिटेड
43	U74999DL1991PLC044527	इंटरनेशनल सेक्युरिटी एण्ड इंटेलीजेन्स एजेन्सी लिमिटेड
44	U51909DL2009PTC191306	इनटाइम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
45	U74140HR2004PTC035562	इनट्रेड बिजनेस टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
46	U80301DL2009PTC195441	आइ. टाप एजुकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
47	U74899DL1995PTC074894	जय श्री फाइनेन्सियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
48	U45400DL2008PTC179618	जनता ड्रीम होम प्राइवेट लिमिटेड
49	U55101HR2008PTC038333	जॉन्ह कील्स होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
50	U70101DL2006PTC148918	ज्वालाजी प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
51	U74899DL2005PTC141171	कैस्टोन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
52	U74899DL1996PTC042531	के.एम. प्रोडक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
53	U51101DL2007PTC166490	क्रिश्ना ट्रेडएक्सपो प्राइवेट लिमिटेड
54	U45400DL2007PTC166277	के.वी.एम.आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
55	U45400DL2007PTC170872	लीग प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
56	U29299DL2005PTC135483	लायनशेर इक्विपमेन्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
57	U21020DL2008PTC178962	एम.एस. पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
58	U15419DL1999PTC102004	मामू फूड्स (प्राइवेट) लिमिटेड
59	U45200DL2008PTC181883	माइलस्टोन क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड
60	U24299DL1999PTC098547	मुस्कान इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
61	U65990DL1991PTC044968	एन.एन. स्क्रीवेनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
62	U74899DL1999PLC102105	एन.वाई. डाक्स सर्विसेस लिमिटेड
63	U18101DL2005PTC136498	नम्रित फैशन वियर प्राइवेट लिमिटेड

64	U31102DL1981PTC011752	निर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
65	U29253DL2010PTC211076	आयल्स बियरिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
66	U72900DL2007PTC168891	ओलिव सल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
67	U51102DL2007PTC160785	ओरचिड आर्ट एण्ड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
68	U64200DL2008PTC184079	ओरटस इनफ़ाटेल एण्ड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
69	U17120DL2007PTC166658	पी.ए. गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
70	U74140DL2007PTC170385	पास्को टैक पार्क प्राइवेट लिमिटेड
71	U74140DL2006PTC155038	पी.बी.ए.आई. कन्सल्टिंग इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
72	U74899DL1991PTC043783	पी.सी.एस. इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
73	U65929DL1981PTC012524	परपेचुअल फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
74	U93000DL2010PTC200316	क्विक होम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
75	U65921DL1990PTC042380	आर.सी. भाटिया फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
76	U45203HR1997PTC033456	राघव डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
77	U74899DL1994PLC063541	रौनक सेक्यूरिटीजी लिमिटेड
78	U40109DL2007PTC165271	रायलसीमा पावर प्राइवेट लिमिटेड
79	U74140DL2011PTC221872	रिकोन रिस्क एवेजन एण्ड कान्ट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
80	U80302DL2007PTC171899	आर.जीएस. इंस्टीट्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
81	U72300DL2008PTC180772	रोबिन इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
82	U74140DL2011PTC215903	रायल एच.आर. सल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
83	U51909DL2009PTC196216	आर.टी.जी. मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
84	U72200DL2005PTC133719	एस.पी.डी. इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
85	U72200DL2007PTC169874	सेज साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
86	U74899DL1987PTC027424	सरदार मेटल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
87	U29100DL2009PTC188927	सवितार सोल इनर्जी इंफिसिएन्सी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
88	U25190DL2009PTC188832	,शांती क्रिश्ना टायर एण्ड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
89	U74140DL2008PTC176209	,शाइन फैसिलिटी मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
90	U74899DL1984PTC017401	शिवहेम गार्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
91	U74899DL1986PTC023852	सिद्धार्थ इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
92	U00703DL2005PTC140780	एस.एल.ए. लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
93	U24210DL2008PTC183447	रनो हाइजिन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
94	U64202DL2008PTC177006	सोमा नेटवर्क्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
95	U51909DL2005PTC134015	सोरोस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
96	U74992DL2011PTC221459	स्पार्क बाइंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड



97	U74899DL1992PTC050741	स्पीयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
98	U25203DL2008PTC182666	स्पेरी विक्टर एडेसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
99	U22122DL2002PTC117146	स्पायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
100	U17291DL2007PTC159547	एस.आर.सी. टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
101	U52100DL2009PLC196143	एस.आर.एस. इंटरटेनमेन्ट लिमिटेड
102	U52100DL2009PLC196141	एस.आर.एस. रिटेल लिमिटेड
103	U52100DL2009PLC196194	एस.आर.एस. वैल्यू बाजार लिमिटेड
104	U45400DL2007PTC164365	सूमो बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड
105	U72900DL2008PTC176330	सनलाइट कम्प्यूसाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
106	U51109DL2000PTC108199	सनटेक्स एनविरो प्राइवेट लिमिटेड
107	U45200DL2007PTC157248	टाप ब्रिक रियेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
108	U17291DL2007PTC161160	ट्रेन्ज बुटिक प्राइवेट लिमिटेड
109	U72200DL2005PTC135320	टन्गस्टेन साफ्टवेयर डवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
110	U51909DL2005PTC133759	अंकल नेफ्यू इमपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
111	U72200DL2007PTC171906	यूनाइटेड इनफ्रासाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
112	U72900HR2009PTC039143	वेस्पायर टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
113	U72100DL1999PTC102377	वीबीइंग साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
114	U74999DL2011PTC212346	वेन्चर टैलेन्ट मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
115	U74899DL1995PTC066673	विश्वास एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
116	U70101DL2010PTC206416	वेस्टर्न कोस्टल इनफ्रावेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
117	U74999DL2010PTC206204	वेस्टर्न कोस्टल पोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
118	U51311DL2002PTC115704	योगदा इनटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

## कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 27 जनवरी 2012

सं. 560(5)/397--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

Sl. No.	Name of Company	CIN No.
1	मे० सीसीआईएस कम्प्यूटर्स प्रा० लि०	U72200UP2001PTC025951
2	मे० रहमान कोल्ड स्टोरेज आइस मिल्स प्रा० लि०	U15133UP1984PTC006792
3	मे० दयाल लाइफसाइंस प्रा० लि०	U01403UP2006PTC032134
4	मे० ठुकराल क्रेडिट एण्ड फाइनेन्स प्रा० लि०	U65921UP1986PTC007944
5	मे० शक्ती पालीमर्स प्रा० लि०	U19202UP2000PTC025143
6	मे० फार्टीला फार्म्स प्रा० लि०	U74900UP2008PTC036087
7	मे० एसएसआइएल इनवाइरो टेक्नोलॉजिस्ट प्रा० लि०	U74210UP2004PTC028711
8	मे० क्लासिक पालीमर्स प्रा० लि०	U32101UP1983PTC006332
9	मे० परफेक्ट पालीकान्स प्रा० लि०	U25209UP1983PLC006325
10	मे० एसएस सिन्थेटिक प्रा० लि०	U17123UP1983PLC005971
11	मे० बी डी के लैण्डकाफ्ट प्रा० लि०	U15541UP2000PTC025039
12	मे० जेनोडाइन टेक्नोलॉजिस्ट प्रा० लि०	U14295UP2008PTC035436
13	मे० मशीज हेल्थकेयर प्रा० लि०	U51397UP2008PTC034672
14	मे० श्री मनकामेश्वर कान्सट्रक्शन प्रा० लि०	U45400UP2007PTC034109
15	मे० ग्रीन डिवाइस रीनोवबेल एर्निजी प्रा० लि०	U74999UP2008PTC035586
16	मे० दास कोचिंग्स प्रा० लि०	U80904UP1996PTC021045
17	मे० नावेद सिददुकी रेडियो एण्ड टी बी इन्टरटेनमेन्ट प्रा० लि०	U74999UP2008PTC035580
18	मे० शानू इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा० लि०	U67120UP2001PTC026044
19	मे० एसवीएस डेव्लिंग यूनिट प्रा० लि०	U45200UP2007PTC032912
20	मे० एसपी थ्रेड मिल्स प्रा० लि०	U17231UP1991PTC013464

( एम पी शाह )

कम्पनी रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

मुंबई, दिनांक 27 जनवरी 2012

सं. आरओसी/560(5)/2011-2012----कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	कम्पनी का नाम
1	138592	रामा मल्टिको एक्सपोर्ट प्रा.लि.
2	172693	थोये होटल्स प्रा.लि.
3	172545	स्युक्वा व्हॅली होटल्स प्रा.लि.
4	153657	दन -फॉक्स इंपेक्स प्रा.लि.
5	002630	बैनकॉफ्ट एन्ड कंपनी। इंडिया। प्रा.लि.
6	151257	रोबोसॉफ्ट ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.
7	119265	फर्स्ट ऑफशन टेलिफिल्म प्रा.लि.
8	117515	पंचरत्न अग्रिकलचर प्रा.लि.
9	175854	संत मोनिका होटल्स प्रा.लि.
10	199056	कनकतेज आर्यन एन्ड स्टिल प्रा.लि.
11	189454	व्हाइट ओक फर्निचर प्रा.लि.
12	056163	सुहास टेक्सपोर्ट प्रा.लि.

13	123769	परागपुर टेडिंग प्रा.लि.
14	122277	न्यु सेंचुरि एक्सपोर्ट प्रा.लि.
15	127063	तारा इन्फोटेक प्रा.लि.
16	141493	सी एम शोअर सर्विसेस प्रा.लि.
17	096427	रेलिन प्रोजेक्ट फायनांस कन्सलटंसी प्रा.लि.
18	189897	लोडेक्स मशिनरी प्रा.लि.
19	023684	बिरबल इन्वेसमेंट एन्ड टेडिंग कंपनी प्रा.लि.
20	184264	रास्ता मैनेजमेंट कन्सलटन्ट प्रा.लि.
21	203363	तौरीन युरोपॉवर प्रा.लि.
22	035821	राजस्थान पाईप्स एन्ड प्रोफाईल्स प्रा.लि.
23	018157	मनमीर इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रिज प्रा.लि.
24	052954	स्पज एक्सपोर्ट प्रा.लि.
25	185100	सोडेक्सो फुड सर्विसेस इंडिया प्रा.लि.
26	142485	साईकृपा पेट्रोकेम प्रा.लि.
27	184477	श्री शिपिंग क्लिअरिंग एन्ड फॉर्वरडिंग प्रा.लि.
28	171254	बिराही इंडिया एडवार्डरस प्रा.लि.
29	046052	इंदु कन्स्ट्रक्शन एन्ड टेक्नीकल सर्विसेस प्रा.लि.
30	186048	व्हिजन प्रिमायसेस प्रा.लि.
31	169603	विकॉम इन्वेसमेंट मैनेजर प्रा.लि.
32	172831	झीरो सिक्स एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्रा.लि.
33	199564	राहुल इंडुसोल्युशन्स प्रा.लि.
34	012055	सेमित प्रॉडक्ट प्रा.लि.
35	173908	एस एन के मर्केन्टाईल प्रा.लि.
36	146053	ब्ल्यूग्रिल फुड प्रा.लि.
37	190184	सिगिनेचर अपस्टार्ट रिसर्च एन्ड इन्वेंलुएशन प्रा.लि.
38	205199	व्हिरतुल टेक्स्ट इंडुकेटर प्रा.लि.
39	099427	इनकॉन पेन्ट्स एन्ड केमिकल्स प्रा.लि.
40	190704	पॅनोरमा मल्टिटेड प्रा.लि.

41	144732	गुल लुब्रिकन्ट्स प्रा.लि.
42	126638	हार्दिक कॉम प्रा.लि.
43	049061	सईतिथ हॉस्पिटल प्रा.लि.
44	078991	मर्शुवाला फोरजिन्स प्रा.लि.
45	099744	असीक इन्फोटेक प्रा.लि.
46	049544	कॉमफॉर्म्स पेपर्स प्रा.लि.
47	076632	कुलएअर फायनान्स एन्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा.लि.
48	169599	खातू फॉरवर्ड्स प्रा.लि.
49	083364	टेक्समार्ट फॅब्रिक प्रा.लि.
50	178452	थर्माफेल्क्स पाईप्स एन्ड इन्सुलेसन प्रा.लि.
51	170182	टिन्डेट सेल्स प्रा.लि.
52	129951	बेलारी ब्रिक्केजेस प्रा.लि.
53	117337	सुपरसोनिक इनव्हेस्टर्स प्रा.लि.
54	186288	सुरा क्रिस्टल ग्लास वर्क्स प्रा.लि.
55	188728	केजीबी इन्फरमेशन सर्विसेस इंडिया लि.
56	034622	वायर होल्डिंग्स प्रा.लि.
57	190041	बंटी ज्युस एन्ड स्नैक्स स्टेशन प्रा.लि.
58	194989	प्रिया रायडिंग प्रा.लि.
59	126332	कॉन्टिन्युईंग एज्युकेशन सर्विसेस इंडिया प्रा.लि.
60	115306	बीबीए इंडस्ट्रिज इंडिया प्रा.लि.
61	107215	शुभलक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स प्रा.लि.
62	041328	सुरेश डेवलपमेन्ट्स प्रा.लि.
63	128925	बैंकस्टार टेक्नॉलॉजीस   इंडिया   प्रा.लि.
64	167552	सक्षम फुड्स एन्ड पैकर्स प्रा.लि.
65	142411	फिजी फ्रेम एंटरटेनमेंट प्रा.लि.
66	181356	सुयोग फॉरवर्ड्स प्रा.लि.
67	189407	एकॉन प्रिंट प्रा.लि.
68	183527	एक्सपोनेटिया एडव्हायझरी सर्विसेस प्रा.लि.
69	132212	सिरीमर ऑरचिड एलीजन्स प्रॉपर्टिज प्रा.लि.

70	175785	एक्वार्यस कमोडिटीज प्रा.लि.
71	056267	मकांदस मैनेजमेंट एन्ड पर्सनल सर्विसेस प्रा.लि.
72	184258	वैभव स्विचगिअर प्रा.लि.
73	151192	डेकोरेट मल्टिट्रेड प्रा.लि.
74	184485	श्रीपायसीट इन्फर्मेशन सिस्टम इंडिया प्रा.लि.
75	185712	क्यास्को नेटवर्क सोल्युशन प्रा.लि.
76	100239	टैनमे बिल्डर्स एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.
77	183529	एक्सपोनेटिया व्हेचर्स प्रा.लि.
78	186834	मार्टिनीक्यु होटल्स प्रा.लि.
79	108107	भरुगुपूर कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा.लि.
80	068842	गण-शांति इनवेसमेंट प्रा.लि.
81	145156	सबा मिनिरल्स प्रा.लि.
82	048780	शार्प प्रिंटिंग इंकस प्रा.लि.
83	176062	पीबीटी डेवलपर्स प्रा.लि.
84	052343	अविनित होल्डिंग प्रा.लि.
85	128802	सूर्या इक्विटिज प्रा.लि.
86	122261	क्याटरो ज्वेलरी प्रा.लि.
87	188753	फर्स्टरैंड क्लायंट एडवार्ड्स इंडिया प्रा.लि.
88	156629	राइडन कॉपीटल सर्विसेस प्रा.लि.
89	027768	प्रोसी इंजिनिअर्स एन्ड कन्सलटंट प्रा.लि.
90	188752	फर्स्टरैंड प्रा. वेल्थ मैनेजमेंट इंडिया प्रा.लि.
91	183530	एक्सपोनेटीया होटेल प्रा.लि.
92	063226	तृसा इंजिनिअरिंग प्रा.लि.
93	072793	शार्प इन्सुलेशनस प्रा.लि.
94	188543	एबीसी मुक्किज प्रा.लि.
95	183528	एक्सपोनेटीया लॉजिस्टीक एन्ड वेअरहाउसिंग प्रा.लि.
96	192000	चेतन दलाल फोरेंसीस सर्विसेस प्रा.लि.
97	187678	आरएसी कन्सलटंट प्रा.लि.
98	186703	मार्वे हॉस्पिटैलिटी प्रा.लि.
99	142520	कुमासी ट्रेडिंग प्रा.लि.

100	187106	आयएल एन्ड एफएस नैचरल रिसॉर्सेस लि.
101	174243	महाझेनको पॉवर जनरेशन कन्सलटंसी सर्विसेस लि.
102	051143	वसुधा होटल्स प्रा.लि.
103	030193	बटरफ्लाया ट्रेडल्स प्रा.लि.
104	154321	सायंटीफिक अँटलांटा इंडिया सेल्स एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.
105	181480	क्वेनटुम इक्विटी एडवार्जस प्रा.लि.
106	119972	हाजी डेरी प्रॉडक्ट प्रा.लि.
107	134776	कौउगर माईडवेअर प्रा.लि.
108	156395	जेएचपी फॅब्रिक प्रा.लि.
109	170575	व्हॅच्युलिक इंडिया प्रा.लि.
110	188626	राजमुद्रा मल्टि सर्विसेस प्रा.लि.
111	181886	टीया शुभम कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.
112	191508	अल्मा इट कन्सलटिंग प्रा.लि.
113	186354	पारेख फ्लोअर एन्ड फर्निशिंग प्रा.लि.
114	206911	गुझेटी कन्सलटिंग कंपनी प्रा.लि.
115	136000	एक्सलंट मरीन सर्विसेस प्रा.लि.
116	082643	ओमेगा इनव्हेस्टेड प्रा.लि.
117	162758	एपीटी रबर वर्क्स प्रा.लि.
118	204751	इंडो इएमयु फार्म प्रॉडक्ट प्रा.लि.
119	187851	लेम्को एडवार्जरी प्रा.लि.
120	121671	अकोला हॉस्पिटल प्रा.लि.
121	151862	आयटीएम टैंकर मैनेजमेंट प्रा.लि.
122	124274	समयक इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रा.लि.
123	199359	कॅटनझरो इंटिग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रा.लि.
124	160099	सुर्यआराधना टेडिंग कंपनी प्रा.लि.
125	029061	लोहोदू टुल्स प्रा.लि.
126	036200	अलमोडन्झ कन्सलटंस प्रा.लि.।
127	196769	ग्लोबल क्रिकेट वेन्चर्स(इंडिया)प्रा.लि.

पदमावती बालाकृष्णन  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

## कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

मुंबई, दिनांक 30 जनवरी 2012

सं. क्रं/689--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या
1	जी सी टेलिकॉम इंडिया प्रा.लि.	U51505MH2004PTC144292
2	आयएल एफएस ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी प्रा.लि.	U65993MH2006PTC164083
3	यस हेल्थकेअर सर्विसेस प्रा.लि.	U85100MH2003PTC143251
4	ब्ल्यू बेल होल्डिंग्स प्रा.लि.	U67120MH1992PTC067407
5	रिशब्स विल्स प्रा.लि.	U27310MH2007PTC168723
6	एमजेएम टेकस्टाईल प्रा.लि.	U99999MH1975PTC018325
7	ग्रिनडेल टेक्नोलॉजी प्रा.लि.	U72200MH2000PTC129728
8	श्रीनिवास सॉफ्टवेयर कन्सल्टंट प्रा.लि.	U72200MH2005PTC153993
9	सिका कन्सल्टंट लि.	U74140MH1983PLC030378
10	युरो एशिया कैपिटल मैनेजमेंट लि.	U65990MH1998PLC117261
11	अमिन पटेल इनवेसमेंट प्रा.लि.	U65990MH1983PTC030369
12	वासुदेव स्टिलस प्रा.लि.	U27100MH2004PTC149127
13	युना इनवेसमेंट एन्ड फायनांस प्रा.लि.	U67120MH1991PTC064124
14	पोली रिक्न इंडिया प्रा.लि.	U74999MH2008PTC179633
15	देबो एक्सपोर्ट इंडिया प्रा.लि.	U51900MH1984PTC031872
16	कुरेले एन्ड जाहोहिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	U74999MH2007PTC168090
17	फोटो इंडिया बिज़नेस एन्ड फायनांस लि.	U71200MH1987PLC042599
18	पोझीटिव कन्सल्टंट प्रा.लि.	U74140MH2004PTC150141
19	अमसेक स्पेशलिटी स्टिल प्रा.लि.	U27109MH2006PTC159434
20	फस्टविजन टेक्स प्रा.लि.	U13209MH2008PTC178571
21	स्टर्लिंग होल्डिंग्स प्रा.लि.	U65990MH1982PTC026255
22	श्री ब्रह्मा चैतन्य स्पीरुचल एन्ड मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि.	U93090MH2006PTC163443
23	कशतिज टेकस्टाईल प्रा.लि.	U99999MH1990PTC058098
24	लॉर्ड टार प्रॉडक्ट प्रा.लि.	U99999MH1990PTC058068
25	स्टेटस सिक्युरिटी सर्विसेस प्रा.लि.	U74920MH2006PTC164108
26	रिअलमेंटिमोनीअल.कॉम प्रा.लि.	U72900MH2004PTC147909
27	वनराज बिल्डर्स प्रा.लि.	U45200MH1996PTC098132
28	विजन ग्राफिक्स.कॉम प्रा.लि.	U72200MH1997PTC109774
29	सनीको इंडिया प्रा.लि.	U32300MH2005PLC151905
30	चट्टा कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा.लि.	U45202MH1972PTC016162
31	मिमसारीया झिपर्स एन्ड प्लास्टिक प्रा.लि.	U25209MH1989PTC050944
32	ब्रोकवे इनवेसमेंट एन्ड ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	U67120MH1980PTC023276
33	एनकोरे मार्केटिंग प्रा.लि.	U51900MH1986PTC039896
34	विवा होल्डिंग एन्ड ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	U65990MH1981PTC024306
35	कैम-टेक्स इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	U17110MH1995PTC084313
36	इमैनुअल एक्सपोर्ट प्रा.लि.	U99999MH2001PTC133817
37	एबीसी शिपिंग एन्ड लॉजिस्टिक प्रा.लि.	U63090MH2005PTC154881
38	सीकेटी स्टॉक्स एन्ड रिअलटी प्रा.लि.	U45400MH2007PTC175169
39	समर्थ इन्फोसिस्टम प्रा.लि.	U72900MH2007PTC169728



40	ऐसेन्स कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45400MH2007PTC175525
41	समर्थ डिस्ट्रिब्यूटर प्रा.लि.	U74999MH1997PTC020397
42	टेलीफैक्स बिज़नेस सिस्टम प्रा.लि.	U32200MH1986PTC052283
43	एनयुबी पॉलीकेम प्रा.लि.	U24130MH1999PTC123383
44	दिगविजय इंजिनिअरर्स प्रा.लि.	U31182MH2006PTC161852
45	स्मिता कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH1986PTC039167
46	सोमेश्वर होल्डिंग प्रा.लि.	U67120MH1991PTC060204
47	सिध्दार्थ शिपब्रेकिंग लि.	U61100MH1992PLC069383
48	प्रिन्स कम्प्यूटर्स प्रा.लि.	U72100MH1998PTC116551
49	ग्रिनगोल्ड लिज़िंग एन्ड फायनांस लि.	U65910MH1992PLC068597
50	शिपनओ सॉफ्टवेअर प्रा.लि.	U31200MH1996PTC099351
51	ओरीगा टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	U99999MH1987PTC112190
52	मायफेअर डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा.लि.	U99999MH1989PTC051604
53	इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेसमेंट प्रा.लि.	U67120MH1991PTC062762
54	कल्पद्रुम फार्मा एक्सीम प्रा.लि.	U51397MH2001PTC130347
55	त्रिवेदी इस्टेट एन्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH1982PTC026825
56	सोलस प्लास्ट एशिया प्रा.लि.	U25200MH1998PTC115355
57	विहार ऑटोमेशन प्रा.लि.	U74999MH2003PTC141822
58	नटराज पल्प एन्ड पेपर प्रा.लि.	U21010MH1985PTC036886
59	सेन'स कम्युनिकेशन प्रा.लि.	U74300MH1996PTC104348
60	वेलसेट सॉफ्टवेअर सोल्युशन प्रा.लि.	U72200MH2000PTC126746
61	अल-हफीज ट्रेडर्स एन्ड परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स प्रा.लि.	U51900MH1983PTC030716
62	श्रद्धा पॉलीवुड प्रा.लि.	U70101MH1994PTC082296
63	रेडमोर ग्लोबल प्रा.लि.	U51900MH1996PTC097442
64	केरोस इन्फोटेक प्रा.लि.	U72200MH2007PTC175230
65	एनरकॉन एंटरप्राइजेजस लि.	U74999MH2003PLC140028
66	सुपर लैमिनेशन प्रा.लि.	U28910MH1979PTC021322
67	सदन मोनोमर इंडस्ट्रिज लि.	U24100MH1986PLC039795
68	गालासिटीका इनवेसमेंट लि.	U67120MH1986PLC041219
69	वेस्टर्न इंडिया ऑक्सीडे प्रा.लि.	U24110MH1989PTC053086
70	फार्म रिच फूड्स प्रा.लि.	U15410MH1999PTC118088
71	विरतुल सोल्युशन इंडिया लि.	U72200MH2000PLC129700
72	डायमंड डाटाबेस टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	U72900MH2001PTC130949
73	मंगलसिध्दी इनवेसमेंट मिडिया एन्ड पब्लिसिटी प्रा.लि.	U65993MH2002PTC136473
74	फलकॉन ऑडिओरिडायज़िंग मिडिया एन्ड पब्लिसिटी प्रा.लि.	U74300MH2003PTC141895
75	श्रीनिवास कन्सल्टंसी प्रा.लि.	U67190MH2005PTC154225
76	व्हाईट वेदर एंटरटेनमेंट प्रा.लि.	U92132MH2006PTC160247
77	किस्टोक टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	U72200MH2005PTC158042
78	लिबर्टी इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	U28920MH1993PTC075829
79	छत्रसाल फायनांशियल सर्विसेस लि.	U67190MH1995PLC068108
80	रेलीअबल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH1972PTC015987
81	आदित्य उद्योग मित्र प्रा.लि.	U51900MH1982PTC026367
82	न्युकॉन डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH1988PTC046880
83	सुभाष अब्रासिव्स प्रा.लि.	U74999MH1995PTC085583
84	रॉजर इश्युरन्स सर्विसेस प्रा.लि.	U65999MH2005PTC158862
85	सीक्युरिटी कॅरीअर्स प्रा.लि.	U63000MH1981PTC024194
86	वनवीक लिज़िंग प्रा.लि.	U70101MH1984PTC034114

87	सिपिंगाफेल्ड अग्री होल्डिंग लि.	U99999MH1995PLC086895
88	ओंकार ऑईल एन्ड अलाईड प्रॉडक्ट लि.	U15140MH1995PLC088081
89	कपाडिया मल्टीप्लेक्स प्रा.लि.	U27100MH1997PTC106072
90	अंबिका फाइनेडिट लि.	U65921MH1997PLC108285
91	सायबरटेक सोल्युशन इंडिया प्रा.लि.	U72900MH2001PTC131842
92	साहारा इंडिया एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट कंपनी लि.	U92100MH2004PLC149438
93	डॉ. बिरमोले हेल्थकेअर प्रा.लि.	U85110MH2005PTC154688
94	लाईफ लाईन सुपर केअर इश्युरन्स सर्विसेस प्रा.लि.	U65999MH2006PTC161932
95	कल्याण ऐलीमेकटॉन प्रा.लि.	U31200MH1983PTC031713
96	इचरती इनवेसमेंट प्रा.लि.	U67120MH1998PTC113691
97	अर्म टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	U72100MH2005PTC154035
98	पेंटसन्स फायनांस प्रा.लि.	U65990MH1993PTC071125
99	इंद्रायणी मैनेजमेंट कन्सल्टंट प्रा.लि.	U99999MH1993PTC074274
100	श्रद्धा होम केअर प्रा.लि.	U24200MH2005PTC151729
101	ग्रोधन टेड्स प्रा.लि.	U51909MH2005PTC156182
102	लबध्दी स्टिल एन्ड टयुब प्रा.लि.	U27100MH2005PTC157759
103	शिल्पीयान रबर्स प्रा.लि.	U99999MH1982PTC026365
104	भोरुका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि.	U99999MH1981PTC023929
105	भोरुका इस्टेट एन्ड होल्डिंग प्रा.लि.	U67120MH1984PTC034242
106	सर्वोत्तम जनरल टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	U51900MH1986PTC039654
107	ऑनलुकर कंप्यूटर सर्विसेस लि.	U99999MH1986PLC040566
108	शहा सिध्दिविनायक डेवलपर्स प्रा.लि.	U70100MH1988PTC047429
109	कछवाल ब्रदर्स फायनांस एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	U65990MH1994PTC076025
110	गणेश शेल्टर्स एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	U70100MH1997PTC105720
111	शिल्पा स्टॉक सर्विसेस प्रा.लि.	U67120MH1997PTC111741
112	विध्या पॉलीयस्टर प्रा.लि.	U17120MH1997PTC112667
113	इक्वीटीटेड टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	U72900MH1998PTC115810
114	कुशल एंटरप्राइजेस प्रा.लि.	U99999MH1999PTC118749
115	विजय अग्रीनेटीज लि.	U51909MH2001PLC133181
116	मेटिक्स मर्कटाईल कंपनी प्रा.लि.	U51909MH2005PTC152774
117	लखन टेड्स प्रा.लि.	U51909MH2005PTC156183
118	सैंटन कम्युनिकेशन्स लि.	U92100MH1995PLC092286
119	तनवाला सिंथेटिक टेक्सटाईल लि.	U17119MH1988PLC160381
120	इनटाईम स्टिल एन्ड अलाउ प्रा.लि.	U51109MH2007PTC166805
121	रावलस पैकिंग मटेरिअलस प्रा.लि.	U74950MH1974PTC017584
122	कॉम्पोसाईट पॉलीमर्स प्रा.लि.	U25200MH1988PTC048171
123	नरीमन नल्लासेठ प्रा.लि.	U45200MH1971PTC015464
124	श्रीकृष्णा थेटर्स एन्ड होटल्स प्रा.लि.	U55200MH1982PTC026827
125	जिना मरीन सर्विसेस प्रा.लि.	U61100MH1984PTC032409
126	सुलनिक एजन्सी एन्ड मशीनरीज प्रा.लि.	U99999MH1984PTC034443
127	चेल्लाराम इंक प्रॉडक्ट प्रा.लि.	U99999MH1986PTC039879
128	नल्लासेठ कॉमटेक प्रा.लि.	U28920MH1986PTC041647
129	फलकॉन कर्मशिल सर्विसेस प्रा.लि.	U67190MH1987PTC044511
130	होटल चंद्रलोक प्रा.लि.	U55200MH1990PTC055910
131	रमया एक्झीम प्रा.लि.	U51900MH1993PTC075479
132	रुषम केमटेक्स टेडिंग प्रा.लि.	U29299MH1993PTC075497
133	हरिष रोप्स प्रा.लि.	U51900MH1995PTC095094

134	डायम्पेक्स ट्रेडिंग प्रा.लि.	U51311MH1995PTC095535
135	विग्यापन व्हिजन प्रा.लि.	U92100MH1996PTC103270
136	पॉलीटेक प्रिंट इंडिया। लि.	U22210MH1997PLC107993
137	जय सुब ब्रोकिंग प्रा.लि.	U67120MH1999PTC122867
138	डीईवी इन्फोटेक प्रा.लि.	U72900MH2000PTC129195
139	एस एस पी एस सिक्युरिटी एन्ड सर्विसेस कंपनी प्रा.लि.	U67120MH2001PTC134135
140	नोबले असाईंग एन्ड हॉलमार्कींग इंडिया। प्रा.लि.	U51398MH2002PTC136430
141	साई रेटीएट एन्ड हेल्थ सर्विसेस प्रा.लि.	U85110MH2004PTC143908
142	सनकॉप फायनांशियल सर्विसेस प्रा.लि.	U67190MH2004PTC146540
143	सगोना सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	U72200MH2004PTC147321
144	ओम कोरु कंटेनर्स प्रा.लि.	U28992MH2005PTC151253
145	मुग्गीझ टेक्नोलॉजी प्रा.लि.	U72900MH2005PTC151324
146	हायराइस डेवलर्स इंडिया। प्रा.लि.	U45200MH2005PTC156528
147	चमन इलेक्ट्रिकल्स लि.	U40105MH2006PLC164161
148	के के फार्मा सेल्स लि.	U51397MH2006PLC166119
149	स्प्रेक्टा पब्लिक रिलेशन्स प्रा.लि.	U74300MH1991PTC062277
150	हरिशिता होल्डिंग प्रा.लि.	U67120MH1992PTC065514
151	एमटीआर होटल एन्ड रिसॉर्ट प्रा.लि.	U55200MH1995PTC094973
152	आग्री इन्फोटेक ऑनलाइन इंडिया। प्रा.लि.	U72900MH2000PTC126168
153	आलाय फायनांशियल सर्विसेस प्रा.लि.	U67190MH2000PTC129042
154	स्पिरीचल इसेन्स फैक्टरी प्रा.लि.	U24248MH1984PTC032725
155	चेसायर लिडिंग लि.	U99999MH1985PLC036798
156	मोटब्लेस इनवेसमेंट लि.	U67120MH1986PLC041049
157	शहा हॉलिडे रिसॉर्ट प्रा.लि.	U55100MH1988PTC049586
158	लौकिक डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH1991PTC062010
159	लविना होल्डिंग प्रा.लि.	U67120MH1994PTC076338
160	देविका सिक्युरिटी एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.	U65990MH1994PTC079696
161	ब्रह्मभट्ट होम फिनवेस्ट लि.	U65922MH1995PLC084502
162	कला डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH1995PTC089992
163	एनआरएस प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U45200MH1995PTC091431
164	मुनिसुर्वत प्रॉपर्टिज इंडिया। प्रा.लि.	U70100MH1995PTC093454
165	चमत्कार फिनवेस्ट प्रा.लि.	U67120MH1996PTC104055
166	अभ्युदय मार्केटिंग प्रा.लि.	U51900MH1999PTC118662
167	जी.बी.एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रा.लि.	U51900MH1999PTC121327
168	प्रिमीयर ट्रेडिंग एन्टरप्राइजेस इंडिया। प्रा.लि.	U51900MH2000PTC126271
169	प्रिवनभारती कॉम प्रा.लि.	U72300MH2000PTC128044
170	निलम इन्फोटेक सर्विसेस प्रा.लि.	U72200MH2000PTC129268
171	व्हायकॉम इन्फोटेक इंडिया। प्रा.लि.	U72900MH2002PTC135463
172	मल्टिलिड्रींग एन्ड इनवेसमेंट इंडिया। प्रा.लि.	U65993MH2002PTC138395
173	हायराइस शेल्टर प्रा.लि.	U70101MH2003PTC139981
174	स्टूटच इन्वोवेशन एन्ड कन्सल्टंस प्रा.लि.	U74140MH2004PTC148448
175	चियांग पटेल एन्ड यरबी इंडिया। प्रा.लि.	U74210MH2000PTC127421
176	केजेएसएल लॉजिस्टिक प्रा.लि.	U63000MH2005PTC155650

177	तिहानका ऑईल एन्ड गैस इक्युपमेंट इंडिया प्रा.लि.	U29219MH2006PTC163955
178	बसर ऑल्युमिनिअम प्रा.लि.	U27203MH2006PTC165475
179	च अट कर्मा इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	U29199MH2006PTC165419
180	लिटोलिअर कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH2008PTC177739
181	प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल इस्टेट एन्ड एजंट प्रा.लि.	U67120MH1973PTC016304
182	स्वर्ण धारा इनवेसमेंट लि.	U65920MH1989PLC051505
183	निर्माण पॉलिमर्स प्रा.लि.	U25209MH1989PTC052860
184	कुणाल टेक्निकल केबल प्रा.लि.	U32109MH1992PTC066291
185	चढ़ा एन्ड चढ़ा डेवलपर्स प्रा.लि.	U45202MH1992PTC069210
186	फॉर्बड इंपेक्स प्रा.लि.	U51900MH1995PTC087718
187	आर्यन टान्सपोर्ट प्रा.लि.	U63090MH1996PTC097024
188	पडियार अग्रो फार्मस लि.	U01110MH1997PLC106669
189	शरद आरोग्य धाम होटल प्रा.लि.	U55201MH1997PTC109951
190	एनपीएस टायवल सर्विसेस प्रा.लि.	U63040MH1998PTC113661
191	मीनानजली कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45201MH1998PTC114985
192	टिळक एक्सपोर्ट प्रा.लि.	U74999MH1998PTC116995
193	गोल्डनलाईन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लि.	U72200MH2000PLC124100
194	एसीइ बोर्डकॉम लि.	U52335MH2001PLC134017
195	फेअरलाईन गृह निर्माण प्रा.लि.	U70100MH2004PTC144579
196	साउंडवेव क्रियेशन प्रा.लि.	U72900MH1999PTC120834
197	श्री सुभद्रा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U67190MH2005PTC153457
198	लॉर्ड्स गणेश फेशन प्रा.लि.	U74994MH2006PTC159595
199	पुलगांव ऑईल मिल्स प्रा.लि.	U15100MH1951PTC010561
200	सुप्रिम टेक्सटाईल प्रा.लि.	U17110MH1974PTC017778
201	अद्रोईत इनवेसमेंट एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.	U65990MH1977PTC019645
202	वि मायको इलेक्ट्रॉनीक लि.	U99999MH1983PLC030552
203	सभम वाणिज्य लि.	U51900MH1985PLC037087
204	इटीबार शहा कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा.लि.	U45200MH1986PTC040906
205	धनराज इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	U29130MH1987PTC044999
206	दक्कर प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U70100MH1988PTC046768
207	महाविर बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स प्रा.लि.	U25202MH1988PTC048570
208	कम्बाईन प्रोजेक्ट एन्ड अलाईड इंजिनिअरिंग कंपनी प्रा.लि.	U74999MH1989PTC053590
209	ऑल प्रूफ टापोलाईन प्रॉडक्ट प्रा.लि.	U99999MH1990PTC058116
210	एन एच वसईवाला केमिकल्स इनवेसमेंट प्रा.लि.	U99999MH1990PTC059552
211	विश्वनाथ टेक्सटाईल मिल्स प्रा.लि.	U17120MH1991PLC062191
212	हिरो शेल्टरस प्रा.लि.	U45200MH1992PTC068833
213	रैला इनवेसमेंट एन्ड फायनांस प्रा.लि.	U67120MH1992PTC069545
214	डेलवेल प्रॉपर्टि डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH1993PTC072654
215	मार्क फिल्मस प्रा.लि.	U92110MH1993PTC075202
216	विलफ बिल्डर्स प्रा.लि.	U70101MH1994PTC077846
217	उरल बिल्डर्स प्रा.लि.	U45200MH1994PTC079725
218	पश्चिम इस्टेट प्रा.लि.	U45200MH1994PTC079726
219	पारसिक इस्टेट प्रा.लि.	U45200MH1994PTC080440
220	कलिक्स टेडर्स प्रा.लि.	U99999MH1994PTC082844
221	कलिक्स होल्डिंग प्रा.लि.	U99999MH1995PTC086045
222	विजयकुमार एन्ड कंपनी शिप ब्रेकर्स प्रा.लि.	U35110MH1995PTC086414
223	जीतराज फायनांशियल सर्विसेस प्रा.लि.	U67190MH1995PTC091007

224	तहरीक फायनांस एन्ड इनवेसमेंट कंपनी लि.	U65900MH1996PLC097930
225	सेवाग्राम फायनांस लि.	U65923MH1996PLC097944
226	कैम्बेल कॅपीटल लि.	U67120MH1996PLC101124
227	अमरदिप इंडिया सेव्हिंग एन्ड फायनांस लि.	U65990MH1996PLC104555
228	झेड एन्ड जेड डाटाटेक प्रा.लि.	U30000MH1997PTC106287
229	बॉस मैनुफैक्चरिंग एन्ड मार्केटिंग प्रा.लि.	U64200MH1997PTC106550
230	डी आर पॉल अँसोसिएट इंजिनिअर्स एन्ड कन्सल्टन्स लि.	U74210MH1998PLC114870
231	जयेश डायमंड प्रा.लि.	U36912MH1999PTC119781
232	फ्रंटैक सर्विसेस लि.	U51100MH1999PLC120689
233	कमेन्स कन्सल्टे प्रा.लि.	U74140MH1999PTC122544
234	वनटेम बिज़नेस सोल्यूशन इंडिया लि.	U72100MH2000PLC127520
235	एसजेए प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U72200MH2000PTC129750
236	सिर्नजी फार्म प्रा.लि.	U01211MH2001PTC131883
237	एस के फिल्मस एन्ड एंटरटेनमेंट प्रा.लि.	U92132MH2001PTC132329
238	फिक्वेसीबज़ कूरियर सर्विसेस [इंडिया] प्रा.लि.	U64120MH2002PTC137529
239	श्री गायत्री शेअर्स एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.	U67120MH2003PTC138651
240	अँक्युसेंट कर्मेशिअल कंपनी प्रा.लि.	U51909MH2003PTC141268
241	प्राईम कारटून प्रा.लि.	U21020MH2004PTC144228
242	त्रिनित लाईफस्टाईल प्रा.लि.	U17100MH2004PTC144983
243	आर एस इक्विटी एंडाव्हाइजर प्रा.लि.	U74140MH2004PTC145108
244	स्वार संभव प्रा.लि.	U92140MH2004PTC145752
245	मुलुंड वेब सर्विसेस प्रा.लि.	U72900MH2004PTC149216
246	सेलफोन एंटरटेनमेंट [मुंबई] प्रा.लि.	U64202MH2004PTC149544
247	जम्बो डेरी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा.लि.	U15200MH2005PTC151094
248	राक्स इमेज मॉटर प्रा.लि.	U74210MH2005PTC158122
249	क्षितिज बिज़नेस सर्विस प्रा.लि.	U99999MH2006PTC159379
250	अँकटिह बिज़नेस सर्विसेस प्रा.लि.	U99999MH2006PTC159410
251	इसात मार्केटिंग प्रा.लि.	U52392MH2008PTC177961
252	आहुना इनवेसमेंट एन्ड फायनांशियल कन्सलटन्सी सर्विसेस प्रा.लि.	U67120MH1985PTC037733
253	अफीक फायनांस लि.	U99999MH1987PLC042503
254	वर्ल्डट्रेड कम्युनिकेशन एन्ड सिस्टम [इंडिया] लि.	U30000MH1987PLC042557
255	थु विलन टेक्निक प्रा.लि.	U28920MH1987PTC044808
256	बेस्ट ऑडिओ-व्हिड्युअल अँम्युजमेंट प्रा.लि.	U74999MH1993PTC072170
257	स्प्रिंग फॉल्स एक्सपोर्ट अँडव्हाइजरी एन्ड मार्केटिंग प्रा.लि.	U74300MH1994PTC083127
258	मोतिलाल ओमप्रकाश इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	U29290MH1995PTC085655
259	निव्हा ऑनलाईन प्रा.लि.	U72900MH1995PTC089397
260	प्रियम कॅपिटल सर्विसेस प्रा.लि.	U65923MH1996PTC096598
261	डायना स्विच मोड पॉवर प्रा.लि.	U32100MH1996PTC103081
262	सिंकोनस एक्झीम लि.	U99999MH1997PLC105731
263	खंडेलवाल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U70100MH1997PTC109932
264	असक्मे डिरेक्ट मार्केटिंग लि.	U74140MH1999PLC122016
265	स्टाटजेम मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि.	U70200MH1999PTC123052
266	याशी बायोसॉफ्ट प्रा.लि.	U72900MH2000PTC129965
267	अँकिसंट सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	U72900MH2001PTC132037
268	आयएल मैग्नेटिक सिस्टम प्रा.लि.	U29198MH2001PTC132693
269	श्रुतिवोरा डॉट कॉम सर्विसेस प्रा.लि.	U51909MH2002PTC134790
270	वरबिना टेडिंग एन्ड एक्सपोर्ट कंपनी प्रा.लि.	U51909MH2002PTC137092

271	जेएमबीएस क्लोदिंग कंपनी लि.	U17120MH2003PLC139022
272	लाईफगार्ड मल्टी इश्युरन्स सर्विसेस प्रा.लि.	U67200MH2003PTC139204
273	प्लैनेट इ सर्वे प्रा.लि.	U74999MH2003PTC142607
274	रोझी डायमंड प्रा.लि.	U36910MH2004PTC147685
275	मैजिकस्टार सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	U30009MH2004PTC149078
276	अश्विनी हॉस्पिटल एन्ड आय सी सी यु प्रा.लि.	U85110MH2005PTC150932
277	चिंतामणी आर्यन एन्ड स्टिल कंपनी प्रा.लि.	U27100MH2005PTC152787
278	शालिमार कैन प्रा.लि.	U28992MH1981PTC024653
279	गुरुदेव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH2006PTC160411
280	सिनारिओ इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि.	U74999MH2007PTC166969
281	विदुषी टेडर्स प्रा.लि.	U52341MH2007PTC171961
282	आर्यन फ्लेवर्स एन्ड फ्रेग्रेन्स प्रा.लि.	U24246MH2008PTC178450

हेनरी रिचर्ड  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

मुंबई, दिनांक 30 जनवरी 2012

सं. कर/560(5)/690--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या
1	एचआय-एफआय कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH2003PTC139842
2	आयजिनेसीस सॉफ्टवेयर सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH1991PTC062331
3	सैंक्स फिनान्सीयल सर्विसेस लिमिटेड	U65923MH1995PLC086240
4	मामल फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1993PTC074575
5	जेवीएस इन्फोकॉम इंडिया लिमिटेड	U72900MH2001PLC131996
6	पूर्ती फिन्वेस्ट लिमिटेड	U65990MH1996PLC101685
7	नेन्सी सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1994PTC080914
8	माखनचोर हॉटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1990PTC056259
9	पीसीटेल वायरलेस प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2007PTC171141
10	मित्तल फिनान्सीयल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH1995PTC086957
11	डी एस एअर प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1995PTC088940
12	स्कॅन फलो इंडिया लिमिटेड	U51900MH1997PLC111604
13	शान्ती रोजीन्स प्राइवेट लिमिटेड	U24110MH1998PTC116419
14	एन्वायरो सॉफ्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2008PTC179088
15	इन्दु इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1985PTC036490
16	रचना इन्टेरिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74994MH1995PTC090694
17	रेत्ना ऑपरल्स अँड गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U18101MH1989PTC053364
18	कामधेनू साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन्स लिमिटेड	U15140MH1993PLC074178
19	एक्सोटीक कलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1990PTC059421

20	अशर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1995PTC088364
21	स्टलीग सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72100MH1999PTC120380
22	इबेरीज अमारा फिनान्स अँड कन्सल्टन्सी लिमिटेड	U67190MH1996PLC101292
23	रुजुता केमीकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24116MH1997PTC107008
24	विनस बायोटेक लिमिटेड	U99999MH1997PLC105393
25	अंश बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U51397MH2005PTC155502
26	मतीजा टेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1996PTC101833
27	श्री चैतन्य फायर इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U31909MH2005PTC153810
28	सोना प्लैंटेशन अँड फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1979PTC021253
29	नायलॉन्स प्लैंटेशन प्राइवेट लिमिटेड	U01120MH1979PTC021255
30	मॅको एज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U32200MH1988PTC034302
31	महेश ब्रिजेश मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1984PTC034759
32	फेडसन इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U24222MH1985PTC038127
33	हेवन अँगोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1994PTC074963
34	क्युलाबा एस्टेट अँड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1994PTC079010
35	युगल एस्टेट अँड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1994PTC080338
36	एमीनेन्ट एस्टेट अँड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65921MH1994PTC080866
37	टॉप मोस्ट अँगोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U01110MH2004PTC084422
38	सेगा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1995PTC080690
39	रॉयल पाल्मस लाइफकेअर प्राइवेट लिमिटेड	U85310MH2002PTC135845
40	आरएसटी रिऑल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2007PTC170967
41	अंकलेश्वर लॅन्ड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1988PTC049915
42	नेमकेतू प्लास्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U25209MH1994PTC083965
43	युरो-अल्फा फिनान्स अँड कॅपिटल प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH1995PTC093378
44	क्युल्वर होल्डींग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2001PTC131039
45	किस्टल वेल रिसॉर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH1997PTC105505
46	अर्जनकूर भिमा टकली पॉवर कंपनी लिमिटेड	U40108MH2005PLC180291
47	नाटेल्को सेल्युलर प्राइवेट लिमिटेड	U84200MH1994PTC080740
48	डायमंड होम शेल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH1995PTC086018
49	सीओनी केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U24100MH1979PTC021548
50	सिंगल विंडो फिनान्सीयल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH1994PTC0378422
51	ट्रेनटान प्रिंटिंग इंकस प्राइवेट लिमिटेड	U21098MH1996PTC102969
52	ओमसाई अँगोटेक इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड	U01100MH1997PLC107938
53	वेदो इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U92100MH2005PTC152039
54	कॅपटेक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1996PTC046079
55	आकार सर्जिकल प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U33110MH1990PTC058448
56	स्टारज्योत डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1994PTC083165
57	स्क्रिपटेक एक्वीटी प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1996PTC096568
58	ल्युमन फोन मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH1996PTC101247
59	डेल-हाउजी लॉडीटी प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1999PTC118207
60	क्वाड्रेंटिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2007PTC158951
61	टेडसफेरे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U91110MH2000PTC124176
62	पीटीएफइ रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U25190MH1994PTC080638
63	रॉलस्टार फिन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1995PTC093471
64	स्क्रिपटेक स्टॉक्स अँड शेअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH1996PTC096521

65	ब्राझ हाउसींग कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1991PTC062429
66	टीनसेल फिनान्सीयल सर्वीसेस लिमिटेड	U67190MH1993PLC074166
67	विश्वकर्मा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1994PTC079413
68	आरएसए कॅपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1995PTC086491
69	एसएफ कॉम्प्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1983PTC030451
70	एकर डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड	U36910MH2004PTC096964
71	सी बी एस डायमंड प्राइवेट लिमिटेड	U51398MH1999PTC120295
72	ब्रैन्ड मॅगनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2004PTC134627
73	देव स्टील फॅब प्राइवेट लिमिटेड	U27100MH2005PTC151513
74	क्वान्टीटैटीव सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U65999MH2008PTC177411
75	प्रेशस फिनान्स अँड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1994PTC078600
76	अटलांटा पेट्रो प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U23200MH1995PTC090961
77	उन्नती एज्युकेशनल कन्सलटन्सी सर्वीसेस अँड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	U80221MH1998PTC115153
78	सिग्नल ऑटो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U31100MH1995PTC090652
79	वर्षा स्विचिंगअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U31909MH1995PTC091030
80	सुरेसिल बायो इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	U29305MH2001PTC132597
81	ऑप्टीमम बिज़ीनेस सोल्युशन्स लिमिटेड	U72900MH2001GAP133190
82	टॉलेन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड	U51505MH2004PTC143944
83	अँदेदगे मिडीया प्राइवेट लिमिटेड	U92110MH2006PTC156942
84	नर्मदा स्ट्रक्चरलर्स अँड वेसल्स प्राइवेट लिमिटेड	U29100MH1981PTC025308
85	सॉफ्टब्लेझ इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH1996PTC101135
86	जितेन्द्रा अप्ररल्स प्राइवेट लिमिटेड	U52322MH1998PTC113022
87	हीना इन्फोसीस लिमिटेड	U72200MH1999PLC120398
88	121नाउ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2000PTC121956
89	अपिकल मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2003PTC139818
90	फ्लोरेसेन्ट एअर कार्गो प्राइवेट लिमिटेड	U63012MH1993PTC074789
91	इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45208MH1996PTC096321
92	यु-फोकस एन्टर फेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2005PTC155466
93	वीकॉम नेट सोल्युशन इंडिया लिमिटेड	U72900MH2000PLC124617
94	ओ अँड पी अँडवर्टायजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH2004PTC143880
95	काशीदेव फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH1994PTC078752
96	नरेन्द्रा वेलजी टेक्सटाइल्स अँड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1982PTC028093
97	न्यु-इरा होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1991PTC063417
98	ग्लोरी लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH1992PTC064704
99	शुभ-लाम फिन्वेस्ट बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1992PTC064759
100	अस्टॉर फिनान्सीयल सर्वीसेस लिमिटेड	U65920MH1993PLC072804
101	वन कॉल हाउसींग प्राइवेट लिमिटेड	U70103MH1988PTC049713
102	अँबोल्युट फिनान्स अँड इन्वेस्टमेन्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1990PTC055445
103	स्पोर्ट्स वेंकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U92410MH1994PTC077163
104	इन्टेग्रैन्ड इन्फर्मेशन्स सिस्टम्स लिमिटेड	U65910MH1996PLC096685
105	प्राइम सिस्टम्स अँड फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH1996PTC103934
106	जलवा मिडीया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U64200MH2000PTC124446



107	मोना इसिक्युरिटीज लिमिटेड	U72900MH2000PLC126072
108	वांझ एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2004PTC148085
109	तारा सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U64120MH2005PTC156507
110	श्री अनूपार केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U24230MH1994PTC079850
111	मास्टरपीस इन्टेरिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1986PTC096239
112	सुरंग बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1973PTC016561
113	श्रीवास्ता डेअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U15280MH1993PTC074038
114	मोना लाइफ सांघन्सेस लिमिटेड	U51900MH2000PLC125977
115	अमेया सुपरमार्केट लिमिटेड	U51900MH2003PLC138623
116	किमावन्ती प्राइवेट लिमिटेड	U85990MH1967PTC013839
117	ऑवार्ड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U27200MH1989PTC051549
118	श्रेयस डायग्नोस्टिक रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	U85195MH1991PTC059735
119	सिटीजन होम लोन फिनान्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65820MH1991PTC063040
120	अल्ट्राटेक सिन्थेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1994PTC082220
121	फॉरेस्ट हिल्स डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U20101MH1994PTC083919
122	पायोनीर इन्फोवीजन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH1995PTC087843
123	पार्श्वनाथ कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1995PTC093189
124	जेटसेट मार्केटींग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51800MH1996PTC098507
125	सीएमसीएस इंडिया इसिक्युरिटी प्राइवेट लिमिटेड	U72100MH2000PTC124457
126	राइन शीप मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U63010MH2000PTC125673
127	सिग्मा एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U92100MH2004PTC144541
128	इनरसोर्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U31909MH2006PTC161961
129	प्युमा फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1992PTC065167
130	मास्टर डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	U65820MH1992PTC068427
131	इसोटेक इर्रेडिटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U33111MH1995PTC085887
132	शिवम इलेक्ट्रोफॉब प्राइवेट लिमिटेड	U14292MH1996PTC112777
133	समर्थ ब्रोकींग प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2007PTC171361
134	विदर्मा बोर्ड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1960PTC011772
135	श्री यमुना ऑटो लिनर्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1982PTC028068
136	ऑर्कले टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड	U32105MH1991PTC061589
137	ओपन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1991PTC063148
138	अनिल अंग्रो प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U01110MH1992PTC068103
139	कामधेनू लिजिंग अँड फिनान्स लिमिटेड	U65910MH1994PLC083918
140	मायमकान कॉम प्राइवेट लिमिटेड	U70200MH2000PTC124497
141	सप्तर्षी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72400MH2000PTC128958
142	आर टी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2004PTC144712
143	इसॉटो इंडिया वी प्राइवेट लिमिटेड	U33110MH2000PTC127430
144	पारेख इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U32106MH1884PTC032523
145	अलसी असोसीएट्स प्राइवेट लिमिटेड	U50400MH1986PTC040902
146	पटेल प्लेंटेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U01110MH1993PTC070448
147	टजमेशा सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC091496
148	ज्युरा फिनस्टोक प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1996PTC102942
149	रिचलाइन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1997PTC111919
150	शक्तीकुमार एम संचेती इन्फास्ट्रक्चर अँड डेवलेपर्स लिमिटेड	U45200MH2005PLC152068

151	आनंद मॉल डेवलपर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2006PTC164650
152	पिनेल्ट पेट्रोलीयम प्राइवेट लिमिटेड	U40200MH2005PTC165839
153	टीके ट्रैवल्स अँड टूर प्राइवेट लिमिटेड	U63040MH1985PTC038037
154	जेनेसीस ग्रीनफील्डस लिमिटेड	U99999MH1997PLC108025
155	माइंड.फोर्स कन्सलटन्सी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74100MH2004PTC144198
156	चैताली सेल्स एजन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2006PTC158807
157	सागर इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड	U67120MH1974PLC017426
158	छेददार कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH1994PTC076878
159	कॉन्टैक्ट फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH1995PTC090302
160	डॉफोडील्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15100MH1999PTC118209
161	विजीनरी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	U72200MH2000PLC127857
162	आनंद हेल्थ एक्वीपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U33125MH1989PTC054746
163	पदी इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	U28920MH1991PTC060614
164	सेक मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड	U29290MH1994PTC079716
165	पॉशमॉड मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC089180
166	ऑलेज क्वालिटी अँड फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH1996PTC100308
167	विवा ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	U34101MH2002PTC136844
168	फर्स्ट टेक्सटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U52322MH2005PTC158510
169	सारंग फाइन आर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U36998MH1988PTC041825
170	वैभव प्रेस लिमिटेड	U22210MH1992PLC069655
171	स्क्वेअर कॉम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2004PTC146247
172	फोरम अंपरल्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1992PTC065952
173	अकैगीज एचआरएम कॉम प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2000PTC127672
174	मांडवी होम फिन प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1989PTC052429
175	श्री आशापूरा सेल्स एजन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2003PTC141485
176	न्युमेक पेट्रोकेम सर्वीसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U29299MH2005PTC152466
177	चारिफ प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U31401MH2007PTC174189
178	आदिकेशव इन्वेस्टमेन्ट्स अँड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65923MH1981PTC024152
179	एक्वेस्ट पेट्रोलीयम प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1985PTC036778
180	वेलानोवा फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड	U24239MH1986PLC040823
181	ऑल टाइम फूड प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15410MH1989PTC058289
182	प्रथिन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC085337
183	प्लस ऑरगैनीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U24230MH1995PTC087175
184	एरीज कन्सलटन्ट्स अँड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1985PTC090225
185	शक्ती डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड	U36912MH1995PTC090391
186	मेलकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	U17121MH1995PLC092336
187	रेडस्टोन मर्कन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1996PTC095777
188	अगरवाल इन्टरनैशनल लिमिटेड	U51900MH1996PLC096033
189	प्रणव हाउसींग अँड फिनान्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65920MH1996PTC098158
190	पीवीएस टूल्स अँड टेक प्राइवेट लिमिटेड	U28939MH1998PTC099801
191	शीतलनाथ फिनान्स लिमिटेड	U65900MH1997PLC108972
192	साहस कन्सलटन्ट्स अँड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH1997PTC109180
193	सन्वीन फिनान्स अँड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1997PTC109708
194	फर्स्टसिटी कॉम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U80302MH1997PTC112640

195	पल्लवी इन्फोवे प्राइवेट लिमिटेड	U73100MH2000PTC125237
196	टीपीएल शिपिंग एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2000PTC127836
197	मीरा शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2004PTC147091
198	पिपल फर्स्ट लर्निंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U80903MH2005PTC154699
199	एन्टोपी एनर्जी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2005PTC156640
200	एलुसीव पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2006PTC163554
201	कॉस्मीक रेज एचआर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2006PTC164658
202	एम्का बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1980PTC023403
203	पार्कीन एक्झीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC092852
204	उमीया हाउसींग कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2002PTC136427
205	चंदन फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड	U36100MH2004PTC150017
206	गनोरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड	U01110MH1950PTC010477
207	गनोरी शेती प्राइवेट लिमिटेड	U01110MH1950PTC010496
208	नकोसी फॅब्रीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1974PTC017326
209	अमिकांचन फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH1987PTC042490
210	एच जोशी इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U29130MH1992PTC089421
211	स्वागत ऑटो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1993PTC073625
212	मल्टी बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड	U21829MH1994PTC078472
213	ट्रेडस्टोन कॉम्प्युटर्स लिमिटेड	U72900MH1994PLC077035
214	पॉइंटर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1996PTC097105
215	सीआरडी होल्डींग प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH2001PTC133075
216	विजन मरीन प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2004PTC146387
217	ऑथेन्टीवा टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72100MH2005PTC155099
218	एसटीसीआय इन्शुरन्स डिस्ट्रीब्युशन्स लिमिटेड	U74999MH2007PLC167966
219	मेनोकीस मशीनरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1983PTC029770
220	रमेश कुलकर्णी कम्प्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH1989PTC052368
221	शाही मसाला प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1990PTC055899
222	कोठारी सफेती ब्वाल्स लॉकर्स अँड सिक्युरिटीज कॉम प्राइवेट लिमिटेड	U65920MH1992PTC068411
223	होंडा फाइनकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24210MH1993PTC073631
224	इस्टर इलेक्ट्रॉनीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1994PTC082767
225	रे कार्गो मूवर्स लिमिटेड	U22221MH1998PLC114581
226	एम ए स्टॉक ब्रोकींग प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH2000PTC129127
227	साई सिद्धेश लॉजीस्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2004PTC147856
228	रिगल इन्स्लेटर प्राइवेट लिमिटेड	U28920MH2005PTC196095
229	कंपास वेल्थ मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2001PTC1371548
230	फेशेन अप प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U24249MH2006PTC160950
231	वोकमैन मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड	U29261MH2007PTC174544
232	सबस्टैन्स सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड	U92120MH2008PTC180417
233	सौनर आदर्श शेती प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1950PTC010480
234	मेटामीन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24110MH1980PTC022948
235	प्रयाग प्रॉपर्टीज अँड टेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70110MH1988PTC048287
236	परीहार इंजिनीअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1988PTC049689
237	जयकेतन नन-ओवन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	U17297MH1989PLC052385
238	इलाइट लॅन्ड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1989PTC053937

239	अपल इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड	U80300MH1990PLC057061
240	मेघना एक्सपोर्ट्स बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1992PTC064876
241	अग्नी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24100MH1992PTC066200
242	प्युडन्ट टैंक्स कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74100MH1993PTC073923
243	परीतोष प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1994PTC082141
244	शालीनी इजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	U29223MH1995PTC086103
245	हर्षीत फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH1995PTC090927
246	जय तुलजामवानी ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड	U40200MH1995PTC095195
247	इम्पेक्ट होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1996PTC096049
248	अंगेल रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH1996PTC104335
249	स्टाटस कन्सलटींग ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1997PTC111970
250	ग्रीष्मा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24110MH1999PTC117834
251	नोवा फलेवर्स अँड फ्रेग्नेसिस प्राइवेट लिमिटेड	U15130MH1999PTC0421844
252	अमिलाषा सिक्कुरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1999PTC123066
253	इन्फ्रा रेड म्यूझीसियन्स प्राइवेट लिमिटेड	U92100MH2000PTC125228
254	मिरॅकल एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2000PTC127581
255	व्हेक्टर इन्फो बेस लिमिटेड	U72200MH2000PLC128798
256	आचरेकर्स मॉटेल प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2003PTC141456
257	नैक्सवल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड	U28990MH2003PTC141938
258	एन्हान्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2004PTC146372
259	संजीवनी फायथोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24230MH2005PTC157364
260	ओपल अग्रोटैक प्राइवेट लिमिटेड	U01100MH1999PTC119760
261	न्युक्लस साइट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2000PTC127455
262	वैश्वी दूरीझम सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U63040MH2006PTC160088
263	गाडा अँड हरीया लाइफ सिक्कुर प्राइवेट लिमिटेड	U65999MH2006PTC164358
264	अमरावती रोलर फलोवर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U15311MH1989PTC022763
265	सीमसन्स पेट्रोकेमीकल्स लिमिटेड	U24130MH1988PLC041980
266	पाल्मस हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1994PTC080783
267	केलकर मॉटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH1995PTC085149
268	अंबरनाथ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U92100MH1996PTC096297
269	स्वीटहोम पॅलेस प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1996PTC096429
270	मैक्सीस डिजिटल डिजाइनींग इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH1998PTC115435
271	क्विकटोरीआ टैलेटेक प्राइवेट लिमिटेड	U64200MH2003PTC140971
272	एजलॉग कन्सलटन्सी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2004PTC147071
273	नोटस अँड रिपोर्ट्स टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2005PTC157354
274	नोशेवा रिऑल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2005PTC157886
275	एमरजेन्ट सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH1999PTC120236
276	महाराव टेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1985PTC035960
277	श्रुजित स्टील कोटस प्राइवेट लिमिटेड	U27100MH1988PTC046044
278	अरेस रिसोर्स कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1988PTC048721
279	सुचम फिनान्स अँड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1990PTC055380
280	ऑप्टीमम सर्वीसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U51505MH1993PTC075145
281	रेडीमनी स्टॉक सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC089425

282	सी क्वीन टेडइन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1997PTC107801
283	सुरेन्द्रा फाइन फॅब प्राइवेट लिमिटेड	U17110MH1999PTC121068
284	श्री व्यंकटेश हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	U85110MH12002PTC138200
285	गैलेरीआ एथनिका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U92140MH12004PTC144881
286	जेबीएस पॉलीमर प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U24134MH12006PTC168988
287	एन्कोरा कन्सलटींग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH12006PTC162719
288	भिलवारा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1982PTC026464
289	मल्टीफॉर्म इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1985PTC036067
290	तारा कन्सलटन्सी अँड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1986PTC038319
291	नोझक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1986PTC039897
292	युनिकॉर्न अप्लायन्सेस प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1987PTC044633
293	ऑफटेक सेल्स अँड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1987PTC044828
294	स्पार्कवीन एक्वीपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U29299MH1990PTC057897
295	मेलडी म्यूज़िक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U92190MH1992PTC065368
296	सन्नेज ऑफिशोर सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U62040MH1993PTC079378
297	मेरीट कमर्शियल क्रेडिट्स लिमिटेड	U74999MH1993PLC070571
298	प्रिस्म ब्रोकींग हाउस लिमिटेड	U65990MH1993PLC075439
299	स्काय इन्टरमिडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1994PTC079246
300	नैब्रो इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC084510
301	एम के डयूरा टूल्स प्राइवेट लिमिटेड	U29220MH1995PTC085701
302	विंडफॉल सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC087019
303	गुजरात फॉरेन टेड सर्वीसेस लिमिटेड	U74100MH1995PLC089859
304	धूत मोटर फिनान्स अँड लिजींग प्राइवेट लिमिटेड	U65900MH1995PTC090752
305	अंडकन्सड अँड बेसीक कॉम्प्यूटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U30007MH1995PTC092052
306	म्रीनी कालीका इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इलेक्ट्रीकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U31100MH1996PTC098205
307	क्ली सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1996PTC101996
308	डीम सेवींगज अँड फिनान्स लिमिटेड	U65190MH1996PLC103951
309	सुखसंगम टेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH12000PTC124558
310	पोर्ट टर्मिनल सर्वीसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH12000PTC127791
311	फिनर डायमेन्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U92132MH12001PTC132392
312	स्मार्ट डिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH12002PTC134535
313	खामगाव सिन्टेक्स इंडिया लिमिटेड	U17111MH12002PLC136301
314	वी-सोर्स सोल्युशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH12002PTC137734
315	तिरुमाला इलेक्ट्रीकल्स अँड एक्सकंवेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH12005PTC155552
316	फॅसेट फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH12006PTC159268
317	ल्युस्टर एक्झीम लिमिटेड	U51310MH12007PLC170927
318	इन्डुसिल्स केम-टेक प्राइवेट लिमिटेड	U24100MH12008PTC178106
319	टाओ विझीनेस प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH12008PTC178988
320	झिबरी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1982PTC026409
321	शहाणी एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	U63010MH1982PTC028634
322	पिकासो इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1983PTC030777
323	कुनाल मेडीकल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड	U40200MH1992PTC066137
324	गावकरी अँग्रो प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	U01110MH1993PTC075048
325	राइट कॉम्प्यूटर सर्वीसेस लिमिटेड	U72900MH1994PTC076290

326	वाम्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1995PTC087826
327	फायर एन्ड एक्वीपमेन्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1995PTC091330
328	शान्ता लिजींग अँड फिनान्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH1995PTC094290
329	बादल पॅकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U28129MH1996PTC096402
330	अपूर्वा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U92100MH1995PTC104043
331	श्रीलीन बॉलीन अँम्युझमेन्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड	U92199MH1998PTC113897
332	चित्रकूट अग्रो प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्रीज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U15490MH1998PTC115776
333	अल्फा मायक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH1999PTC123096
334	सनब्राइट मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH2000PTC124194
335	नगर थाय्वा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2001PTC132000
336	एक्स एल इमॅजीन प्राइवेट लिमिटेड	U22200MH2004PTC147733
337	शेरु इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51311MH2001PTC131413
338	डॉल्फीन इंटरनॅशनल रिस्क सर्वीसेस लिमिटेड	U11101MH2005PLC158460
339	केअर ऑनलाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2007PTC176341
340	मल्टी कलर्स ज्वेल्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U39912MH1978PTC020864
341	मिरज प्रॉपर्टीज अँड ट्रस्टीशीप सर्वीसेस लिमिटेड	U70100MH1981PTC024413
342	निपूरा एक्सपोर्ट्स अँड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1982PTC027443
343	क्वाटो लिजींग अँड फिनान्सींग प्राइवेट लिमिटेड	U65921MH1983PTC030728
344	सब्सु केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24110MH1984PTC034575
345	पॉश अँडवुडार्डिजींग प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH1986PTC039736
346	ट्रान्स मिडीया बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड	U22100MH1986PTC040182
347	मिसुरा मैनेजमेन्ट कन्सलटन्सी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1987PTC045173
348	सी भारती इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	U32109MH1987PLC045586
349	विकीता फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U65920MH1988PTC048463
350	नुसरत शिपींग प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH1988PTC048504
351	शेरवुड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U32109MH1989PTC051013
352	हलबे कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1989PTC052880
353	आश्वीथ फिनान्स अँड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1991PTC059793
354	जीएमएच ऑटोमोटीव प्राइवेट लिमिटेड	U51220MH1991PTC064197
355	तमासा टेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1992PTC069749
356	दवारीका ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040MH1993PTC072199
357	ड्युवेल प्रोजेक्ट सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1994PTC076458
358	रथी कॅसेट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U32305MH1994PTC077223
359	फोटो किना ग्रॅफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2004PTC079107
360	प्रभात लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	U51200MH1994PTC079414
361	मिलेनियम कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1994PTC082057
362	अनेरी इन्वेस्टमेन्ट अँड फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC084634
363	पमानेक्सी डेबलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1995PTC087916
364	वीजेक्स इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC088406
365	मूर्ती इन्वेस्टमेन्ट्स अँड फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U65921MH1995PTC088949
366	वल्कन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1995PTC088957
367	संजय फिनान्स अँड ट्रेडींग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65923MH1995PTC090432
368	रावराज फिनान्स लिमिटेड	U65923MH1995PLC091960

369	धुरा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC093383
370	गौतम ग्राफीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U22219MH1996PTC100327
371	आय पी नेवीगेशन प्राइवेट लिमिटेड	U60100MH1997PTC108651
372	बॉम्बेनो म्यूझिक एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U32300MH1997PTC109198
373	पामदीप ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1998PTC116934
374	कॉलडॉल मिनरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U13000MH1999PTC118063
375	राजपूत टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	U17100MH1999PTC120973
376	अनुराग रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2000PTC124195
377	थ्रीशोल्ड रिटेल मैनेजमेन्ट कन्सलटन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2000PTC128965
378	वर्माला इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2000PTC129613
379	सेन्टॉनीक्स कॉम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2000PTC129727
380	प्र साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2001PTC130374
381	थिरु वेकटेशा एक्झीम प्राइवेट लिमिटेड	U85190MH2002PTC135573
382	जिम्मी जीब साइन एक्वीपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U71309MH2003PTC143010
383	फॅक्ट कमोडीटीज अॅन्ड डेरीवेटीज प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2003PTC143093
384	समर्थ रेफरल लॅब प्राइवेट लिमिटेड	U85195MH2004PTC144739
385	फेजरदाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U24130MH1998PTC147008
386	टीम अॅनेस्थेसीया प्राइवेट लिमिटेड	U85110MH2005PTC150855
387	स्नॅप इलेक्ट्रॉनीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U31200MH2006PTC159626
388	अॅक्मे लेझर अॅन्ड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड	U63840MH2006PTC164971
389	पार नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2006PTC163274
390	सिनेक्टिक्स आक्टिवेटेक्चरल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH2006PTC166412
391	जाफजा बॅंगलोर बिज़ीनेस पार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC166586
392	सिनेटिक्स लॉजीस्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2006PTC179374
393	ली इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	U27100MH2004PTC013533
394	सुंदर लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1996PTC039295
395	दुरदर्शन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1996PTC039337
396	बांगूर अॅग्रो-टेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U17100MH1997PTC044499
397	दातवानी मॉटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH1998PTC053321
398	पॅराडाइज लॅन्ड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH1999PTC054492
399	सुपरफाइन प्लॅस्टो इंजिनिअरींग लिमिटेड	U25200MH1991PLC060603
400	शक्ती इंटरप्लास्ट इंजिनिअरींग लिमिटेड	U99999MH1991PLC060725
401	अनुशुका ट्रेडिंग अॅन्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1994PTC082353
402	टैफ्लगर फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH1994PTC082634
403	सिको नहर प्लॅस्टो प्राइवेट लिमिटेड	U25200MH2004PTC084702
404	फ्लायको टैवल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U63040MH1995PTC090163
405	सतप्रताप इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC090579
406	लिम्फ होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1995PTC091605
407	सेवा लिजिंग अॅन्ड फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH2004PTC092088
408	टोटल सोल्युशन्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC095050
409	स्वीकार ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1996PTC096180
410	मैन बी अॅन्ड डब्ल्यू डिज़ेल सर्वीसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH1996PTC100548
411	अकोला मर्कटाइल प्राइवेट लिमिटेड	U65920MH1997PTC110637
412	यशोधन डेवलेपर्स अॅन्ड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1997PTC111274
413	राजस्थान स्टील ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51498MH1998PTC117281



414	अमीत इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH2001PTC132493
415	सोनाटा मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51393MH2005PTC158737
416	कैनेदेव कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2005PTC153809
417	डेलेक्टादो फुड्स अँड रेस्टोरन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2005PTC154103
418	इन्साइट एकझामिनेशन्स सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2006PTC159418
419	ट्रिपल नाइन इन्वेस्टमेन्ट कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2006PTC161800
420	प्रियदर्शिनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45203MH2007PTC170730
421	कैरो इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC174577
422	सुविधा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24110MH1986PTC038715
423	सुंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51391MH1993PTC072334
424	पार मार्केटींग अँड फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1995PTC086516
425	होलडेन्टर्स फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U65900MH1995PTC091948
426	सोखार कोच बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U34200MH1995PTC094781
427	मारीगोल्ड ट्रस्टी लिमिटेड	U91990MH1997PLC109318
428	सायबरगेट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U30200MH1999PTC121814
429	नाम्स शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	U35100MH2004PTC146817
430	ट्रेसबीट मोबाइल सोल्युशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2004PTC147176
431	स्टारट्रैक इंजिनिअरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U27100MH2005PTC152023
432	अहलुवालीया नावानी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45102MH2005PTC157166
433	एस आर केमिकल्स अँड पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड	U24130MH2005PTC157360
434	साइप्रेम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC167876
435	अक्शन फोर्स पेन्टबॉल प्राइवेट लिमिटेड	U92412MH2007PTC176798
436	सॉलीड इरेक्शन रिऑलिटी अँड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2008PTC179774
437	नानावटी इंडस्ट्रीयल फूटवेर एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	U19200MH1970PTC014531
438	बोनाफाइड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1987PTC045328
439	धाम्मा फिनान्स अँड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1991PTC058961
440	साई प्रिंसीशन कम्पोनन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U27100MH1992PTC068934
441	इन्फोबेस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH1994PTC081301
442	प्रजापती ऑर्चीड्स लिमिटेड	U70100MH1996PLC098182
443	अंड्रोन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH2003PTC128383
444	गुरुदेव इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2001PTC130535
445	श्री समर्थ मेडीकेअर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U85100MH2005PTC154415
446	टेंकर प्रेटलाइन्स लिमिटेड	U52322MH2005PLC157458
447	एम के कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2003PTC127425
448	भारत फूटस प्राइवेट लिमिटेड	U51221MH2006FTC162734
449	युरो रिऑलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC168782
450	मेनस्टार सॉफ्टवेयर सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2007PTC171457
451	रेनबो सिन्थेटिक्स लिमिटेड	U17120MH1989PLC052165
452	इशान कन्सोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड	U51903MH1990PTC057209
453	रुही कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH1993PTC075212
454	डायमपेक्स फिनान्सीयल सर्विसेस लिमिटेड	U65923MH1995PLC085739
455	सेवा सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC091559
456	सुमुखी सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1995PTC091606
457	सम्पत फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2005PTC151325



458	आयडॉल कॉन्टैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2005PTC157451
459	रश्मी फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65929MH2006PTC158464
460	डे सुझा बेस्ट टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2007PTC168609
461	जी एच एस कन्सलटींग प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2003PTC168904
462	अमरज्योती सेल्स अँड एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1969PTC014448
463	सुन्दरायण फार्म अँड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U15206MH1986PTC041659
464	शेरबूक इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1987PTC044475
465	गंगल कॉम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U72100MH1988PTC049598
466	प्रॉफिशियन्ट सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1992PTC065993
467	प्रकल्प इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1994PTC076257
468	न्युडन्ट डेन्टल प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U33112MH2002PTC076850
469	बीग किड्स टॉयज प्राइवेट लिमिटेड	U36940MH1994PTC078131
470	रेडिसन एक्झिक्यूटिव हॉटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH1994PTC082625
471	बनवारीलाल मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1994PTC083276
472	म्युटरल लिजींग अँड फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U65921MH1995PTC095408
473	बेलमॉन्ट टायर्स प्राइवेट लिमिटेड	U25119MH1998PTC101232
474	नेहा कार्गो प्राइवेट लिमिटेड	U63010MH1996PTC102085
475	स्वींग कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U36930MH1997PTC107734
476	युनाइटेड मेरीटाइम ब्युरो ऑफ इंडिया लिमिटेड	U63090MH1998PLC112942
477	जल शक्ति शिपिंग अँड शिपबिल्डींग प्राइवेट लिमिटेड	U35110MH1998PTC117459
478	गायत्री इन्टेरियर प्राइवेट लिमिटेड	U74994MH1999PTC118214
479	अे जी कन्सलटन्ट्स इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH1999PTC118572
480	सीन-जी केअर मार्केटींग इंडिया लिमिटेड	U51900MH2000PLC128924
481	रेडीयन्स सिक्कुरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH2001PTC131141
482	कॉसकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2003PTC140738
483	बॉडीसॉर्ट हेल्थ अँड फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड	U92411MH2003PTC142877
484	डेडिकटेड कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2004PTC143960
485	स्मा एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2004PTC147328
486	समर्थ मेरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड	U35100MH2004PTC147828
487	अखंड एन्टरटेनमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U92100MH2004PTC148597
488	लीहार ऑरगैनिक प्राइवेट लिमिटेड	U24230MH2005PTC151585
489	सीगप्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2005PTC152093
490	युनिस्टार मरीन सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U63000MH2005PTC156543
491	रोलेक्स हायजीन प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U24240MH2005PTC156726
492	आयडॉल होम्स किएटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2005PTC157450
493	ऑलीवोटो फेरी हार्वे फर्नेसेस प्राइवेट लिमिटेड	U29130MH2006PTC160634
494	एनसीएच ट्रेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH2006PTC161422
495	मैक्स ट्रानीक्स अप्लायन्सेस प्राइवेट लिमिटेड	U52399MH2007PTC166960
496	पैकेजींग बिज़ीनेस वीजन प्राइवेट लिमिटेड	U28129MH2007PTC169583
497	क्रेस्ट अँड सेन्टीरीयम कॅपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2007PTC168969
498	घास केडीट कॅपिटल लिमिटेड	U67120MH1995PLC094826
499	कर्णिक टीपनीस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1996PTC099837
500	अजिंक्या स्टील प्राइवेट लिमिटेड	U27100MH2005PTC154516
501	बी ए पटेल प्रॉपर्टी डेवलपर्स बरोदा प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1993PTC070813

502	एवोल्युशन होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1993PTC070864
503	रिंटी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1994PTC076227
504	हेरंभ टेक्नोकॉफ्टस प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1994PTC083353
505	प्रताप इन्फर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH1999PTC120687
506	एन के हाउसींग प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2003PTC139304
507	पैम केडीट अँड वेरीफिकेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65929MH2005PTC153895
508	टैपी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15300MH2005PTC153396
509	मितसुमी डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1988PTC045925
510	कम्पाज़ीट लिज़ींग अँड फ़िनान्सीयल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65920MH1989PTC051253
511	एलीक्ज़ीर प्रोफेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1993PTC070860
512	अँरकोपल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC090424
513	ब्राइटवे कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड	U53320MH1998PTC098002
514	इलाइट अँक्ज़ीलरीज़ प्राइवेट लिमिटेड	U30009MH1998PTC115282
515	मिलन टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2000PTC128131
516	पाल एअर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U63000MH2004PTC149855
517	जीलॅटोमानीया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U15205MH2005PTC153945
518	ओरीजीन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	U27100MH2005PTC154515
519	फोयर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51496MH1998PTC116588
520	किपाश एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U51221MH2004PTC144284
521	टीसी ट्रेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1982PTC028365
522	स्कॅनलीसे बिज़िनेस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1994PTC076952
523	एन्शुअर हेल्थ केअर प्राइवेट लिमिटेड	U92411MH1994PTC077471
524	मारबो मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1994PTC079288
525	नमिता फ़िनान्सीयल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH1995PTC085290
526	पूती स्टार्च अँड ग्लूकोज लिमिटेड	U15118MH2001PLC132305
527	फॉर्च्यून अँल्को ब्र प्राइवेट लिमिटेड	U15530MH2003PTC141613
528	कांता टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	U17110MH2003PTC141803
529	फास्ट ट्रक कॉल सेन्टर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65999MH2005PTC153894
530	वन्दरफूल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	U27100MH2005PTC154564
531	सिता लिमिटेड	U99999MH1966PLC013565
532	फकीरभाई पटेल इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1980PTC023481
533	टेम्पलाइट ग्लास इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	U26100MH1985PTC036397
534	नेहल इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1986PTC041224
535	फयुटरनाउ ऑफिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U74994MH1989PTC052342

536	अनुपम सॉफ्टवेयर डेवलेमेन्ट अँड ऑनलाइन ट्रेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH1990PTC055783
537	अनिल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1990PTC055954
538	धुन महल ट्रेवेल प्राइवेट लिमिटेड	U63040MH1990PTC056639
539	नागपूर हेवी इलेक्ट्रीकल ट्रान्सफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड	U31200MH1992PTC085313
540	मॉडेल्स प्लस कोऑर्डिनेटींग अँड पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1994PTC082201
541	कॉम्प्यूटर स्टेशन अँड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U80222MH1995PTC084334
542	वेस्टर्न इन्फर्मेशन सिस्टम्स इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH1995PTC084683
543	प्रिस्टाइन मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1995PTC085084
544	ब्ल्यू वॅली इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1995PTC091029

545	कांडे कन्सल्टन्सी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1995PTC091612
546	इन्डो-थाइ प्रॉपर्टी होल्डींग प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1995PTC091917
547	न्यू कन्सेप्ट्स स्टील फॉब्स लिमिटेड	U27100MH1995PLC093271
548	गोल्डफेस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1995PTC093399
549	केनवुड रिलेटर्स अँड मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH1995PTC094163
550	शेल्टर्स आर्किटेक्चरल डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH1995PTC095282
551	अकाई पेट्रोलियम लिमिटेड	U23209MH1995PLC095547
552	हिमसन्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51200MH1996PTC096037
553	तालध्वज फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड	U65920MH1996PTC096485
554	वास्तु निर्मिती समूह प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1996PTC103431
555	जेपी लॅडमार्कस प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1997PTC107036
556	एस के इंडस्ट्रीज लिमिटेड	U17110MH1997PLC107651
557	मयूर सल्फर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24210MH1997PTC109156
558	तिरुपती लेज़र अँड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड	U63040MH1997PLC112706
559	गॅलॅक्सी मरीन लिमिटेड	U61100MH1999PLC120483
560	स्कॉट एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1999PTC121232
561	दीपक पिटर्स डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2002PTC135335
562	ऑन डॉट पब्लिसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH2002PTC136479
563	गोल्डमैन साच अँडविजरी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2002PTC138327
564	लखाइ डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2004PTC145903
565	स्मार्ट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	U80903MH2004PTC146629
566	ट्रान्स ओशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U51502MH2004PTC149083
567	ऑर्बिस फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U51397MH2004PTC149443
568	जयराज अँग्रो प्राइवेट लिमिटेड	U01100MH2005PTC150494
569	कॅचेट रिलेटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2005PTC151766
570	संगिनी टेडप्लेस प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2005PTC152306
571	शाह अँड संघवी अँग्रो प्राइवेट लिमिटेड	U01100MH2005PTC152442
572	वर्टेक्स टेक्नो इन्स्ट्रुमेन्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U31900MH2005PTC153833
573	एनकेएच प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2005PTC156630
574	डॉने डे हॉटेल बंगलोर प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2006PTC163203
575	आभा फिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U27205MH2006PTC165341
576	अे4अे कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2007PTC170122
577	सोना एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	U40104MH2008PLC179824
578	हिरानंदानी हाउसींग नाशिक सेज़ को डेवलेपर प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2008PTC180369
579	सी-फेस इन्वेस्टमेन्ट अँड कन्सलटन्सी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1987PTC044860
580	कन्सेप्ट पेट्रोलियम लिमिटेड	U23200MH1988PLC049752
581	कम्पफिन कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH1989PTC052381
582	सुपरप्लाज़ा टेडींग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2004PTC150198
583	वर्चल वॅली स्टूडीयोज प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2007PTC171397
584	विताल ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1973PTC016626
585	बालाली बॉन्डस अँड होल्डींग्स लिमिटेड	U65990MH1982PLC026129
586	जी वी आर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1982PTC027386

587	महनीत इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1982PTC020884
588	भोरुका कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1983PTC031317
589	बिपीन इंडस्ट्रीज स्टील प्राइवेट लिमिटेड	U27100MH1984PTC033216
590	विमो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U31900MH1986PTC039971
591	आयवरी होल्डींग्स एंड लिजिंग लिमिटेड	U99999MH1986PLC041452
592	खुल्लार कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1988PTC046140
593	ओम एक्विबिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U92100MH1988PTC047573
594	गैलेक्सी पेपर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	U21010MH1989PTC054391
595	अडेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1990PTC056178
596	मेफाली फायबर्स लिमिटेड	U99999MH1991PLC061349
597	कर्नावट किएशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1991PTC063539
598	श्रीपती डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1992PTC065224
599	कपिलवास्तु मिल्क एंड अग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	U01110MH1992PLC069380
600	हरीकेन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51311MH1993PTC072670
601	मैन्स प्रिन्ट लिमिटेड	U22219MH1994PLC077247
602	सैम कॅपिटल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1994PTC081357
603	विश्वास कॅपिटल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1994PTC083547
604	बेल्वेडर डेवलेपर्स एंड कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45203MH1994PTC084041
605	ठक्कर डेवलेपर्स न्यू बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH1995PTC085617
606	महाजन रिसोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55200MH1995PTC086176
607	श्री बालाजी सेल्स ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51396MH1995PTC086332
608	अल्फा गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U36911MH1995PTC088789
609	जीवनदीप फिस्कल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65920MH1995PTC089742
610	सत्प्रताप हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U85110MH1995PTC093589
611	पेन्टा एअर सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U63000MH1996PTC097343
612	अमिरुची फिन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1996PTC100020
613	बापना फिनान्स इंडिया लिमिटेड	U65921MH1997PLC105774
614	अक्वालाइन फाइट लॉजीस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1997PTC106352
615	सोन्की ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U36911MH1997PTC107832
616	बापना कन्सलटन्सी सर्वीसेस इंडिया लिमिटेड	U74140MH1997PLC108621
617	स्पेसटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	U73100MH1998PTC112065
618	मदरइंडिया इन्फ्रान्ट्रक्चर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	U74999MH1998PLC116937
619	खंडेलवाल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड	U52321MH1999PTC117887
620	अर्थमेटल इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U31200MH1999PTC120824
621	अलग डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2000PTC123937
622	सुयोग इन्फोटेक एंड डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2000PTC126589
623	ग्लामोर जेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2001PTC133320
624	सोहम एनर्जी एंड फ्युएल प्राइवेट लिमिटेड	U40100MH2003PTC138635
625	हकीम्स डिस्प्ले मुंबई प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH2003PTC138661
626	सुपरकॉन एक्वीपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397MH2003PTC139122
627	फ्रीमाइन्ड एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U92130MH2003PTC141811
628	श्रीहरी इलेक्ट्रीक कंपनी लिमिटेड	U40100MH2004PLC144038
629	नील-तेज टुर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040MH2004PTC144620
630	डाइसर इन्शुरन्स सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67200MH2004PTC148529
631	कैलाश पर्वत रेस्टोरन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2005PTC150951

632	श्री स्टार हॉटेल अँड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH2006PTC159514
633	डॉने डे हॉटेल्स हैद्राबाद प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2006PTC184163
634	डोग्रा इगल रबर प्राइवेट लिमिटेड	U25199MH2006PTC166333
635	मिगून हेल्थ अँड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड	U51507MH2007PTC173942
636	सोना ट्रांसमिशन एक्वीपमेन्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U31908MH2007PTC177010
637	दुहिरा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1980PTC022897
638	सायमन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U18101MH1982PTC028313
639	स्लैश ट्रेडिंग अँड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1984PTC034832
640	कर्नर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24200MH1985PTC035972
641	पिस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1989PTC051670
642	शार्प टवीस्ट डिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U29220MH1991PTC060709
643	मोहीत इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH1992PTC064771
644	भक्तांबर इन्वेस्टमेन्ट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1992PTC066154
645	पी अँड पी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	U21010MH1992PLC068895
646	समुत्कार्श फिनान्स अँड मॅनेजमेन्ट सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65920MH1994PTC078421
647	मॉडर्न मॅनेजमेन्ट काउन्सिल एक्झिक्युटिव प्लेसमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1995PTC086101
648	देवनीका प्राइवेट लिमिटेड	U24241MH1996PTC096343
649	जीतल रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH1996PTC103798
650	अॅस्पेन मॅनेजमेन्ट अँड काउन्सिल प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1996PTC103958
651	नॉडस कन्सलटींग प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH1998PTC113385
652	जैन होमकेअर प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U24240MH1998PTC116243
653	महालक्ष्मी फिनान्स अँड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U65921MH1999PTC121649
654	संकल्पन सॉफ्टवेअर सर्वीसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2000PTC125922
655	कन्टेनस्केप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2000PTC127868
656	सर्वोत्तम हॉस्पीटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U85110MH2000PTC129281
657	इझीगो टैबेल्स लिमिटेड	U63040MH2000PLC129339
658	अॅनी इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2001PTC139853
659	दनौटीक टेक्नॉलॉजीज वर्क प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2003PTC140728
660	जैन अँड देसाई मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2003PTC141877
661	ल्युसार्क सफेदी अँड रिसर्क मॅनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2004PTC149886
662	इ बी सी ट्रेड सर्वीसेस लिमिटेड	U52110MH2005PLC153943
663	एम एन एम सफेदी प्राइवेट लिमिटेड	U33100MH2005PTC154685
664	लेमन ग्रॅफिटी प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH2005PTC156233
665	आरती कोटस प्राइवेट लिमिटेड	U17110MH2005PTC156769
666	वेंगुलकर अँड हजारे अॅग्रो फार्मस अँड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH2006PTC159858
667	दिलमल हेल्थ अँड वेल्थ लिमिटेड	U24110MH2007PLC167281
668	रल्हान रिऑलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2007PTC168683
669	शशीकिरण केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1975PTC018199
670	बी अँड एम सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1977PTC019880
671	जेएमसी मेकॅनिकल इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1980PTC023399
672	प्रभाग इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1981PTC024202
673	प्रगती बॉन्डस अँड होल्डींग्स लिमिटेड	U65990MH1982PLC026130

674	कुनुज इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1982PTC028156
675	नटराज बिल्डर्स अँड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH1983PTC030639
676	रिम टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	U17110MH1984PTC034551
677	वेक्टर कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1984PTC034658
678	श्री समर्थ सिरॅमिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U26920MH1986PTC038766
679	गुडलक फिनान्सीयल मैनेजमेन्ट अँड कॉम्प्युटर कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH1986PTC039514
680	पुजीत अँड ब्रॉस फिनान्स अँड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड	U99999MH1986PLC039636
681	अम्बीशस इन्वेस्टमेन्ट्स अँड फिनान्स लिमिटेड	U41454MH1986PLC041454
682	तोदार इंजिनीअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U28920MH1987PTC042162
683	दीजे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U29195MH1987PTC043665
684	विद्या पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	U24294MH1987PLC043739
685	रिप्रिज एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51100MH1987PTC043897
686	विनय केम-पैक उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U25202MH1988PTC046221
687	गौतम विज्ञानेस सॉल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U24200MH1989PTC050431
688	प्लेस्टॉन स्टील प्राइवेट लिमिटेड	U27108MH1989PTC050585
689	पुष्पम वाइन मर्चन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51228MH1989PTC051486
690	अल-फैज इस्लैमिक फिनान्सीयल अँड इन्वेस्टमेन्ट कंपनी इंडिया लिमिटेड	U65920MH1989PLC052836
691	माहुदी जेम्स प्राइवेट लिमिटेड	U52393MH1989PTC054808
692	श्री शक्ती इलेक्ट्रोप्लास्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1990PTC055063
693	हॅलोल इंजिनिअरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U27200MH1990PTC055426
694	डिस्टीक पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड	U25209MH1990PTC055556
695	प्रफुल्ला ऑप्रेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U24239MH1990PTC056042
696	तुलीप कंपिटल सर्वीसेस अँड ट्रेडींग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1990PTC056498
697	मजूमदार इन्वेस्टमेन्ट अँड ट्रेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1990PTC056748
698	रोमोना इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1990PTC057627
699	शिरडी ट्रेडींग अँड एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1990PTC057746
700	नरेन एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	U55200MH1990PTC057765
701	मोरोलीया इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1990PTC057986
702	महेश प्लेंटेशन्स अँड अग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U01120MH1992PTC065743
703	गंगाराम एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1992PTC067679
704	एक्सप्रेस कलरकॉम सिस्टम्स लिमिटेड	U24114MH1992PLC068399
705	फन्टलाइन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1993PTC073960
706	ऑसोसीएटेड राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1993PTC074385
707	स्कायनेट वेब टीवी लिमिटेड	U80302MH1993PLC074689
708	शंकर टेक्नो कन्सलटेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74220MH1993PTC075752
709	न्युकलुस कंपिटल अँड फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1994PTC076140
710	वामरतन सिक्युरिटीज अँड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH1994GAT078949
711	मावीच मार्केटींग अँड फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1994PTC081668
712	शॅलो अँक्वा फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	U01110MH1994PTC081994
713	नेटलिक कम्युनिकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U85200MH1994PTC082351
714	एनयुसी फिनान्सीयल सर्वीसेस अँड मैनेजमेन्ट कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1994PTC084188

715	सुप्रा सिक्विरिटीज अँड फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC085800
716	नीलकमल कॉरपोरेट सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC086663
717	मिथ्युल सल्फर अँड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24211MH1995PTC088344
718	स्पुटनिक ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC089087
719	मिरा घर लिजींग अँड फिन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1995PTC090463
720	रशिगाज इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U29299MH1995PTC091556
721	दुर्गेशवरी इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1995PTC091726
722	लखानी फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65920MH1995PTC092439
723	हनीबी लिजींग अँड फिन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC092670
724	टीडीआर फिनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	U65990MH1995PLC094984
725	एनपी होल्डींग प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC095363
726	एम एस एम पेपर मिल्स लिमिटेड	U25209MH1996PLC096961
727	सनराइज ट्रेंजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U23200MH1996PTC099570
728	बग्गा इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	U28920MH1996PTC100158
729	डीपीजे इन्शुरन्स सर्वीसेस लिमिटेड	U65990MH1996PLC100745
730	बीग बी इन्फोमिडीया लिमिटेड	U99999MH1996PLC102257
731	वीएफएम हाउसींग फिनान्स लिमिटेड	U65921MH1997PLC106596
732	होमइंडिया ऑनलाइन सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U30000MH1997PTC107612
733	जीएसएल मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड	U14100MH1997PTC108895
734	श्री राधाकिशना फाइट फॉरवर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH1997PTC110064
735	करन सिद्धार्थ रिलेटर्स अँड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1997PLC110537
736	मावीच इन्शुरन्स सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67280MH1998PTC113085
737	रेन्डो ल्यूब्रीकान्ट्स लिमिटेड	U23200MH1998PLC113645
738	मेधीनी रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH1998PTC113648
739	इन्टेक प्रीफैब इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U28920MH1998PTC114067
740	आदर्श रुल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45203MH1998PTC117362
741	वेलंकनी एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1998PTC118997
742	लवलेश अल्बामा एन्टरटेनमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U29290MH1999PTC119779
743	विजयकुमार एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	U15511MH1999PTC122966
744	एनके कॉम्प्युटर एप्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2000PTC124977
745	अेआर बिजिनेस डेवलेपमेन्ट लिमिटेड	U51900MH2000PLC124555
746	पैनहेल्थ कॉम इंडिया लिमिटेड	U72900MH2000PLC124916
747	इंडियाकन्सलटन्ट्स कॉम प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2000PTC125442
748	कॉल फॉर इंडिया टेलिकॉम लिमिटेड	U72900MH2000PLC126420
749	अंबाजी मेडीकल अँड ट्रोमा सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65110MH2000PTC126577
750	विमल स्पेअर्स अँड पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U28920MH2000PTC128442
751	किशना कॉर्पोरेट सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2000PTC128452
752	सुपरबाइट सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2000PTC128837
753	तिदाल डायग्नोस्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U55100MH2000PTC129182
754	साई युनीमॉल प्राइवेट लिमिटेड	U51399MH2001PTC130778
755	शॉपींग पॉइंट डिपार्टमेन्टल स्टोअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U52190MH2001PTC134222
756	महाराजा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45203MH2002PTC135302
757	ट्रान्स रेफ एअरकॉन्स लिमिटेड	U29191MH2002PLC135052
758	आकाश ऑनबोर्ड कुरीअर प्राइवेट लिमिटेड	U63000MH2002PTC137379



759	यु के हायड्रालीक्स अँन्ड सील्स प्राइवेट लिमिटेड	U29120MH2003PTC138408
760	सवीता अँपरल्स प्राइवेट लिमिटेड	U18100MH2003PTC140491
761	प्रिन्स कोटींग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U50909MH2003PTC141073
762	श्री साई एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2003PTC141374
763	टीसीजी प्रोकार्न मिडीया वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U92110MH2003PTC142375
764	एआरसी सिक्युरिटीज कम्प्लायन्स सॉल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH2004PTC145828
765	फॉर्च्युन अँक्सेसरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U31909MH2004PTC145847
766	टेक्नामेक कम्पोनेन्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U31909MH2004PTC145848
767	वायकिंग स्वेद-इंद प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U24200MH2004PTC145700
768	राजाराम मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2004PTC146724
769	स्मार्ट मेकैनिका इजिनिअरींग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	U31909MH2004PTC146744
770	इन्वे इन्शुरन्स सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67200MH2004PTC148900
771	रेड मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U92110MH2004PTC150091
772	परमार्थ इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2004PTC150180
773	रेजुवेनेट हेल्थ केअर प्राइवेट लिमिटेड	U85190MH2004PTC150249
774	हेशा केम प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	U25200MH2005PTC150649
775	चिंचोली टेक्सटाइल्स पार्क लिमिटेड	U17120MH2005PLC153789
776	सेन्सस इंडिया कन्सलटन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U74130MH2005PTC154258
777	रेडियन्ट फायर प्रोटेक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U29193MH2005PTC155302
778	नोएल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24230MH2005PTC155415
779	टेक्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72100MH2005PTC155469
780	दीगी पॉलीस इंडिया लिमिटेड	U55100MH2005PLC157635
781	जॅस्पार ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U36911MH2005PTC153351
782	सहार लॉजीस्टीक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2005PTC158287
783	एक्सप्रेस लाइफसायन्स प्राइवेट लिमिटेड	U24233MH2006PTC162427
784	दोनी डे हॉटेल्स अर्मीतसर प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2006PTC164162
785	आयएफए गैलेरी प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2006PTC164727
786	एक्सलन्स अँवीशन अँकेडमी प्राइवेट लिमिटेड	U80301MH2006PTC165243
787	पर्पल फाउन्टेन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2006PTC165356
788	विशट इन्फास्ट्रक्चरल डेवलपर्स अँन्ड अँग्रीगेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2007PTC167885
789	एमआरएस फ्युएल सॉल्युशन आय प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH2007PTC175313
790	आयट्रो मेडीकल सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2007FTC172510
791	युरीशीता ट्रेडींग अँन्ड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC170252
792	सिद्धान्त सायकॉन प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2007PTC173578
793	एससीजी इंडिया रिअल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2007PTC175968
794	डॅफोडील इन्फो सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2007PTC172913
795	गाला ऑक्सी प्राइवेट लिमिटेड	U24110MH2007PTC173703
796	पेट्रोमिडास टेक्नॉलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2007PTC174885
797	हिरानंदानी पनवेल सेज को डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2007PTC176252
798	आशापुरा इंडस्टीयल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2008PTC179541
799	हिको अहमदाबाद सेज को डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2007PTC176318
800	हिरानंदानी अहमदाबाद सेज को डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2007PTC176306
801	हिको चेन्नई सेज को डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड	U45209MH2007PTC176319



802	हिरानंदानी चेन्नई सेज को डेक्कलपर प्राइवेट लिमिटेड	U45209MH2007PTC176307
803	हिरानंदानी आयटी पनवेल सेज को डेक्कलपर प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2008PTC178085
804	हिरानंदानी युटीलीटी पनवेल सेज को डेक्कलपर प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2008PTC178045
805	हिरानंदानी रिटेल पनवेल सेज को डेक्कलपर प्राइवेट लिमिटेड	U45203MH2008PTC178222
806	हिरानंदानी हाउसींग पनवेल सेज को डेक्कलपर प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2008PTC178224
807	हिको पुणे सेज को डेक्कलपर प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2008PTC180368
808	हिरानंदानी हॉस्पिटलीटी पनवेल सेज को डेक्कलपर प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2008PTC180371
809	हिरानंदानी एन्टरटेनमेन्ट पनवेल सेज को डेक्कलपर प्राइवेट लिमिटेड	U92190MH2008PTC180364
810	हिरानंदानी रिटेल चेन्नई सेज को डेक्कलपर प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2008PTC180379
811	हिरानंदानी आयटी पनवेल सेज को डेक्कलपर प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2008PTC180373
812	हिरानंदानी युटीलीटी चेन्नई सेज को डेक्कलपर प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2008PTC180374
813	फयुजीओ लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2007PTC167165
814	विन्चयुलम ग्रे ट्रेनिंग रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2005PTC150792
815	डिंक टैवल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U63040MH2005PTC152798
816	हिरानंदानी रिटेल अहमदाबाद सेज को-डेक्कलपर प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2008PTC180380
817	पिकडाइस इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1993PTC071571
818	पिक पॉट इन्वेस्टमेन्ट्स अँड फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1994PTC083717
819	महावीर कॉमर्स अँड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U72000MH2002PTC137679
820	अल्गोरीदम्स कॉम्प्युटींग लिमिटेड	U65993MH1981PLC023922
821	सनराइज हाउस मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1995PTC093834
822	बीएचपीअ किन्हील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH1991PTC123672
823	दिनेश ऑफसेट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	U22219MH1986PTC041409
824	ऑर्चीड एलेगन्स रेन्ट फार्मींग प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2001PTC132165
825	जाजू अँड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U17120MH1994PTC076049
826	जयदेव इलेक्ट्रोमेक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U29150MH1989PTC035227
827	नीराओ इन्वेस्टमेन्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1981PTC024474
828	त्रीमिती मार्केट कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1997PTC111319
829	लाइव वायर आर्टिस्ट मैनेजमेन्ट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2005PTC155189
830	टयुटकुक्स हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55200MH1983PTC030724
831	कमल पाइप्स लिमिटेड	U25209MH1992PLC066445
832	रॉकी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC091442
833	किएशन्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51398MH2003PTC139301
834	टेक्नोफ्लूड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U29120MH2005PTC153052
835	स्क्रिब्स ट्रेडिंग लिमिटेड	U52300MH2007PLC173915
836	असर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH2007PTC175401
837	आशा ग्लास वूल मैन्युफैक्चरींग प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1994PTC082796
838	चैनीलो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1997PTC107852
839	डॉ भीष्माडेस अँग्रीबायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2007PTC170790
840	अमीशा पाइप अँड सॅनीटरी वेअर प्राइवेट लिमिटेड	U51433MH1999PTC120873
841	स्पार्कल विलनर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74930MH2006PTC163549
842	एन्वेल्लेश फिनान्सीयल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC088445
843	तोलांनी ऑफीस प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड	U70200MH1999PTC122211

844	हायटेक फिरो कास्टींग प्राइवेट लिमिटेड	U27320MH1984PTC033495
845	बिस्को क्युसिन्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2006PTC166156
846	वैभव अग्रो मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड	U01122PN1992PTC066341
847	टेस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1987PTC042904
848	आर्केन इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	U29200MH2000PTC123644
849	के के सिव्हील कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2000PTC128733
850	मझुकोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U29290MH2000PTC123905
851	तूपसाखरे डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1988PTC050050
852	गुरुजी कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U45203MH2000PTC127267
853	वी 6 नेटवर्क मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2006PTC165078
854	एमटच टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72901MH2006PTC190412
855	क्रोनीटेक्स इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड	U99999MH1995PLC088470
856	मॉन्टेल कॉल्मैन इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड	U28920MH1996PLC100731
857	अवनी प्लैन्टेशन्स लिमिटेड	U99999MH1997PLC105354
858	विस्डम क्रिएटीव सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1998PTC116504
859	इंडिया सपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74992MH2005PTC156542
860	हिरान्यावन्त इन्वेस्टमेन्ट्स अँड फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1994PTC083770
861	लाला सोहनमल हकमचंद टेक्सटाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U17100MH1981PTC025647
862	चंद्रपुर कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U31300MH1979PTC021971
863	कॉम्प्यूमेंट्रीक्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72100MH1988PTC046380
864	सैंटोरीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U28920MH2004PTC145969
865	ग्रीन प्लैनेट रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2007PTC176921
866	जागृती कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2003PTC055075
867	वनलक्ष्मी अग्रो डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड	U01110MH1997PLC106204
868	डीवीपीटी टूर्स अँड फॉरेक्स लिमिटेड	U63040MH2005PLC156589
869	इस्ट वेस्ट बायोटेक लिमिटेड	U01110MH1994PLC078446
870	नेकेल मैन्युफैक्चरींग प्राइवेट लिमिटेड	U29120MH2001PTC133760
871	अखील फिनान्स अँड सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC085755
872	इनेगा एन्टरटेनमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U92100MH2000PTC126962
873	पर्म इन्फोटेक लिमिटेड	U72200MH2000PLC127574
874	गदीया केमोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	U25205MH1991PTC061254
875	कीनोट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1993PTC073048
876	मैक्सवर्थ फिनलीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U65920MH1995PTC092452
877	गांधी एक्विम प्राइवेट लिमिटेड	U36910MH1990PTC055349
878	सदर्न सुट्स प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड	U70200MH2007PTC166817
879	इनोवेटिव लैबोरेटरी अँड वर्कशॉप प्राइवेट लिमिटेड	U24100MH1982PTC028945
880	टाइम रिअल इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1995PTC086815
881	टाइम डेवलेपमेन्ट अँड कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1995PTC090805
882	अँन्टीको पम्पस प्राइवेट लिमिटेड	U29297MH1999PTC119208
883	स्फोटा टेक प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2001PTC133108
884	फलोरा ब्लॉसम्स लिमिटेड	U01110MH1994PLC082832
885	मेधा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2002PTC136318
886	प्रल अँग्रीटेक लिमिटेड	U01403MH2007PLC170193
887	शंतनू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	U40102MH2007PTC172840

888	जंबो इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH1972PTC015902
889	ट्रान्सबॉर्डर कन्सलटिंग सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2004PTC149197
890	एरीयल कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH1993PTC070924
891	मार्शल रिऑलिटी कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2007PTC167092
892	फिनेक कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2003PTC139097
893	तापी एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1984PTC034049
894	मधुरो फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2005PTC152594
895	कुमार कार्ड एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	U21010MH1991PTC063885
896	संघवी फॅब्रीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U17100MH1987PTC045515
897	विजय-राज रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1991PTC064049
898	मैचवेल इम्पेक्स लिमिटेड	U51395MH2000PLC130124
899	ओन्स कॉर्नींग बिल्डींग सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2007PTC170674
900	अष्टलक्ष्मी मर्कन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC090972
901	झोडीअंक कन्स्ट्रक्शन्स सप्लीअर प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1986PTC039107
902	टफ स्टाफ वॉचेस प्राइवेट लिमिटेड	U33300MH1998PTC112801
903	विन्टेज वॉचेस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51394MH1999PTC118589
904	खजाना कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1999PTC122673
905	शाकंभरी सिमेन्ट्स लिमिटेड	U26943MH1991PLC212603
906	नेमानी फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1985PTC084873
907	सिंधुदुर्ग टुरीझम डेवलेपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	U55101MH1999SGC121431
908	निक्स इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1991PTC080836
909	टवेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी रियल एस्टेट डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1993PTC075360
910	गोकुल अग्रो टेक प्रॉड्यूसर कंपनी लिमिटेड	U74999MH2007PTC187642
911	तास केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24239MH1977PTC019892
912	बुलीयन नेटवर्क इंडिया लिमिटेड	U51398MH2003PLC142781
913	देवा कॅपिटल मैनेजमेन्ट अंडवीसर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2008PTC179658
914	के एम नेमानी स्टॉकफीन लिमिटेड	U67120MH1995PLC086144
915	तिरुमाला कंटरर्स प्राइवेट लिमिटेड	U55204MH1999PTC122961
916	श्री हरी राम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1999PTC122564
917	बहेती अॅन्ड बहेती कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH1991PTC080942
918	छापरीया इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1996PTC096714
919	क्वर्चुल नेटवर्कस प्राइवेट लिमिटेड	U64203MH1998PTC115580
920	ऑरो टैवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U63030MH1994PTC076959
921	पेंटसन्स टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड	U32109MH1995PTC095422
922	अनुराधा कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1981PTC024977
923	रूपीन प्लास्टीक्स अॅन्ड फॉइल्डेकर प्राइवेट लिमिटेड	U25209MH1984PTC034431
924	मार्वल एक्विटी प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC092198
925	महादेव टूल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2000PTC126625
926	सुष्मी ट्रान्समिशन प्राइवेट लिमिटेड	U51505MH2006PTC163434
927	किंग मेडजोल एसएमटी प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2008PTC179482
928	नागपूर रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U25190MH2002PTC135052
929	सारथी मैनेजमेन्ट कन्सलटन्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2002PTC137227
930	मुंगीपा स्टील प्राइवेट लिमिटेड	U28910MH1997PTC107484
931	जेस इंटरनॅशनल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U52322MH2001PTC133872
932	वीक - मॉन डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1988PTC046357

933	प्रवीण फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1961PTC012231
934	कामवस्त्र फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U17291MH1999PTC117330
935	अक्सेस होल्डींग अँड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1989PTC052139
936	कोटेश्वर लिजींग अँड फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH1992PTC066842
937	अफायन्स सिक्युरिटी अँड लॉस प्रिवेन्शन सोल्युशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U31907MH2003PTC143385
938	ऑक्टोपस मेरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2004PTC144560
939	कामाख्या फलाइंग इन्स्टिट्यूट्स प्राइवेट लिमिटेड	U62200MH2007PTC171408
940	सफायर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1974PTC017912
941	एस आर इ — कम्युनिकेशन्स कॉम लिमिटेड	U92110MH2000PLC127989
942	एम बिज़ीनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC163674
943	के जी टी टेक्नॉलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2006PTC165185
944	केन्ट पॉलीमर्स अँड प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	U25200MH2007PTC174347
945	एसएनएस रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2008PTC178044
946	वनगार्ड गुजरात प्रोजेक्ट्स डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2008PTC178602
947	हंग सेंग फूड प्राइवेट लिमिटेड	U15110MH2001PTC133992
948	अँल्बार्टास एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2004PTC144778
949	उमीद प्लास्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1972PTC016152
950	वेजीटेबल ऑइल स्पेश्यालिटीज बॉम्बे लिमिटेड	U99999MH1985PLC037803
951	गायत्री विन्यल प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1987PTC044643
952	अग्नी केमिप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	U24110MH1989PTC053516
953	मिस्टीक्यू फैशन्स गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U52322MH1993PTC072743
954	एसवीसी होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1997PTC107698
955	श्रुष्टी नेटवर्क अँड मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U50103MH2001PTC131917
956	वैल्युबेल मिनरल्स अँड मेटल्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51420MH2004PTC148630
957	वैल्युबेल नेटवर्क्स मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U52520MH2004PTC149926
958	आकृत ट्रेड लीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2005PTC153352
959	सपायन्स इन्फ्रमेशन सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2007PTC169786
960	ट्रेडकॉम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U51220MH1995PTC099770
961	अमीन कॉन्टैक्टींग प्राइवेट लिमिटेड	U23994MH1998PTC117702
962	मेट्रो एडस केअर प्राइवेट लिमिटेड	U85110MH2001PTC132689
963	मेधराज इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U57120MH1985PTC035887
964	अँलर्ट मेटल प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1990PTC056110
965	अमित रिफ़ैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1991PTC064011
966	पान्सा होल्डींग प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC066363
967	डयू डॉप फार्मास्युटीकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U24230MH1997PTC106340
968	अनुराग ऑपरल्स प्राइवेट लिमिटेड	U18101MH2000PTC123621
969	प्रिन्सिपल रिअल इस्टेट इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2001PTC134241
970	पर्यटयुल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2002PTC134474
971	स्वस्तीका मिडीया अँड कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	U74300MH1993PLC073813
972	डाय फार्मा लिमिटेड	U24230MH2005PLC152003
973	शिवरत्न हँतचेरीज प्राइवेट लिमिटेड	U29199PN1992PTC067907
974	हार्मोनी फिनान्सीयल सर्विसेस लिमिटेड	U65900MH1995PLC086705
975	मा पदमावती रिअल इस्टेट डेवलपर्स अँड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2007PTC166916

976	लोधा विल्लास प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2007PTC169358
977	सिद्धेश्वर रिअल इस्टेट डेवलपर्स अँड अग्रोफार्मस प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH2007PTC168434
978	महावीर कंद्री हाउस प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2007PTC169351
979	लोधा क्वालीटी रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC169576
980	लोधा टाउनस्केप प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC169577
981	लोधा ओरिजीन रिलेटर्स अँड फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC168890
982	लोधा एनर्जीटीक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC168822
983	चंद्रप्रभा रिअल्टी अँड फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	U45300MH2007PTC173805
984	दी जयदेव ऑइल मिल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U15143MH1947PTC008071
985	किंगज वायर अँड मेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U31300MH1986PTC038773
986	स्पीड मर्कन्टाइल लिमिटेड	U51507MH1995PLC087472
987	दीव्या कॉम्प्युटर अँकाडमी प्राइवेट लिमिटेड	U80302MH1999PTC119040
988	गुप्ता अँड पाटील डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2005PTC154450
989	लोधा बिल्डटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC166395
990	लोधा ऑथेन्टीसीटी बिल्डर्स अँड कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC168984
991	लोधा इन्फाबिल्ड अँड फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2007PTC173571
992	शीतलनाथ कन्स्ट्रक्शन्स अँड अग्रो प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2007PTC173498
993	जानकी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72100MH2002PTC137757
994	शांतीनाथ रेसीडेन्शाल पॅराडाइज प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC166487
995	डायमंड साचरीन प्राइवेट लिमिटेड	U24230MH1986PTC041801
996	वर्मा जैन कॉन्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1989PTC054593
997	गौरांग मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	U14210MH1996PTC102432
998	वॅल्युड रिमोट सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH1999PTC121776
999	सेफगार्ड एवरसिक्युर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74920MH2001PTC132731
1000	अल्पी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2005PTC150560
1001	पार्क बे वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	U15520MH2005PTC154003
1002	लोधा फाउंडेशन डेवलपर्स अँड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC169912
1003	नवनाथ बिल्डर्स अँड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2008PTC177508
1004	लोधा इन्फाडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2008PTC177476
1005	लोधा अँड खेनी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2005PTC155136
1006	लोधा इन्टेन्सीटी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC168253
1007	शालीमद्रा रिलेटर्स अँड फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC168406
1008	लोधा फलेंटस अँड हाउसेस प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2007PTC169575
1009	लोधा ऑब्टीनेट रिअल इस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC168879
1010	लोधा लक्झरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC168978
1011	लोधा अग्रोबिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2007PTC173496
1012	संग्राम सिक्युरिटी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH2001PTC133394
1013	स्पेसवे दुर्स अँड टैवेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH1983PTC030672
1014	मेदहेल्थ सर्वीसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U85110MH1992PTC067480
1015	स्काय- हाय स्कॅफोल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U28111MH1993PTC071982
1016	नीलकंठ फार्म अँड हाउसेस प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2005PTC155499
1017	फर्स्ट रॉकफोर्ड इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2007PTC169713
1018	स्काय-बिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1984PTC032939

1019	शामला कन्स्ट्रक्शन अँड इन्वेस्टमेन्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U41953MH1986PTC041953
1020	प्राज्वीद डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1988PTC046999
1021	सुर्या टिम्बर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U20100MH1988PTC048607
1022	प्रेमसन्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U27201MH1990PTC058399
1023	आयबेक्स सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC085204
1024	अगवान ट्रेलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U34102MH1995PTC091049
1025	कीवेस्ट शेअर्स अँड सिक्युरिटीज कन्सलटन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH2005PTC158134
1026	रेन फॉरेस्ट हॉटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U55100MH2006PTC160166
1027	ब्लिस एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U92130MH2007PTC173134
1028	लोधा बोनाफाइड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC168963
1029	ट्रायकॉन फिल्म प्रॉडक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U92120MH2007PTC170616
1030	प्लेजंट रिऑलिटी अँड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2007PTC173495
1031	इन्फाटेक रिऑलिटी अँड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2007PTC173531
1032	लोधा इन्फ्राक्रीएशन्स अँड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2007PTC173655
1033	लोधा इन्फ्रावीजन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2008PTC178024
1034	टेस्ट बडस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U55204MH2003PTC140875
1035	लोधा इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC168819
1036	टॉप केन सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U29150MH1986PTC041429
1037	बालाजी सुगरकेन प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड	U15420MH1995PTC085170
1038	संकल्या मर्कन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC088714
1039	लोधा फोरमोस्ट कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC166532
1040	लोधा सिविल कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U70200MH2007PTC186834
1041	न्यूलूक्स मिडीया अँड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH2007PTC174117
1042	बलराज कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2008PTC178072
1043	चिन्मी कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2008PTC178175
1044	ब्रेन्ट कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51101MH2008PTC179685
1045	ब्ल्यू बैंड कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51109MH2008PTC179479
1046	पेसवॉर ट्रेडींग इन्वेस्टमेन्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1982PTC027640
1047	उर्वशी लैन्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH1993PTC072730
1048	कोरेगांव सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC088211
1049	त्रिजल फिन्लीज प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH1995PTC092831
1050	हवानेट नेटवर्किंग अँड इन्टरनेट सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2005PTC155414
1051	कोनॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2006PTC168008
1052	संदेश सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2007PTC168880
1053	मनीमद्रा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2007PTC169206
1054	प्रेना ऑटोमेटिब्ज प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1980PTC023509
1055	आय इ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2001PTC132315
1056	विनक्युलम ग्रे प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2004PTC146874
1057	विजन 20-20 मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2007PTC168502
1058	लक्ष्मी कल्पशी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2005PTC157810
1059	बी आर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2005PTC156659
1060	इन्टेग्रा मेन्टनन्स कन्सलटन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH2005PTC156963

1061	ग्लासीयल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC090267
1062	वायर फॉर्म्स लिमिटेड	U74999MH1961PLC012156
1063	पॉली डेकॉर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U36100MH1987PTC045534
1064	प्रताप ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U36911MH1995PTC084803
1065	नरखेडे पॉवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U31200MH2006PTC159399
1066	एरो वुलन्स प्राइवेट लिमिटेड	U17123MH2007PTC170781
1067	सकेत कॅन्स प्राइवेट लिमिटेड	U28920MH1982PTC026353
1068	केयुर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1982PTC027440
1069	हर्म्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1987PTC042559
1070	राज टैंक अँड वेसल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U29290MH1988PTC049532
1071	निकीता एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	U51109MH1991PTC064171
1072	ऑप्शन चॅनेल प्राइवेट लिमिटेड	U82110MH1985PTC085230
1073	सॉफ्टवेयर अल्लोरिदम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH1995PTC087836
1074	एम एम चोकसी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1996PTC097195
1075	अनुज कम्पोजीटीज प्राइवेट लिमिटेड	U51100MH2004PTC145411
1076	इन्टेग्रा प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH2005PTC190660
1077	अंसील हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24233MH2005PTC196838
1078	गेलॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U32100MH1984PTC034002
1079	अशोक टी प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड	U01132MH2006PTC163285
1080	मॉडस्टाट ऑनैलिस्टस प्राइवेट लिमिटेड	U93090MH2007PTC167189
1081	एच एस मंगलम रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH2007PTC176705
1082	ऑल इटालिया ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U36911MH2000PTC127986
1083	कुमाना इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH1992PTC055661
1084	नोवा फिन्वेस्टेड बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड	U65944MH1982PTC067681
1085	पूर्वी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1996PTC101782
1086	स्टर्लींग डीटीएच मार्केटींग लिमिटेड	U51109MH1998PLC114095
1087	इल्लेन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	U51365MH1998PTC114996
1088	नेटशॉपी वेबसर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH1998PTC113248
1089	भन्साली अल्युमिनीयम प्राइवेट लिमिटेड	U27200MH1998PTC117409
1090	डी सी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U27200MH1998PTC117410
1091	एकोमिडीया इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH1998PTC118799
1092	जे एन एम मारीया इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2000PTC125213
1093	क्लीअरग्रीप रिप्रेजेंटेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U52334MH2001PTC130424
1094	सिस्टमैटीक हायजीन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24200MH2002PTC136312
1095	रिकल्स ब्रीज कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74100MH2005PTC153148
1096	जाजल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	U52320MH1984PTC034703
1097	शीलडॉल इन्फास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45203MH2007PTC169993
1098	ज्वेलकाफ्ट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड	U36911MH2008PTC178393
1099	गोएल करीअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH1999PTC117965
1100	जेसी फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड	U24100MH2005PTC154370
1101	मल्टीसर्व प्रिन्टपेक प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1993PTC070689
1102	धाना संपदा कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2001PTC130605
1103	कोमेक्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51509MH2003PTC058651
1104	रथी पैपीन्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1978PTC020178
1105	मेहता फोटो प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1988PTC046326



1106	मेकाले फिनान्सीयल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH1992PTC067189
1107	जे एन मार्शल फिनान्सीयल सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U65920MH1994PTC060428
1108	कमलाश्री ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U51102MH1995PTC087203
1109	मिडीयास्कोप एक्सपोजिशनस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1995PTC087996
1110	बी एस कॉन्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51395MH1997PTC110222
1111	अनिश पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड	U24134MH1999PTC121219
1112	वेस्टर्न अग्रो अँड हायजीन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24210MH1999PTC122267
1113	ब्राउन आउटडोर पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड	U24240MH2004PTC145850
1114	स्पायका मेरिटाइम प्राइवेट लिमिटेड	U35100MH2005PTC153615
1115	कपूर सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1985PTC035681
1116	फेअर स्केल्स प्राइवेट लिमिटेड	U29150MH2006PTC160068
1117	स्कायटच टैवेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040MH2007PTC174731
1118	ऑफको अँडकर्टायजींग प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH1991PTC063515
1119	दोशी सिनफॉब प्राइवेट लिमिटेड	U18101MH1999PTC119140
1120	साइ पूल अँड स्नूकर गेम्स प्राइवेट लिमिटेड	U92410MH1999PTC119515
1121	टेरी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1999PTC121955
1122	ऑक्सीजन स्टेशन इंडिया लिमिटेड	U23201MH2001PLC130973
1123	इन्फोमैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2001PTC133612
1124	हेन्ना मरीन कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH2003PTC139200
1125	पीएसके बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2004PTC149697
1126	पीएसके कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2004PTC149757
1127	ऑलसी काग्रो शिपींग प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH2005PTC158532
1128	बेन्स दे बटीक प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2006PTC163527
1129	आराधना अँग्री प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH2007PTC166748
1130	दुर्वीश अँग्री रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH2007PTC166746
1131	गैलैक्सी अँग्री प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2007PTC175826
1132	श्रेयस रिऑलिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U01403MH2007PTC175827
1133	मॅजेस्टीक रिऑलिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U01403MH2007PTC175828
1134	अँडमीट टु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U92114MH1999PTC120844
1135	आर आर एम प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC162797
1136	मैगो ट्रेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U51101MH2007PTC170550
1137	जागरुक एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1999PTC120239
1138	फेरीरा डिझाइन प्राइवेट लिमिटेड	U18109MH2007PTC176551
1139	अॅपन वर्गीस कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1984PTC034109
1140	विमल टायर्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1992PTC067235
1141	गरोडीया इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH1994PTC078591
1142	पुष्पक डिटेक्टीव्ज अँड गार्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74920MH1995PTC086237
1143	मुन्शी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1995PTC089630
1144	विश्वामगल लिजींग अँड फिनान्स कंपनी लिमिटेड	U65910MH1995PLC094291
1145	प्रिन्टलाइन ऑफसेट प्राइवेट लिमिटेड	U22219MH1996PTC103771
1146	विश्वा इन्फोटेक लिमिटेड	U72200MH2000PLC126585
1147	हाय इम्पॅक्ट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2001PTC133413
1148	बिसा मिनरेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U13200MH2004PTC148705
1149	जय सालसर कमोडीटीज अँड ऑप्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U51100MH2004PTC149093



1150	क्वान्टम लीप इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	U31403MH2006PTC163770
1151	वेल्ड वेल इलेक्ट्रोडस प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1955PTC009580
1152	मंजुश्री इंजिनिअरींग एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH1979PTC021707
1153	इन्टरबल्क शिपिंग अँड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH1983PTC031117
1154	विदर्भा ड्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U15540MH1989PTC050956
1155	आलोक लिजींग प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH1988PTC051631
1156	मेहूल ऑटो कूलेंट प्राइवेट लिमिटेड	U24242MH1989PTC051693
1157	मैजीक सिन्थेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U17118MH1996PTC102487
1158	एक्सपोजेनशिअल ग्रोथ मार्केट लिमिटेड	U67120MH1998PLC114890
1159	सुधीर रथी सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH12000PTC124135
1160	मोहिनी फार्मासियुटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24239MH2000PTC126263
1161	एस-3 हॉस्पिटल्स अँड रिसर्च अँकंडमी प्राइवेट लिमिटेड	U85110MH2004PTC147777
1162	तिफन अँग्रो टेड प्राइवेट लिमिटेड	U51220MH2004PTC149856
1163	विजय अँग्री रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC167412
1164	ब्लैंड फिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U29253MH2007PTC167859
1165	नवनिर्माण मायनींग प्राइवेट लिमिटेड	U13209MH2007PTC175354
1166	डेक्सटर पेपर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U21010MH1986PTC039864
1167	पैदे फिनांस प्राइवेट लिमिटेड	U65920MH1994PTC081943
1168	डेल्टा एम्ब्रॉडरी प्राइवेट लिमिटेड	U18101MH2001PTC133735
1169	एडेन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2003PTC140251
1170	श्रीनाथजी रिऑलीटी डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC165780
1171	डेवलेपमेन्ट अँग्री रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH2008PTC166019
1172	पल्लवी लैन्ड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC168306
1173	प्रतीक लैन्ड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC168307
1174	हरीत अँग्री प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2007PTC170095
1175	पदमासन्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH2007PTC174343
1176	स्वागत रिऑलिटी अँड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2007PTC175825
1177	विराट मायनींग प्राइवेट लिमिटेड	U13209MH2007PTC175355
1178	मुंद्रा रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2008PTC179235
1179	जय मा अम्बे रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2008PTC179348
1180	जोस्टार्स एसेन्सिशियल्स प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15410MH2007PTC176411
1181	कैरॉन चित्रा एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	U82112MH1990PTC055532
1182	प्रताप लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65921MH1990PTC058343
1183	कॅनरा पेट चिप्स प्राइवेट लिमिटेड	U25209MH2006PTC158965
1184	नॉरींद हेल्थकेअर प्राइवेट लिमिटेड	U85100MH1997PTC110034
1185	सी अँड डी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1981PTC025335
1186	एन्टर हॉटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1983PTC047205
1187	द्रवीड अँड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U17120MH1992PTC070152
1188	वीवीए टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U17110MH1993PTC072283
1189	नीक इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U27310MH1993PTC072451
1190	नमुरा कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH1993PTC073086
1191	लान कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U70200MH1993PTC074240
1192	लोक आर्किटेक्चर अँड प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH1995PTC087939

1193	शालीमार मैनेजमेन्ट सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC089995
1194	एक्विटी अॅनालीसीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC092449
1195	सिस्को फिनान्स अॅन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1995PTC092689
1196	फिदै इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC094963
1197	लोक इस्टेट एन्ड जनरल मेन्टेनेंस प्रा.लि.	U45400MH1996PTC097975
1198	लोक इंटरडिज़ार्नर्स प्रा.लि.	U74990MH1996PTC098014
1199	उत्कर्ष होटल्स एन्ड रिसॉर्ट प्रा.लि.	U55101MH1996PTC100657
1200	लोक होलीडे रिसॉर्ट प्रा.लि.	U55101MH1996PTC103146
1201	शब्दे कन्सलटंट प्रा.लि.	U74210MH1996PTC103666
1202	अस्टेया हाउसींग एन्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U70100MH1996PTC103769
1203	नागपूर पॉलीपैक लि.	U25202MH1997PLC106069
1204	बिड्जिजी इलेक्ट्रोडिज प्रा.लि.	U74999MH1997PTC108499
1205	एमको इन्फोटेक लि.	U72200MH2000PLC125046
1206	मोडल टेडिंग प्रा.लि.	U51900MH2000PTC125432
1207	आम्रो टान्स-इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.	U31909MH2002PTC134959
1208	जी आर मर्कटाईल प्रा.लि.	U51090MH2002PTC136268
1209	एसव्ही इलेक्ट्रोप्लास्ट इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	U28920MH2003PTC141247
1210	अमिता टेडकॉम प्रा.लि.	U52322MH2005PTC155973
1211	आर टाउन न्युजप्रिंट इंडिया। प्रा.लि.	U99999MH2005PTC157816
1212	टेडशिल ऑनलाइन कन्सलटंस प्रा.लि.	U72900MH2006PTC158680
1213	एनपीपी प्रिटींग एन्ड पैकेजिंग प्रा.लि.	U74950MH2006PTC163152
1214	एआरसी फ्लोरा कॅम्प प्रा.लि.	U24110MH2006PTC165347
1215	स्कायलाइन डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH2007PTC169059
1216	अर्बन गॅस सप्लायर्स लि.	U40200MH2008PLC178173
1217	अॅपलेट रियालेटर प्रा.लि.	U45202MH2008PTC180045
1218	अवास रियालेटर लि.	U45200MH2008PLC178952
1219	आरवीवा टेक्सइंड प्रा.लि.	U17120MH1993PTC071884
1220	अमर विवा टेक्सइंड प्रा.लि.	U17100MH1993PTC071966
1221	द ब्रिगस्टुमीन कंपनी इंटरनेशनल। प्रा.लि.	U72900MH2000PTC129222
1222	मेको कॅम्प इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	U24117MH2006PTC165542
1223	रिजॉईस लैंड डेवलपर्स लि.	U45201MH2007PLC158348
1224	सम्राट रियालीटी एन्ड डेवलपर्स लि.	U45200MH2008PLC177611
1225	जय इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि.	U45400MH2007PLC177013
1226	अर्बन गॅस डिस्ट्रिब्यूशन लि.	U40200MH2008PLC178171
1227	अर्ब गॅस लि.	U40200MH2008PLC178172
1228	सेको टेक्नोमॅश [बोरिवाला] प्रा.लि.	U29219MH1990PTC058289
1229	एल्वार फायनांस प्रा.लि.	U67120MH1993PTC073778
1230	एम ए लोखंडवाला दुगार शेल्ड्स प्रा.लि.	U70100MH1994PTC082637
1231	मल्टि. टेड एक्सपोर्ट्स इंडिया लि.	U51900MH1999PLC123427
1232	लवाटे प्रॉपर्टि डेवलपर्स प्रा.लि.	U45102MH2001PTC131268
1233	किप्स टेड एन्ड इन्वेसमेंट्स प्रा.लि.	U51909MH2002PTC136694
1234	फाईन पेपर टयुब्स प्रा.लि.	U99999MH1984PTC034597
1235	कर्मा लॉजिस्टिक प्रा.लि.	U63090MH2006PTC160093
1236	विभूति अॅग्री प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U70101MH2007PTC166788

1237	त्रिदेव अंग्री प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U70101MH2006PTC166352
1238	शगुन अंग्री रियालेट्स प्रा.लि.	U70101MH2007PTC169568
1239	यु फेडरल एंटरटेनमेंट प्रा.लि.	U92190MH2007PTC173563
1240	गिल्ट इंपेक्स प्रा.लि.	U51900MH1983PTC029871
1241	पोसीटेक्स इलेक्ट्रोडोमेस्टिक प्रा.लि.	U32109MH1988PTC049862
1242	विदर्भ पॅकेजिंग प्रा.लि.	U74950MH1995PTC087259
1243	शोजन सोल्युशन्स प्रा.लि.	U72200MH2005PTC155264
1244	इंटरनेस कंपीटल एशिया। लि.	U65990MH2005PLC196228
1245	अमीवा इंटरनेशनल प्रा.लि.	U70100MH2006PTC160103
1246	कृष्णा अंग्री एन्ड फार्म रियालेट्स प्रा.लि.	U70101MH2006PTC165968
1247	पुकराज अंग्री प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U70101MH2006PTC166350
1248	कालस्केप कन्सल्टिंग प्रा.लि.	U74140MH2007PTC172969
1249	मुफ्ती मेटल्स प्रा.लि.	U27100MH2007PTC171732
1250	भाविक स्टिल्स प्रा.लि.	U27107MH2007PTC171731
1251	इंडियन मार्बल इंडस्ट्रिज बॉम्बे प्रा.लि.	U14100MH1986PTC038836
1252	गुरुकृपा लिझिंग प्रा.लि.	U65990MH1991PTC062825
1253	ऑटो गार्ड एजन्सीज एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.	U50100MH1995PTC085898
1254	शरादा पंप्स प्रा.लि.	U74999MH1998PTC117268
1255	दयावती एंटरटेनमेंट प्रा.लि.	U92132MH2000PTC128036
1256	स्पेसविज मिडिया प्रा.लि.	U92100MH2004PTC147859
1257	किश अंग्री रियालेट्स प्रा.लि.	U70109MH2007PTC166789
1258	सोलार सॉफ्टटेक प्रा.लि.	U72900MH2007PTC173288
1259	अमी इनवेसमेंट्स प्रा.लि.	U65990MH1972PTC016171
1260	एम एच वुलन मिल्स प्रा.लि.	U17117MH1973PTC016379
1261	कृष्णा लिझिंग लि.	U99999MH1986PLC038962
1262	जे मॅन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रा.लि.	U22219MH1989PTC054132
1263	बिडीएच बायोटेक प्रा.लि.	U74999MH1991PTC063993
1264	वखारिया एन्ड कंपनी प्रा.लि.	U67120MH1993PTC073136
1265	टालुक्स टेडिंग प्रा.लि.	U51900MH1993PTC075358
1266	देवाकि मल्टिफिल्स प्रा.लि.	U24134MH1994PTC078985
1267	इव्हंस एन्ड ऑड्स शेअर्स प्रा.लि.	U67120MH1995PTC091435
1268	हिसको इलास्टिक प्रा.लि.	U25119MH1995PTC093441
1269	मराठवाडा एक्सीप्रेशन प्रा.लि.	U62100MH1998PTC116829
1270	कैमटेक इंडिया प्रा.लि.	U24110MH1999PTC121563
1271	ईएमएस मार्केटिंग प्रा.लि.	U51900MH2000PTC128282
1272	युनाडेवनाअप इंडिया। मार्केटिंग नेटवर्क लि.	U51909MH2002PLC134458
1273	डायनामिक्स इन्फोकॉम प्रा.लि.	U72900MH2003PTC138754
1274	पाम्स एज्युकेशनल सर्विसेस प्रा.लि.	U80903MH2003PTC140225
1275	रिक्वावमेड टेक्नोलॉजीस प्रा.लि.	U51507MH2004PTC149967
1276	एससुमा सर्जिकल डिवायसेस प्रा.लि.	U33110MH2005PTC152180
1277	शिल्पकर रियालेट्स इंडिया। प्रा.लि.	U55101MH2005PTC155290
1278	शिल्पकर फिल्म्स प्रा.लि.	U92100MH2005PTC155317
1279	आमीवा एनर्जी सर्विसेस प्रा.लि.	U74900MH2006PTC160788
1280	मीरेकल अंग्री प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U70101MH2006PTC166101

1281	लोकेश अग्रो प्रॉपर्टीज प्रा.लि.	U70101MH2006PTC166355
1282	पॅरडाईज अग्रो प्रॉपर्टीज प्रा.लि.	U70102MH2007PTC166686
1283	सिर्नजी सिथेटिक इक्वुपमेंट प्रा.लि.	U29251MH2007PTC166975
1284	सिल्वर टिप्स प्रा.लि.	U99999MH1986PTC040843
1285	कॅरी एअरकंडिशनर सेल्स एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.	U29192MH1988PTC049803
1286	नोव्हा अॅडव्हर्टायजिंग पॅलेस प्रा.लि.	U74300MH1990PTC054201
1287	कोलोजीन डेंटल प्रॉडक्स लि.	U24245MH1993PLC071412
1288	हमिज फिन-इपेक्स प्रा.लि.	U65920MH1993PTC074328
1289	आशिश काग्रो मुर्व्हस प्रा.लि.	U63010MH1995PTC088528
1290	लता डायमंड्स एन्ड ज्वेलरी प्रा.लि.	U36911MH1995PTC090844
1291	पॉश होम डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH1995PTC099321
1292	गगनगिरी अकॉमोडेशन प्रा.लि.	U70100MH1996PTC097336
1293	वॉललैंड डेटाकॉम इंडिया प्रा.लि.	U72100MH1997PTC108418
1294	थिन पॉवर कंपनी लि.	U40108MH2000PLC129537
1295	जॉर्ज ट्रेडिंग प्रा.लि.	U51909MH2002PTC137421
1296	व्हाइआरएस मार्केटिंग एन्ड अॅडव्हर्टायजिंग प्रा.लि.	U74300MH2002PTC137478
1297	सॉफ्टवेक्स डेटा मैनेजमेंट प्रा.लि.	U72200MH2005PTC151778
1298	सेव्ही ट्रेडिंग इंडिया कंपनी प्रा.लि.	U51909MH2005PTC156702
1299	ब्राव्हो अलाएन्स प्रा.लि.	U63040MH2005PTC158249
1300	स्टेटस टेक सोल्युशन्स प्रा.लि.	U72100MH2006PTC161065
1301	सनविक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी प्रा.लि.	U74999MH2006PTC163653
1302	इंडियम एडव्हाइज़री सर्विसेस प्रा.लि.	U74140MH2007PTC171546
1303	गोल्डन-रेज प्रॉपर्टीज प्रा.लि.	U45201MH2007PTC175141
1304	स्टार गिनिंग एन्ड प्रेसिंग फॅक्टरीज लि.	U99999MH1931PTC001789
1305	पल डायस्टफ इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	U99999MH1984PTC033541
1306	वायना फुड एन्ड ब्रेक्रेजेस लि.	U24100MH1984PLC034714
1307	अॅटवीन इनवेस्टमेंट्स एन्ड ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	U99999MH1986PTC042049
1308	मुनराईस इनवेस्टमेंट्स एन्ड ट्रेडिंग प्रा.लि.	U65990MH1991PTC060455
1309	सोना अॅग्रो इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	U01110MH1991PTC064494
1310	वैशलेज इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC089371
1311	स्कायर्स अॅन्ड प्रिन्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC091075
1312	कॉमसेप्ट इन्फार्मेशन टेक्नॉलॉजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1995PTC093102
1313	झीनीथ इलेक्ट्रोप्लेटर्स अॅन्ड मॅन्युफॅक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U35900MH1996PTC096691
1314	नीरु सील्क मिल्स लिमिटेड	U17101MH1997PLC106488
1315	संधान अॅडव्हर्टायजिंग अॅन्ड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH1997PTC109874
1316	कॉम्पेक्स सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2001PTC131668
1317	पावरमॅटीक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U32109MH2003PTC142641
1318	मलजीयानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2004PTC150189
1319	कोडीया प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	U25200MH2005PTC150357
1320	दीप्त धान व्यापार प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH2005PTC158051

1321	टेक्स लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2007PTC173768
1322	पैथोलॉजीकल लॉबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	U85190MH1951PTC008580
1323	पाल इंजीनीयरिंग अँड फेबरीकेशन्स सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U26956MH1977PTC019723
1324	मेमी मेटलटेक प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1981PTC025186
1325	वडलैंड होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1983PTC030496
1326	सीसेंग डाटा टेक्नीकलस प्राइवेट लिमिटेड	U32106MH1984PTC033564
1327	सनवीला होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1984PTC034205
1328	जयशंकर सिन्थेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U17110MH1986PTC041679
1329	सिकारीया इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1987PTC044167
1330	टेक्सेस पेट्रोवेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U24100MH1990PTC056136
1331	रीयल वॉल्यू सिव्योरिटिज प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1991PTC060882
1332	लीयोपर्ट एक्सपोर्टर्स लिमिटेड	U51900MH1992PLC065677
1333	कीमसन सिन्थेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51311MH1992PTC069497
1334	भनराधा इत अँड सिव्योरिटिज प्राइवेट लिमिटेड	U55200MH1994PTC076303
1335	संभाव कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1995PTC087195
1336	प्लावा सिव्योरिटिज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC088512
1337	बक्स सिव्योरिटिज प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1996PTC100786
1338	एसपीएस एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	U51311MH1996PTC117703
1339	वेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15110MH1999PTC119420
1340	परफेक्ट रेमेडीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2003PTC136917
1341	टरबोपार्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U31100MH2003PTC139147
1342	मोंगांत इंजीनीयरिंग सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH2003PTC140035
1343	लोखंडवाला एवीशन प्राइवेट लिमिटेड	U63033MH2003PTC141021
1344	पॉलीकैम रिफॉक्टरीज मंडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51102MH2003PTC141204
1345	इन्ड इन्वेन्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U74130MH2005PTC151738
1346	फायर अँड भाडस रीकरीयेशन प्राइवेट लिमिटेड	U55100MH1999PTC120120
1347	नीशीगंधा मीलक प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15200MH2005PTC155610
1348	मोंगोले टेक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2006PTC165509
1349	लसी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397MH2007PTC167228
1350	सोनल फर्टायजर प्राइवेट लिमिटेड	U19202MH1998PTC012936
1351	भगवती प्राइवेट लिमिटेड	U24100MH1980PTC023371
1352	इकोन प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1982PTC026327
1353	हारमोनी म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड	U92113MH1983PTC031061
1354	पारसराजपरीया अँड गमा बील्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1985PTC035300
1355	आचार्य एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1985PTC037076
1356	ब्रोम्बे पम्प हाउस प्राइवेट लिमिटेड	U29120MH1985PTC038482
1357	बीडीएच केमिकलस अँड फार्मास्युटीकलस प्राइवेट लिमिटेड	U52310MH1987PTC042411
1358	कर्जत हार्टिकल्चरल प्राइवेट लिमिटेड	U01110MH1987PTC042674
1359	त्रिबं कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1987PTC044260
1360	प्रतीमा लीजींग अँड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65900MH1988PTC047689

1361	वलटेक्स अँड सिन्टेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U17110MH1988PTC047812
1362	एकमत कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1990PTC057815
1363	वीनी इंजीनियरींग प्राइवेट लिमिटेड	U33100MH1990PTC059504
1364	मेघानी फायनान्स अँड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1991PTC062931
1365	पीवी इंजीनियरींग अँड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U28920MH1992PTC065139
1366	डिमि अग्रवाल मेर अँड स्टोक बोक्स लिमिटेड	U67120MH1993PLC070547
1367	पीरामीड होटेल्स अँड रिमोट्स प्राइवेट लिमिटेड	U56200MH1993PTC075386
1368	अँनाल्टीकल सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1993PTC075545
1369	जीन्यून फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U65910MH1993PTC075596
1370	सायनटेक्नीक सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH1994PTC076512
1371	लोटस सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U30007MH1994PTC078877
1372	शीवनेरी फायनर्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1994PTC079348
1373	अंकर प्राइवेट लिमिटेड	U17120MH1994PTC080583
1374	नवाले ट्रांसपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1994PTC083352
1375	सागर कला इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC085709
1376	शध फायनान्स अँड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC087623
1377	आर्म्स केमिस्ट प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1995PTC088535
1378	अकॉर्ड टेड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC091322
1379	जेन्युइन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC095573
1380	इवेल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1995PTC095836
1381	अतिना मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1995PTC096490
1382	सागर कला अर्गुकेस प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1996PTC096597
1383	हैमन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1996PTC097830
1384	टॉक फ्री (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U51505MH1996PTC099291
1385	मल्टीपलस फ्यूरल इन्जेक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U26113MH1996PTC100764
1386	अंजिक्य टेडींग लिमिटेड	U51900MH1997PLC107491
1387	सीलेक्शन एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1997PTC107670
1388	वी बी इंजिनिअरींग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH1998PTC117227
1389	न्यू मिलिनियम हाउसींग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1999PTC122203
1390	महादेव इन्फोसीनरजीस अँड नेट टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट	U72900MH1999PTC122314
1391	फॅशन-पोर्टल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U74994MH2000PTC125909
1392	सिमलीक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2000PTC128933
1393	फ्रंटस अँड नट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U15130MH2000PTC128988
1394	टावेन मेट प्राइवेट लिमिटेड	U63040MH2001PTC133528
1395	वायडचेनल सॉफ्टवेयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2003PTC141472
1396	यमार्ड टेक्नो फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	U29197MH2004PTC145370
1397	गोल्डशील्ड बीजनॅस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U24230MH2004PTC150239
1398	एण्ड्रू इन्शुरेंस टेडींग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2005PTC153236
1399	रुमेश प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U22200MH2005PTC155709
1400	रॉयल मीनीमार्ट प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH2005PTC157745
1401	प्रार्डम पोर्टल्स लिमिटेड	U72900MH2006PLC127447
1402	मोती एक्टिवमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U29300MH2005PTC155647
1403	केन्टर ऐरकंडिशनरींग सीस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U31103MH2006PTC164726
1404	एथेना जीओटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2006PTC165897

1405	भौडाइन टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2007PTC171278
1406	मानस कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2007PTC171841
1407	कलरलाईन्स टेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2007PTC172172
1408	फ्रीओला मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U27100MH2007PTC178850
1409	जर्मन टर्लींग टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U29269MH2008PTC180342
1410	सीसीडीसी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH1975PTC018508
1411	सीसीडीसी केमीकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24100MH1979PTC021226
1412	हरी फेल्कस मशीन प्राइवेट लिमिटेड	U29100MH1982PTC027626
1413	जीतगीर टेडींग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1982PTC027963
1414	आरती श्रीनगर पॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U24245MH1986PTC039232
1415	तलसी एगरो केम प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1986PTC041426
1416	राजलक्ष्मी फ्लोर मील्स ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड	U15311MH1987PTC042489
1417	खैबर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH1990PTC058338
1418	युनिकेम अॅनलॉटीकल्स इन्सट्रुमेन्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U29290MH1991PTC062456
1419	सहादी एक्जिक्शनिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U29191MH1992PTC066212
1420	मिन्द टेक्नॉलॉजीज ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1992PTC067346
1421	पितीका फिनान्स अॅन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65923MH1992PTC069882
1422	भवदिप फायनांशियल सर्विसेस प्रा.लि.	U65920MH1994PTC076306
1423	त्रीफाम बिर्ल्ड्स एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	U70101MH1994PTC078234
1424	रॉक टेडिंग प्रा.लि.	U51900MH1994PTC078672
1425	फर्म स्पेशालिटीज इंडिया। प्रा.लि.	U99999MH1994PLC0798e6
1426	सौभाग्य हाउसिंग प्रा.लि.	U99999MH1995PTC090989
1427	श्रद्धा स्टॉक ब्रोकिंग प्रा.लि.	U67120MH1996PTC095915
1428	न्यु बॉम्बे फुड प्रॉडक्ट प्रा.लि.	U99999MH1996PTC099428
1429	सागर अॅग्री एन्ड हर्बल प्रा.लि.	U01100MH1997PTC109806
1430	राहुल मशीनरी एन्ड इंजिनिअरिंग कंपनी प्रा.लि.	U31100MH1998PTC115595
1431	अर्नब पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.	U24117MH1998PTC117084
1432	अंजठा एथनोल इंडिया प्रा.लि.	U15420MH1999PLC118091
1433	मोरया केमिकल्स प्रा.लि.	U24110MH2004PTC121470
1434	स्टॅनहयुज कन्सलटंसी एन्ड इंपेक्स प्रा.लि.	U74140MH1999PTC122728
1435	टीएसए मल्टि ट्रेड इंडिया प्रा.लि.	U52100MH2000PTC124087
1436	विणा इन्फोमिडियाराइज प्रा.लि.	U72200MH2000PTC127586
1437	शिवओम मार्केटिंग प्रा.लि.	U51909MH2001PTC132740
1438	दशभुजा रिकवर एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.	U65999MH2002PTC134852
1439	प्रोतिभा मैनेजमेंट कन्सलटंट प्रा.लि.	U74140MH2004PTC144238
1440	एम्बीयन्स हाउसिंग एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	U70100MH2004PLC144988
1441	महाकाल फायनांशियल सर्विसेस प्रा.लि.	U67190MH2004PTC147233
1442	मोर्बेसी टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	U32109MH2004PTC148226
1443	बी एन्ड एस हाउस ऑफ हेल्थ प्रा.लि.	U24230MH2005FTC151391
1444	लॅरिकल कॅसेटिज एन्ड फिल्म प्रा.लि.	U22300MH2001PTC132422
1445	सोलापुर कापड व्यापारी संघ लि.	U51900MH1959PLC009443
1446	प्रो सोल्युशन हॉस्पिटैलिटी एन्ड रिसोर्स मैनेजमेंट प्रा.लि.	U74910MH2005PTC158018
1447	श्री रेणुका माता इस्पात एन्ड मेटल लि.	U27101MH2006PLC158844



1448	तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाला मुंबई। प्रा.लि.	U15433MH2006PTC168779
1449	आयटेल सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्रा.लि.	U72200MH2006PTC161076
1450	गैनाटयुम एक्सपोर्ट प्रा.लि.	U51909MH2006PTC163540
1451	सनबिल फूड प्रॉडक्ट प्रा.लि.	U15209MH2006PTC166411
1452	सेपकॉम पॉवर इंडिया प्रा.लि.	U74999MH2007FTC163352
1453	रिअलटी इस्टेट मैनेजर एन्ड कन्सल्टंट इंडिया। प्रा.लि.	U74140MH2008PTC178898
1454	लोढा कोरे कन्स्ट्रक्शन एन्ड इंजिनिअर्स प्रा.लि.	U45200MH2007PTC168449
1455	निशकॅलो वेल्ड टेक्नीक प्रा.लि.	U51900MH2007PTC174390
1456	एलडोर लेदर्स प्रा.लि.	U19122MH2008PTC177198
1457	ब्रिक्स कंट्रोल सिस्टम लि.	U99999MH1987PLC045648
1458	कन्सोलिडेटेड फूटवेअर लि.	U74999MH1984PLC033310
1459	यज्ञम पॉवर प्रा.लि.	U31908MH2007PTC169808
1460	सर्वोटेक एक्सपोर्ट प्रा.लि.	U51900MH1978PTC020642
1461	लैंडमार्क रिसॉर्ट प्रा.लि.	U55200MH1986PTC039186
1462	गोपाल गोर्थे फंड्स प्रा.लि.	U65990MH1986PTC040225
1463	पेरीसन डारावर रेस्टोरेंट प्रा.लि.	U55101MH1990PTC054960
1464	परफेक्ट ऑटोमोटिव्ह गिअर्स प्रा.लि.	U29130MH1990PTC059154
1465	क्लि पब्लिक रिलेशन प्रा.लि.	U74130MH1995PTC093631
1466	द्वारकाधिश मर्चंडाईज प्रा.लि.	U51900MH1999PTC123220
1467	अतित कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45201MH2000PTC124392
1468	पार्व इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रा.लि.	U30007MH2002PTC134957
1469	बुन सॉफ्टवेक सोल्युशन प्रा.लि.	U72200MH2002PTC136277
1470	सैच्युरिअन प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U45200MH2005PTC154640
1471	थंबप्रिंट आर्टिस्ट मैनेजमेंट एन्ड प्रॉडक्शन प्रा.लि.	U92132MH2006PTC161359
1472	जिमा आर्ट गैलरी प्रा.लि.	U36911MH2007PTC176962
1473	ठाणे मेटल एड्स एन्ड केमिकल्स प्रा.लि.	U27100MH1988PTC045953
1474	सनश्री ट्रेडिंग एन्ड कॉमर्स प्रा.लि.	U51900MH1988PTC046047
1475	हंसपाल टायर्स प्रा.लि.	U25110MH1938PTC048538
1476	स्टेलीयन एजन्सी प्रा.लि.	U51102MH2004PTC049444
1477	अॅमिको कार्टिंग प्रा.लि.	U27300MH1989PTC050558
1478	क्रियेटिव्ह परफ्युम प्रा.लि.	U99999MH1990PTC055068
1479	शानु सिरेन प्रा.लि.	U32109MH1992PTC068503
1480	जीपी मरीन ट्रान्सपोर्ट प्रा.लि.	U61100MH1993PTC072827
1481	स्टर्लिन लैब प्रा.लि.	U25206MH1993PTC073823
1482	स्मुथ शार्प कटर्स प्रा.लि.	U28931MH1994PTC076075
1483	सोत्र ट्रान्सपोर्ट इंडिया। प्रा.लि.	U60300MH1994PTC078915
1484	गितांजली फायनल्टाईज प्रा.लि.	U65923MH1985PTC086963
1485	आकिन्स डॉक्यूमेंट स्टोरेज कंपनी प्रा.लि.	U92310MH1995PTC090941
1486	जय श्री कृष्ण बिल्डर्स एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH1995PTC092229
1487	ट्रान्स फाईट पैनल्स इंडिया लि.	U34203MH1995PLC092459
1488	शिल्प सिव्हील इंजिनिअर्स एन्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH1995PTC093940
1489	आनंद रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि.	U74140MH1995PTC095464
1490	महेन्द्रकुमार खिमचंद फॅब प्रा.लि.	U17100MH1996PTC101177
1491	रुबी फार्मस एन्ड हॉलिडे रिसॉर्ट प्रा.लि.	U01110MH1996PTC102882



1492	साहनसन्स इंडस्ट्रिज लि.	U70100MH1996PLC104367
1493	ट्रस्ट ट्रेड एन्ड इन्वेसमेंट कंपनी प्रा.लि.	U51900MH1998PTC116557
1494	अपेक्स पैसिफीक फॉर्बर्ड्स प्रा.लि.	U63090MH1998PTC116876
1495	सन उजाला ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	U51900MH1999PTC118693
1496	इंद्रगिरी प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U99999MH1999PTC123148
1497	नेटअक्सिस टेक्नोलॉजीस प्रा.लि.	U72100MH2000PTC124130
1498	टिब्रेवाला पेपर्स प्रा.लि.	U71092MH2000PTC125618
1499	स्टार सर्च टेक्नोलॉजीस प्रा.लि.	U72200MH2000PTC126155
1500	बिंदी इंडिया इन्फो-टेक प्रा.लि.	U72200MH2000PTC128739
1501	रुचिरा किचन प्रा.लि.	U36101MH2000PTC129487
1502	केएएम सरफेस टेक्नोलॉजीस प्रा.लि.	U72900MH2001PTC132806
1503	फिनिक्स इंपेक्स प्रा.लि.	U51909MH2001PTC134029
1504	हरमजन डाग्नोस्टिक प्रा.लि.	U85110MH2001PTC134346
1505	घनिस्ता मर्कटाईल प्रा.लि.	U51909MH2002PTC136790
1506	हिक बिजनेस प्रोसेस इंडिया। प्रा.लि.	U74140MH2002PTC137594
1507	सिद्धि विनायक क्रियेशन प्रा.लि.	U92100MH2003PTC138506
1508	इन्फोलॉजीस सर्विसेस। मुंबई। प्रा.लि.	U72900MH2003PTC139472
1509	लोगन इस्ट्र्युमेंट इंडिया प्रा.लि.	U51507MH2003PTC139724
1510	पुडन्ट डेबट रिकवरी सर्विसेस प्रा.लि.	U65990MH2003PTC141744
1511	इफोरिया इंपेक्स प्रा.लि.	U51909MH2004PTC146154
1512	व्हीएफएम ट्रेडिंग एन्ड कन्सलटंट प्रा.लि.	U51909MH2004PTC146493
1513	प्रोफेशनल ग्लास सोल्युशन प्रा.लि.	U26100MH2005PTC155487
1514	इंटेलिजेंटहसीया कन्सलटंट प्रा.लि.	U74100MH2005PTC155842
1515	जोर्नथन इंपेक्स प्रा.लि.	U51909MH2003PTC143289
1516	अटलांटिज इन्वेसमेंट एडव्हाइजर इंडिया। प्रा.लि.	U65990MH2005PTC155633
1517	वन डॉप मार्केटिंग प्रा.लि.	U51909MH2006PTC156824
1518	निलाक्षी सेनगुप्ता कम्युनिकेशन प्रा.लि.	U74999MH2006PTC162929
1519	जय दायल कपूर पेपर्स प्रा.लि.	U51102MH2006PTC162764
1520	ओम रिअल इस्टेट प्रा.लि.	U70101MH2006PTC166083
1521	लोरि अग्रोटेक प्रा.लि.	U74999MH2007PTC168219
1522	उतोपिया रिअलटी प्रा.लि.	U70102MH2007PTC168785
1523	मयक्युरी वेल्थ मैनेजमेंट इंडिया। प्रा.लि.	U67190MH2007PTC168966
1524	इसेन्स इंटरप्राइजेस प्रा.लि.	U01403MH2007PTC168802
1525	अक्सले अंशुअरटेक प्रा.लि.	U72900MH2008PTC177776
1526	फायर कॅम्प्युटर ग्राफिक्स प्रा.लि.	U72200MH2007PTC173593
1527	जेतपुर सोमनाथ हाथवे लि.	U60200MH2007PLC175335
1528	यॉर्कशिर रिसॉर्ट एन्ड प्रोजेक्ट प्रा.लि.	U55101MH2007PTC175768
1529	पुष्पक मल्टिट्रेड प्रा.लि.	U51101MH2007PTC175756
1530	मॉस इस्टेट प्रा.लि.	U45400MH2008PTC177951
1531	मॉस प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U45400MH2008PTC177950
1532	साबरे कॅपिटल इंडिया इन्वेसमेंट एडव्हाइजर प्रा.लि.	U67190MH2008PTC180341
1533	क्रियेटिव्ह पैकिंग प्रा.लि.	U28129MH1963PTC012710
1534	आर के बैटरी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रा.लि.	U99999MH1972PTC015639
1535	कोरे एडव्हाइजर इंडिया एन्ड मार्केटिंग प्रा.लि.	U74300MH1976PTC0818742
1536	देसाई एन्ड कंपनी मेटल इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	U99999MH1981PTC024708

1537	सिडका डाईज प्रा.लि.	U99999MH1982PTC026856
1538	राटी कलर प्रा.लि.	U67120MH1982PTC026865
1539	कप्पा सिगमा टेलीमैटीक प्रा.लि.	U30007MH1986PTC040184
1540	अपली सॉफ्ट इंटरनेशनल प्रा.लि.	U99999MH1987PTC042696
1541	अलान कर्मशिशल प्रा.लि.	U51900MH12003PTC046533
1542	सादिक एन्ड कंपनी कन्स्ट्रक्शन। प्रा.लि.	U45200MH1990PTC056919
1543	ओयस्टर पैकिंग प्रा.लि.	U28120MH1991PTC061439
1544	पीसीएन इंपेक्स प्रा.लि.	U51900MH1991PTC062206
1545	ऑरेंज सिटी इंजिनिअरिंग एन्ड टेड्स प्रा.लि.	U74210MH1992PTC067550
1546	ग्रासेफ इनवेसमेंट एन्ड कन्सलटंसी सर्विसेस [बॉम्बे] प्रा.लि.	U74140MH1992PTC068895
1547	गुड स्पन टेडिंग एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	U51900MH1992PTC068923
1548	डवेल हाउसिंग एन्ड कन्स्ट्रक्शन लि.	U45200MH1993PLC070471
1549	कौकण एजन्सी प्रा.लि.	U51900MH1993PTC070745
1550	फ्लोजेट मार्केटिंग प्रा.लि.	U51900MH1993PTC073786
1551	राजदिप सॉफ्टवेयर कन्सलटंसी प्रा.लि.	U74140MH1993PTC075413
1552	जीपी डेवलपर्स प्रा.लि.	U70102MH1993PTC075839
1553	राजनारायण गार्मी कॉपर एक्सपोर्ट लि.	U30007MH1994PLC076085
1554	यस प्लास्टिक प्रा.लि.	U25209MH1994PTC079274
1555	अमरुनी मार्केटिंग प्रा.लि.	U57900MH1994PTC084195
1556	ग्रिन पॅरट इनवेसमेंट प्रा.लि.	U67120MH1995PTC084809
1557	सॉफजेल टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	U24246MH1995PTC085241
1558	लाविष्णु कारपोरेट फायनांस एन्ड मैनेजमेंट लि.	U67100MH1995PLC088943
1559	शेली टेडिंग एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	U65990MH1995PTC090173
1560	समदर्शी लिडिंग एन्ड फीनवेस्ट प्रा.लि.	U67120MH1995PTC091031
1561	विघ्नहर होम्स प्रा.लि.	U70100MH1995PTC091526
1562	इस्थर अँगो लि.	U15100MH1995PLC093850
1563	हर्मीतेज लवलेश कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH1995PTC095371
1564	जीओमेस्टिक एंटरप्राइझस प्रा.लि.	U74140MH1995PTC095549
1565	श्वेतुष फायनांशियल एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	U65990MH1996PTC096087
1566	ब्लूपर्ल इक्वीफईन प्रा.लि.	U65990MH1996PTC096189
1567	सागर कला-प्राइम इंडिया। कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH1996PTC096511
1568	कॅनसा फायर प्रोटेक्शन कंपनी प्रा.लि.	U29270MH1996PTC103460
1569	मांटुगा कम्युनिकेशन प्रा.लि.	U92110MH1996PTC103555
1570	हिरा सेंथेटिक प्रा.लि.	U51900MH1997PTC107327
1571	जिओमेस्टिक इंपेक्स प्रा.लि.	U51900MH1998PTC112975
1572	डीपीजी बिल्डर्स एन्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH1998PTC114449
1573	मंगेश कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U63023MH1998PTC116608
1574	अरविंद टेकस्टाइल प्रा.लि.	U51311MH1999PTC118055
1575	इंटीग्रेटेड मैसनरी सिस्टम ग्रुप इंडिया प्रा.लि.	U74210MH1999PTC118322
1576	केशव कम्युनिकेशन प्रा.लि.	U92110MH1999PTC120386
1577	फलक कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH1999PTC121436
1578	टेक्नोव्हेटर्स मशिनरी प्रा.लि.	U28920MH1999PTC122352
1579	सिकोह इंपेक्स प्रा.लि.	U51900MH12000PTC123979
1580	प्राइम सिविल इंजिनिअर्स प्रा.लि.	U45203MH12001PTC130280

1581	हटडीया इम्पेक्स प्रा.लि.	U57311MH2001PTC131985
1582	बाले सॉफ्टवेयर कन्सलटंस प्रा.लि.	U72900MH2001PTC132823
1583	विवेक फुड्स प्रा.लि.	U15110MH2002PTC134982
1584	इन्वेंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट [बॉम्बे] प्रा.लि.	U74899MH2002PTC137791
1585	एसडीएम इल्कोट्टोनीक इंडिया प्रा.लि.	U31809MH2003PTC138738
1586	यूपीझोन फार्मा प्रा.लि.	U52310MH2003PTC140387
1587	रिर्सजन्स एडव्हायझरी सर्विसेस प्रा.लि.	U74140MH2003PTC140736
1588	अमेया हॉस्पिटैलीटीज प्रा.लि.	U55101MH2003PTC141069
1589	सी लव्हेंडर शिपींग प्रा.लि.	U83090MH2003PTC141329
1590	सहयोग डिलर्स प्रा.लि.	U51430MH2003PTC142990
1591	रत्ना-सिंधु पोर्ट्स सर्विसेस प्रा.लि.	U63032MH2004PTC143874
1592	ब्ल्यू सी फुड्स प्रा.लि.	U92110MH2004PTC144744
1593	सर्व टेड्स प्रा.लि.	U51909MH2004PTC150221
1594	महदी टेक्स्टाइल मिल्स प्रा.लि.	U17120MH2005PTC150802
1595	कुडोज ओवरसीज प्रा.लि.	U36998MH2005PTC150886
1596	राजल-सिध्दी गृह निर्माण प्रा.लि.	U45200MH2005PTC151245
1597	मानी कमोडीटीज प्रा.लि.	U51100MH2005PTC155454
1598	इंटीग्रेटेड कोर्पोरेट गाईड प्रा.लि.	U80900MH2005PTC157361
1599	रिओडर डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH2006PTC161363
1600	एमडी इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्वेंट मैनेजमेंट प्रा.लि.	U74140MH2006PTC161541
1601	मुद्रा एक्सपोर्ट प्रा.लि.	U51909MH2006PTC164535
1602	इंटीविऑन टेक्नोलॉजी प्रा.लि.	U72200MH2006PTC164780
1603	इमजी इस्टेट मैनेजमेंट एन्ड डेवलपमेंट प्रा.लि.	U93090MH2007PTC166722
1604	सिल्क नॉलेजपार्क एन्ड मैनेजमेंट प्रा.लि.	U80301MH2007PTC168558
1605	सिल्क वॉटर रीसॉर्सस प्रा.लि.	U74900MH2007PTC170855
1606	संग-फोर्ड डेडिंग प्रा.लि.	U67120MH2006PTC161858
1607	एलएमजी लॉयलटी सर्विसेस इंडिया प्रा.लि.	U74990MH2007PTC169936
1608	अॅन्स कियेशन प्रा.लि.	U52393MH2007PTC176212
1609	अर्पुवा मल्टिटेड प्रा.लि.	U52100MH2007PTC173146
1610	अनंत मल्टिटेड प्रा.लि.	U52100MH2007PTC173224
1611	किडेशिअल्स फार्मस प्रा.लि.	U01403MH2007PTC175590
1612	सिल्क सेज होल्डिंग प्रा.लि.	U70102MH2007PTC176546
1613	हाथपॉइंट इट सोल्युशन प्रा.लि.	U72900MH2008FTC179809
1614	ब्रिहन मार्केटिंग प्रा.लि.	U51900MH1992PTC095709
1615	जिओमेस्टिक मार्केटिंग एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.	U51900MH1997PTC166521
1616	अॅप्रो इंटरप्राइजेस प्रा.लि.	U24110MH1999PTC119252
1617	प्रकृति फुड्स एन्ड केमिकल्स प्रा.लि.	U51900MH2009PTC127861
1618	टेस्टॉन कन्सल्टिंग प्रा.लि.	U74140MH2006PTC168184
1619	शहा सैथेटिक प्रा.लि.	U99999MH1982PTC828071
1620	नितसन कमोडिटीज प्रा.लि.	U51900MH1998PTC098700
1621	निदिश ऐक्झीम प्रा.लि.	U70100MH1998PTC101767
1622	डीएमएस डीरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम इंडिया प्रा.लि.	U51909MH2002PTC138855
1623	मेडनो पब्लिकेशन प्रा.लि.	U22100MH2005PTC154757
1624	एमएजी वेयर प्रा.लि.	U18101MH2008PTC169491

1625	बिलबा पेपर प्रा.लि.	U22100MH1939PTC002975
1626	पुरुषोत्तमदास मधवानी एन्ड कंपनी प्रा.लि.	U50100MH1946PTC004762
1627	फर्म केमिकल्स प्रा.लि.	U24110MH1970PTC014770
1628	लोटस पेपर मिल्स प्रा.लि.	U21010MH1972PTC015827
1629	प्रसन इनव्हेस्टमेंट एन्ड फायनांस प्रा.लि.	U67120MH1978PTC020382
1630	बायटको फार्माकेम प्रा.लि.	U24239MH1980PTC022635
1631	स्टॅलीओन टेकस्टाईल प्रा.लि.	U17100MH1982PTC027168
1632	सनीदो टेकस्टाईल प्रा.लि.	U17100MH1982PTC027168
1633	इकमस इआरपी इंडिया प्रा.लि.	U93000MH1984PTC032632
1634	कपुर टेकस्टाईल प्रा.लि.	U17110MH1984PTC033471
1635	गुरुप्रित प्लास्टिक एन्ड इजिनिअर्स प्रा.लि.	U99999MH1986PTC039411
1636	सेंटल ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रा.लि.	U63010MH1986PTC039500
1637	मिरा प्लास्टिक प्रा.लि.	U25200MH1988PTC046841
1638	निक पॉलीमर्स प्रा.लि.	U24130MH1988PTC048664
1639	प्रियसा इनव्हेस्टमेंट एन्ड फायनांस प्रा.लि.	U67120MH1990PTC056194
1640	सीगुल प्लास्टिक प्रा.लि.	U25200MH1990PTC059589
1641	साईज एक्सपोर्ट कंपनी प्रा.लि.	U51311MH1991PTC061828
1642	झुलाश टायवल एन्ड कार्गो प्रा.लि.	U63010MH1991PTC063658
1643	सेशा इनव्हेस्टमेंट प्रा.लि.	U65990MH1992PTC066358
1644	मेल्लेक्स इनव्हेस्टमेंट एन्ड फायनांस प्रा.लि.	U98999MH1992PTC070026
1645	जमीना टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	U51900MH1993PTC073550
1646	ओनेक्स मर्कटाईल प्रा.लि.	U51900MH1995PTC087888
1647	आरे डी कार्गो मूर्हस प्रा.लि.	U63011MH1995PTC091117
1648	रघुनाथजी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	U35110MH1995PTC093024
1649	एन टी बी हायटेक सिरेमिक्स लि.	U28920MH1995PLC093598
1650	कटेनर हंडलर्स प्रा.लि.	U63032MH1995PTC095471
1651	डेनस्टार डिब्बायसेस प्रा.लि.	U36000MH1995PTC097751
1652	देशिन कलर केम प्रा.लि.	U65990MH1997PTC107960
1653	मैरवि कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH1997PTC118265
1654	दादीकर लायटिंग प्रा.लि.	U31500MH1999PTC119205
1655	डील पल्प एन्ड पेपर्स प्रा.लि.	U21000MH1999PTC120192
1656	क्लब टु थारंजट इंडिया। प्रा.लि.	U55100MH1999PTC120742
1657	नाथ रसायन प्रा.लि.	U24110MH1999PTC123385
1658	विजयलक्ष्मी कॅरियर्स प्रा.लि.	U63000MH2000PTC125553
1659	नीचे इटिरिअर्स प्रा.लि.	U74994MH2000PTC126646
1660	श्याम मरिन सर्विसेस प्रा.लि.	U61100MH2000PTC128219
1661	लॉजिक्स टेडिंग प्रा.लि.	U51900MH2000PTC128668
1662	सिनेमा-टाईम इन्फोमिडिया इंडिया। लि.	U72900MH2000PLC129525
1663	फायरवॉल अंटीप्रियेंसी इंडिया। प्रा.लि.	U74920MH2001PTC130932
1664	पार्वतीलक्ष्मी रिऑलिटी प्रा.लि.	U70109MH2001PTC133682
1665	पॉवर जेन्सपेअर एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.	U72100MH2002PTC138117
1666	फायरवॉल पिरेसी इनव्हेस्टीगेशन प्रा.लि.	U74920MH2002PTC138185
1667	ऑरेंज सिटी फायनांशियल कन्सलटंसी सर्विसेस प्रा.लि.	U65920MH2003PTC139983
1668	बि व्ही सी ज्वेल्स प्रा.लि.	U36910MH2004PTC144309
1669	मेस्ट्रो मार्केटिंग एन्ड सेल्स प्रमोशन प्रा.लि.	U51909MH2004PTC146697

1670	अंना लॉजिस्टिक प्रा.लि.	U63000MH2004PTC147392
1671	फौजिया प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U70100MH2005PTC152523
1672	इंटरफेज टेक्नालॉजी प्रा.लि.	U51507MH2005PTC156697
1673	एफएक्स इंडिया ऑनलाइन कन्सल्टिंग प्रा.लि.	U74140MH2005PTC157044
1674	बिसीबी सिक्युरिटी प्रा.लि.	U67120MH2001PTC131514
1675	डब्ल्यूसीए टेनीस एन्ड स्पोर्ट प्रा.लि.	U82400MH2006PTC158106
1676	दायकलको दायकल प्रा.लि.	U63040MH2006PTC164376
1677	अलका अप्लाइन्सेस प्रा.लि.	U29253MH2007SGC167139
1678	एसीइटेक सॉफ्टवेयर सोल्युशन प्रा.लि.	U72900MH2007PTC172103
1679	हरीओम री-रोलींग प्रा.लि.	U28910MH2007PTC171577
1680	दु पोर्टो सिडस प्रा.लि.	U01403MH2007PTC170600
1681	इनल्यूएक्स ई-सिस्टम प्रा.लि.	U72900MH2007PTC171835
1682	स्पिडीकट स्मॉलकटिंग टुल्स प्रा.लि.	U99899MH1976PTC019341
1683	सचिन टेकस्टाईल प्रा.लि.0	U18101MH1981PTC025289
1684	कांतानु एक्सपोर्ट प्रा.लि.	U65990MH1982PTC036786
1685	राजेंद्र पेन्टा अप्लाइन्सेस एन्ड इलेक्ट्रॉनिक लि.	U99999MH1985PLC038092
1686	मनवानी डेवलपमेंट एन्ड फायनांस प्रा.लि.	U70100MH1986PTC040918
1687	मंत्रा प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U45200MH1987PTC043454
1688	स्टार ज्वेल्स प्रा.लि.	U36911MH1988PTC046620
1689	मानव प्रेम इनवेसमेंट एन्ड ट्रेडिंग प्रा.लि.	U67120MH1991PTC0660437
1690	शंकर महादेव बिल्डर्स प्रा.लि.	U99999MH1991PTC063783
1691	शहिना दायकल प्रा.लि.	U63040MH1991PTC064475
1692	लॉरेन्स बॉच कंपनी प्रा.लि.	U33300MH1993PTC071946
1693	कोमेत ग्रानाईट प्रा.लि.	U14102MH1993PTC072186
1694	वियस ऑफशोर प्रा.लि.	U74999MH1994PTC077640
1695	तारोनी इस्टेट एन्ड होल्डिंग प्रा.लि.	U70101MH1994PTC078034
1696	स्टर्किल रिसर्च सेंटर प्रा.लि.	U85195MH1994PTC078651
1697	कम्प्युटर एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	U72200MH1994PTC081779
1698	अमये फिनवेस्ट प्रा.लि.	U65910MH1995PTC082881
1699	मायको पॅकेजींग मशिनरी लि.	U28280MH1995PLC089310
1700	इशा रोडलाईन्स प्रा.लि.	U60210MH1995PTC089746
1701	ब्राह्मो सिक्युरिटी प्रा.लि.	U67120MH1995PTC093546
1702	मैक्सीम मल्टिमिडिया शॉप प्रा.लि.	U74999MH1995PTC093703
1703	साची कंपिटल सर्विसेस प्रा.लि.	U74140MH1995PTC095466
1704	मोहम्मदअलिज इंटरिअर डिजायर्नस प्रा.लि.	U36100MH1996PTC096089
1705	कार्तिक कारपोरेट सर्विसेस लि.	U67120MH1996PLC097328
1706	रिसॉरसेस इनवेसमेंट एन्ड मैनेजमेंट इंडिया प्रा.लि.	U65993MH1996PTC100370
1707	मुक्तागिरी पेटर्स प्रा.लि.	U22210MH1996PTC101123
1708	स्पेशियस होम्स प्रा.लि.	U70100MH1996PTC101423
1709	वैद्य एन्ड असोसिएट टेकस्टाईल कन्सलटंस प्रा.लि.	U74130MH1996PTC104758
1710	एच आर पी इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	U31503MH1997PTC108621
1711	प्रेमसागर होटल्स प्रा.लि.	U55101MH1997PTC110633
1712	चिंतन सोल्युशन्स प्रा.लि.	U72300MH1997PTC111504
1713	फोर प्लस मार्केटिंग सर्विसेस प्रा.लि.	U51900MH1997PTC111771
1714	नम्रता सेल्स कंपनी [इंडिया] प्रा.लि.	U51100MH1998PTC115584

1715	निलम गोल्डक्लाफ्ट प्रा.लि.	U36911MH1998PTC116728
1716	शबरी सुपर शॉप्स प्रा.लि.	U51100MH1999PTC121963
1717	शिम्स ट्रेडिंग प्रा.लि.	U51900MH2000PTC126291
1718	सनसुसी सेल्स कंपनी प्रा.लि.	U74910MH2000PTC128766
1719	ट्रिपल एअरकंडिशनिंग इंजिनिअर्स प्रा.लि.	U29191MH2000PTC129212
1720	गिलबेक्स सुक्युरिटी प्रा.लि.	U67120MH2001PTC129567
1721	युनायटेड अल्युमिनियम मिल्स प्रा.लि.	U27203MH2001PTC132598
1722	पुष्पक एक्सप्रेस सर्विस प्रा.लि.	U63090MH2001PTC132877
1723	निका इनवेसमेंट प्रा.लि.	U65993MH2001PTC133063
1724	हॅपी - लाईफ जनरल इश्युरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि.	U74140MH2001PTC133130
1725	कॉसमॉस फोरेक्स एन्ड ट्रायवल प्रा.लि.	U65999MH2002PTC134850
1726	सहयाद्रि अंडरस्टायडिंग प्रा.लि.	U74300MH2002PTC135745
1727	शिनति ओरमेंटल ग्लास प्रा.लि.	U26100MH2003PTC138581
1728	क्वान्टम फिनान्स सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	U72200MH2004PTC145123
1729	ओरनाटे ज्वेलरी प्रा.लि.	U36910MH2004PTC145890
1730	हिरो इंजिनिअरिंग कंपनी प्रा.लि.	U29100MH2004PTC146153
1731	रॉय एंटरटेनमेंट कन्सलटिंग प्रा.लि.	U74999MH2004PTC146182
1732	लेबलप्रिंट इंडिया प्रा.लि.	U22220MH2004PTC146210
1733	रेडऑपल कम्युनिकेशन प्रा.लि.	U74300MH2005PTC150976
1734	राजकमल फार्मा डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा.लि.	U51397MH2005PTC151533
1735	मिरर फिल्मस प्रा.लि.	U92100MH2005PTC152757
1736	साहिल एंटरटेनमेंट प्रा.लि.	U92100MH2005PTC153280
1737	रिपटमैन अल्को ब्रिक्वरेज प्रा.लि.	U15500MH2005PTC153795
1738	एसक्यार डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH2005PTC156674
1739	विनटेक टेड फेयर्स प्रा.लि.	U92140MH1999PTC120046
1740	श्री केशव मिल्क प्रॉडक्ट लि.	U15300MH1999PLC120469
1741	जे एन्ड एम हॉस्पिटल प्रा.लि.	U85100MH2005PTC155617
1742	फोनटाईज सोल्युशन प्रा.लि.	U72100MH2005PTC157968
1743	स्काय हाय रिऑलीटीज प्रा.लि.	U45200MH2006PTC160386
1744	कामया ट्रायवल एन्ड टुर्स प्रा.लि.	U63040MH2006PTC163393
1745	एसएम बायोसायन्स प्रा.लि.	U33125MH2006PTC165501
1746	इमजी एंटरटेनमेंट प्रा.लि.	U93090MH2006PTC163807
1747	भरुचा एन्ड कुरेशी डेवलपर्स प्रा.लि.	U45201MH2006PTC165713
1748	संत फी रिलोकेशन सर्विसेस इंडिया प्रा.लि.	U74140MH2007PTC167444
1749	इमजी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्रा.लि.	U93090MH2007PTC166720
1750	डेल्टा फिल्मस एन्ड मिडिया प्रा.लि.	U92100MH2008PTC178158
1751	सहविजय इनवेसमेंट एन्ड ट्रेडिंग प्रा.लि.	U67120MH1991PTC060598
1752	दर्शन सॉफ्टवेयर लि.	U72200MH1992PLC068273
1753	टेमटेशन इंपेक्स प्रा.लि.	U18181MH1995PTC084714
1754	गगनदिप स्ट्रिअल इस्टेट प्रा.लि.	U45201MH1995PTC084756
1755	विदर्भ डिपार्टमेंटल स्टोअर्स प्रा.लि.	U52190MH1995PTC080144
1756	स्प्लेनदिद श्युअरटीज प्रा.लि.	U67120MH1995PTC089537
1757	शेम्स डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH1999PTC116072
1758	श्रीकृष्णा प्रोविजन्स एन्ड नॉकौलटीज प्रा.लि.	U51200MH2000PTC124881

1759	तरन्स प्रिप कंजुमर प्रॉडक्ट प्रा.लि.	U72100MH2000PTC125273
1760	वासे इंडिया। प्रा.लि.	U63090MH2003PTC148709
1761	कॉरनेट प्रा.लि.	U72900MH2003PTC141068
1762	अमिज हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस प्रा.लि.	U55100MH2003PTC143160
1763	चिरल हेल्थकेअर प्रा.लि.	U24230MH2005PTC152437
1764	डेल्टा क्युअेटस प्रा.लि.	U50500MH2005PTC154649
1765	श्रीटेकलैब सप्लाइज प्रा.लि.	U51507MH2005PTC155109
1766	हार्डकोरे फिटनेस प्रा.लि.	U53090MH2006PTC161010
1767	वेव 3 नॉलेज सर्विसेस प्रा.लि.	U93090MH2006PTC164598
1768	इमिडिया सॉफ्टवेक इंडिया। प्रा.लि.	U72200MH2000PTC127548
1769	अलफोर्म टयुब्स प्रा.लि.	U24110MH1973PTC017000
1770	बसंत फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर प्रा.लि.	U92110MH1974PTC017358
1771	कॉपर चिमणी कंटेनर्स प्रा.लि.	U55200MH1976PTC019343
1772	इंटरपब प्रा.लि.	U74300MH1980PTC023056
1773	इनार्च कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U99999MH1981PTC024414
1774	डायमंट बोआर्ट पेट्रोलियम इंडिया प्रा.लि.	U36912MH1985PTC036874
1775	कॉनकरंट फायनांस एन्ड इनवेसमेंट कंपनी प्रा.लि.	U65990MH1991PTC060941
1776	ऑटलस फोटोरिसिर्टस लि.	U30000MH1993PLC071980
1777	निकोलसन फायनांस कंपनी प्रा.लि.	U65922MH1993PTC073242
1778	शुभलक्ष्मी मर्कटाईल क्रेडिट प्रा.लि.	U65999PN1993PTC073831
1779	सिस्टरेन सॉफ्टवेअर प्रा.लि.	U72200MH1994PTC082312
1780	लिब्रा इक्विफाईन प्रा.लि.	U65910MH1994PTC082844
1781	देव प्रवेश कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH1994PTC083783
1782	अएसइ फाईटिज लि.	U99999MH1995PLC090221
1783	कॉनसेप्ट टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	U51900MH1995PTC092618
1784	क्रिस्टल हेल्थ केअर प्रा.लि.	U85110MH1995PTC095510
1785	श्री विश्वकला सर्विसेस कंपनी प्रा.लि.	U63040MH1997PTC108347
1786	किन्न ऑग्निकल्चर डेबलपमेंट कंपनी लि.	U01100MH1997PLC110289
1787	बिनी इपेक्स प्रा.लि.	U18101MH1997PTC110651
1788	सुजामो इपेक्स प्रा.लि.	U24110MH1998PTC115745
1789	बैरागि टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	U51496MH1999PTC118131
1790	मायको मिलेनियम सॉफ्टनेट इंडिया। लि.	U72200MH2000PLC124575
1791	डीआर पवार एस हेल्थ केअर प्रा.लि.	U55100MH2000PTC125125
1792	ओजस इनवेसमेंट एन्ड कन्सलटंसी प्रा.लि.	U67120MH2000PTC125140
1793	मारो इन्फोटेक प्रा.लि.	U72900MH2000PTC125429
1794	वॉच पैलेस इंडिया। प्रा.लि.	U33300MH2000PTC125797

1795	सिग्मा इन्फोर्मेटिक प्रा.लि.	U72200MH2000PTC130133
1796	डुईट सोल्युशन्स इंडिया। लि.	U72900MH2001PLC131358
1797	हैपी अवर टॉयमेकर्स इंडिया। प्रा.लि.	U25202MH2001PTC131779
1798	एकयुक्त लैंड डेवलपर्स प्रा.लि.	U45201MH2001PTC132003
1799	डायनामिक ऑटोमोटिव्हज एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.	U34102MH2001PTC132176
1800	रॉकेट इलेक्ट्रॉनिक प्रा.लि.	U72900MH2001PTC132667
1801	रेडडी कन्स्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्रा.लि.	U45200MH2001PTC133159
1802	देवांश इन्फोटेक प्रा.लि.	U72900MH2002PTC135065
1803	श्रेयस ऑटो इनव्हेन्शन्स प्रा.लि.	U34300MH2002PTC135089
1804	सीस कार्गो प्रा.लि.	U63010MH2002PTC137567
1805	एनएसके लॉजिस्टिक प्रा.लि.	U63040MH2002PTC137834
1806	डॉ. मेहेमुद'स डायग्नोस्टिक फॉईट प्रा.लि.	U85100MH2002PTC138107
1807	मार्क टेलिफोन्स प्रा.लि.	U64201MH2003PTC138690
1808	अमु प्रॉडक्शन्स प्रा.लि.	U82110MH2003PTC138758
1809	सारथी डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH2003PTC138769
1810	शारदा फिलफॅब प्रा.लि.	U17110MH2003PTC140990
1811	वायुदुत कुरिअर्स प्रा.लि.	U64120MH2003PTC141350
1812	नवजिवन मेडिकल सेंटर प्रा.लि.	U85110MH2003PTC143397
1813	खजानची फिल्मस प्रा.लि.	U92110MH2004PTC145201
1814	लिस्युअर अक्शन स्पोर्ट्स प्रा.लि.	U82199MH2004PTC145738
1815	कुसुमाकर कारस प्रा.लि.	U60220MH2004PTC146285
1816	अमिज आकाउंटिंग सर्विसेस प्रा.लि.	U74120MH2004PTC146479
1817	बेनहुर कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH2005PTC150777
1818	सुधन टान्सटेक प्रा.लि.	U31100MH2005PTC151272
1819	कॉलिटी गैस प्रा.लि.	U24111MH2005PTC151306
1820	इनको शिपिंग एन्ड ट्रेडिंग प्रा.लि.	U35110MH2005PTC152549
1821	मनी प्लॉट स्ट्रैजिटिक कन्सल्टन्स प्रा.लि.	U74100MH2005PTC152712
1822	दिव्या प्रा.लि.	U18101MH2005PTC154696
1823	आयव्हरी ज्वेल्स प्रा.लि.	U36911MH2005PTC154736
1824	स्वदिप फार्मा प्रा.लि.	U24230MH2005PTC154785
1825	प्रेरणा सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	U72900MH1999PTC120894
1826	अकित रोड एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स प्रा.लि.	U45200MH2006PTC159032
1827	डिलक्स करण सिक्युरिटी ब्रोकिंग प्रा.लि.	U99999MH2006PTC159461
1828	डिलक्स करण कमोडिटीज प्रा.लि.	U51100MH2006PTC159568
1829	हुई फॅशन प्रा.लि.	U17299MH2006PTC162696
1830	विलनिकल रिसर्च कन्सलटंट प्रा.लि.	U73100MH2007PTC174499
1831	कि फॅक्टर इंटिग्रेटेड कम्युनिकेशन्स प्रा.लि.	U74800MH2007PTC175242
1832	हिट आउटडोर मिडिया प्रा.लि.	U22200MH2007PTC177097
1833	हिट मिडिया एन्ड एंटरटेनमेंट प्रा.लि.	U92120MH2008PTC179067

हेनरी रिचर्ड  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



## कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पुणे, दिनांक 23 जनवरी 2012

सं. कर/560(5)/2012/सीपी/221--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	सी आय एन	कंपनी का नाम
1	U72200MH1996PTC103568	श्री इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2	U51909PN1999PTC014096	सुपरकॉन्ग्रीज़न्ट मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
3	U171111PN2005PTC020332	रोटेल स्पिनींग सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
4	U73200MH1997PTC105460	गंगोत्री डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
5	U85120PN2006PTC022123	स्पेशल डेंटल इन्स्टिट्यूट प्रायव्हेट लिमिटेड
6	U67112MH1994PTC083780	कीटू ट्रेड एण्ड इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
7	U36101MH1986PTC041748	कल्पक फर्निचर प्रायव्हेट लिमिटेड
8	U72200PN2003PTC018633	झिरकॉन इफोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
9	U85110PN2000PTC014533	कोलेकर हॉस्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
10	U72200PN2000PTC014602	एफ डब्ल्यू एल टेक्नॉलॉजिज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
11	U74999MH1996PTC098913	युनायटेड मारकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड
12	U51909PN2002PTC016789	लामर मार्केटिंग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
13	U65923MH1994PTC082563	कमलीधन एन्टरप्रायजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
14	U27310MH1975PTC018109	पूना पैटर्न्स एण्ड फाउंड्री प्रायव्हेट लिमिटेड
15	U72200PN2000PTC015618	मैक्स सेक्यूरिटी सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
16	U29299PN2003PTC017875	न्यूमैटेक एण्ड कंजर्वएअर एंटरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
17	U91990MH1981PLC024788	मलहोत्रा सिल्व्हर हिल्स क्लब लिमिटेड
18	U15499PN2005PTC020908	वेकफिल्ड न्यूट्रीशनशनल्स एण्ड फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
19	U73200PN2004NPL019693	धम्म कुळा सर्वोदय फार्म प्रायव्हेट लिमिटेड
20	U29219PN1992PTC069217	गार्डन इंप्लिमेंट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
21	U72200PN2005PTC020611	सुमित इफोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
22	U24244MH1996PTC095931	ऑरोमा इंसुलेशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
23	U24231PN1991PTC063107	केतन फार्मा प्रायव्हेट लिमिटेड
24	U45201PN1990PTC056496	हिरा मानेक डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
25	U29309MH1994PTC078576	कॉम्प चाटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
26	U23209MH1989PTC052701	साकार इफ्लूएण्ट ट्रीटमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
27	U51399PN2005PTC021481	बोनीसन्स ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
28	U29141PN2007PTC129715	शोई फर्नेसेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
29	U29219PN2006PTC021973	आर्चिज एक्विपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
30	U65921MH1993PTC075582	गोडबोले फायनान्स एण्ड लिजिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
31	U72200PN2003PTC017612	ट्रान्स टेक ऑटोमेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
32	U27109MH1994PTC080335	शुभम इलेक्ट्रोसेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
33	U72200PN2007PTC130892	वेबलिस्टीक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
34	U72200PN1999PTC014109	आयसॉल्व्ह प्रायव्हेट लिमिटेड
35	U31909MH1994PTC078744	रॉयल ट्रान्समिशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
36	U55101PN2004PTC019280	कंफर्ट झोन होटेल्स एण्ड कैटरर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
37	U45202PN2004PTC018845	सिंडिकेट शेल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
38	U65910MH1986PTC038753	लिताका लिजिंग एण्ड इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
39	U26960PN1999PTC013788	श्री कृष्णा माइन क्रशर प्रायव्हेट लिमिटेड
40	U72200PN2003PTC017745	आय सॉफ्ट लैब सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
41	U72200PN2006FTC022117	नेटफेब्रीक टेक्नॉलॉजिज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
42	U70101MH1996PTC102377	रोमा इस्टेट्स एण्ड प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड

43	U65993MH1987PTC042800	मुडी रोककन इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड.
44	U72200PN2005PTC020306	इंफोवोक्स सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
45	U74999PN2007PTC130423	मानेकजी डी. पेटिट कंसल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
46	U74900PN2008PTC132959	वेस्टर्नगेको इंडिया मैनुफैक्चरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
47	U65993MH1983PTC029212	चैत्राली इन्व्हेस्टमेंट्स एण्ड फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड
48	U72200MH1992PTC068251	परमार सॉफ्टवेयर एण्ड सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
49	U29299PN2006PTC128582	टेकनो रोबोटिक्स एण्ड ऑटोमेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
50	U85110MH1995PTC086427	शिवसाई हॉस्पिटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
51	U72200PN2005PTC020199	एड्डीक्रैन्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
52	U72200PN2000PTC014743	एनआरजी टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
53	U74140PN1982PTC028126	एमआरजी मैनेजमेंट रिसोर्सेस ग्रुप प्रायव्हेट लिमिटेड
54	U45201PN2005PTC020592	अमर विलेज ऑफ एक्सीलेंस डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
55	U52399MH1987PTC043917	वसुधा सेल्स एण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
56	U29112MH1977PTC019822	मेनन इंजिन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
57	U72200PN2006PTC128961	कस्पीऑन सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
58	U27107PN2006PTC128731	दांडेकर फाउंड्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
59	U65993PN1989PTC053289	चिन्मयी होल्डिंग्स एण्ड कंसल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
60	U72900PN2002PTC017336	ब्लुचिप्स सेमिकंडक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
61	U74920PN2003PTC017879	एम्फासिस सेक्युरिटी एण्ड अलाइड सर्विसेस (पुणे) प्रायव्हेट लिमिटेड
62	U31200PN1990PTC055750	मिलेनिअम इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
63	U74140MH1991PTC062202	गोपालकृष्ण मिल्क प्रायव्हेट लिमिटेड
64	U74900PN2008PTC132945	ऑप्रोप्रिएट एनर्जि सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
65	U72200PN2003PTC018156	प्रोक्नोन एजुकेशन सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
66	U74140MH1993PTC072129	बिना बायोटेक कंसल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
67	U70101PN2005PTC020903	सुयश रिअल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
68	U40108PN2008PLC132109	विवीद रिन्यूएबल एनर्जिज लिमिटेड
69	U15520PN2003PTC017820	फाइव्हास्टर एस डिस्ट्रीलरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
70	U61100PN1999PTC013980	एमआरए एविज़म सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
71	U51909MH1975PTC018413	टेनॉसिटी अंडेसिक्वज प्रायव्हेट लिमिटेड
72	U74300PN1999PTC013546	सनी अंडरटाइजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
73	U51909PN2004PTC019980	समिह्न सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
74	U65923MH1995PTC090873	प्रज्योश इन्व्हेस्टमेंट कंसल्टन्सी सर्विसेस
75	U29299MH1997PTC105804	मेटाबो पॉवर टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
76	U24110PN2008PTC131267	वाळवे केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
77	U28112MH1996PTC101157	विश्वास मेटल इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
78	U64120MH1994PTC080247	केलकॉन कूरीअर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
79	U72200PN1999PTC013660	पेश इंफोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
80	U72200PN2001PTC015731	इंफोमाया सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
81	U51504MH1988PTC047662	ग्राफीस मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
82	U72900PN2000PTC014963	इंडिया ओवरलैण्ड प्रायव्हेट लिमिटेड
83	U74999PN2008PTC132329	स्टारफिश कंसल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
84	U72900PN2006PTC129348	आयएसव्ही मार्केटप्लेस.कॉम (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
85	U29299MH1989PTC052724	रिफॉक्स एक्वीपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
86	U29219PN2005PTC020106	वर्गो सैसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
87	U51909PN2004PTC019377	नीड्स नेफीअम कंजुमर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
88	U15205PN2009PTC133924	मेलन फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
89	U51909PN2008PTC132314	सुंदर कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
90	U72200PN2006PTC128869	मायक्रोटेक टेक्नॉलजी सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
91	U21015PN2001PTC016186	समर्थ पैकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
92	U61100PN2004PTC019277	सिकैट मरीन सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
93	U72200PN2002PTC017509	न्यू विजन सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
94	U28110PN2009PTC133511	भैरवनाथ इंजिनिअरींग प्रायव्हेट लिमिटेड

95	U28113PN2009PTC133508	प्रभायती इंजिनिअरींग प्रायव्हेट लिमिटेड
96	U28113PN2009PTC133521	ओसिया इंजिनिअरींग प्रायव्हेट लिमिटेड
97	U28939PN2009PTC133506	अनुजा इंजिनिअरींग प्रायव्हेट लिमिटेड
98	U28113PN2009PTC133515	विनीत इंजिनिअरींग प्रायव्हेट लिमिटेड
99	U27201PN1998PTC012586	इप्लेक्स इंसुलेशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
100	U63040PN2006PTC129302	उष्मा ट्रैवल सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
101	U74900PN2008PTC132785	एक्सोनाइज़ टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
102	U72900PN2010PTC136075	मोन्डोटेक सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
103	U72200PN2002PTC017039	सायबरशिल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टिम अशुरन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
104	U72200PN2001PTC016593	बैंगलोर इटेकनॉलजी प्रायव्हेट लिमिटेड
105	U72200PN2002PTC017352	सिबेस-अर्कडमी प्रायव्हेट लिमिटेड
106	U29253PN2008PTC132634	मॉसर सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
107	U74900PN2009PTC134651	एक्सपेरीमेंट एच आर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
108	U72400PN2009PTC134129	ऑप्टनीक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
109	U27310MH1975PTC018109	पूना पैटर्न्स एण्ड फाउंड्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
110	U74999PN2010PTC135577	हाक रिक्रूटमेंट & कंसल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
111	U80211PN2008PTC132020	कुंजी एजुकेशनल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
112	U74200PN2008PTC131993	बस्कोन हाय-टेक मल्टी इंजिनिअरींग प्रायव्हेट लिमिटेड
113	U29199MH1994PTC078329	नॉर्थ स्टार बोर्ड एक्वीपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
114	U24234PN2002PTC017047	ए एण्ड के हेल्थ टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
115	U45203PN2009PTC135251	लोनावला सूरी इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
116	U29110MH1995PTC088137	गांधी फैब्रीकेशन सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
117	U45209PN2005NPL020885	रिव्हर व्हेली इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
118	U72900PN2005PTC020698	थिंग बियाँड सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
119	U29220PN2008PTC133000	डेकटेक एक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरींग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
120	U67120PN1985PTC036843	धनंजय इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड

एस. डी. पाटील  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शाह श्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
पणजी-403001, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 560(3)/1783--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शाह श्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता  
कंपनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डीआरआई क्लब ओल्ड ऐन्कर लिमिटेड के विषय में  
पणजी-403001, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 560(3)/1786--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डीआरआई क्लब ओल्ड ऐन्कर लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता  
कंपनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एक्वा फन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
पणजी-403001, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. 560(3)/1789--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एक्वा फन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता  
कंपनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स टिन पैक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
पणजी-403001, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 560(3)/1792--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस

तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टिन पैक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता  
कंपनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इंडियाकॉम डायरेक्टरीज लिमिटेड के विषय में  
पणजी-403001, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 560(3)/1796--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इंडियाकॉम डायरेक्टरीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता  
कंपनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स टी. एन. ऑटो एण्ड जनरल इंजीनियरिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड के  
विषय में

पणजी-403001, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 560(3)/1799--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टी. एन. ऑटो एण्ड जनरल इंजीनियरिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता  
कंपनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पल्कन इंडकैम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
पणजी-403001, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 560(3)/1802--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पल्कन इंडकैम प्राईवेट लिमिटेड



तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्लीजेंट पैकेजिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता  
कंपनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स स्टोनवॉल पैकेजिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 560(3)/1826--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्टोनवॉल पैकेजिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता  
कंपनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रिलैक्स्ड पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 560(3)/1829--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रिलैक्स्ड पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता  
कंपनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स गोवन एग्रो प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 560(3)/1832--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोवन एग्रो प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता  
कंपनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. कर./प.बं./560(5)/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	105667	मैसर्स डोयेन पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
2.	079654	मैसर्स चौधुरी हाउस एण्ड फ्लैट कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
3.	106530	मैसर्स डेल्टा बैटरीज प्राईवेट लिमिटेड
4.	119323	मैसर्स हैण्डी टेक्स्टाइल्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
5.	102821	मैसर्स अगामा एन्टरटेनमेंट लिमिटेड
6.	106459	मैसर्स कालीडोरा मर्कनटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	079338	मैसर्स एम. एल. सरकार एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
8.	033443	मैसर्स कावेरी मोपेड्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	116005	मैसर्स रेशनल टाइ-अप प्राईवेट लिमिटेड
10.	093673	मैसर्स मीरा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
11.	001818	मैसर्स नेशनल कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
12.	096858	मैसर्स डीलक्स डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	036330	मैसर्स आई. ए. कमर्शियल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	111416	मैसर्स लोगोस इन्फोटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
15.	034954	मैसर्स रिछा इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	043344	मैसर्स सलजर होल्डिंग्स इंडिया लिमिटेड
17.	039646	मैसर्स श्री विष्णु होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	037849	मैसर्स अनाट्रिक इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	037654	मैसर्स मेक्सफेक्टर होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	037651	मैसर्स डूप्पाईट इंडिया लिमिटेड

हरिहर साहू  
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार  
प. बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 19 जनवरी 2012

सं. आर.ओ.सी/560(5)/3591--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	7089	मैसर्स बी. एस. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	7090	मैसर्स एजोनीक टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
3.	7105	मैसर्स श्री गणेश फेरी एलोजेज प्राईवेट लिमिटेड
4.	7116	मैसर्स उत्कल माईका एफु मिनेरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	7120	मैसर्स नारायनी स्पन्ज आईरन प्राईवेट लिमिटेड
6.	7121	मैसर्स लक्ष्मी नारायनी कंसट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	7164	मैसर्स आरच इण्डिया कंज्यूमर हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
8.	7169	मैसर्स के. के. दृष्टिकोन प्राईवेट लिमिटेड
9.	7175	मैसर्स महाराजा दृष्टिकोन प्राईवेट लिमिटेड
10.	7190	मैसर्स आर. वी. एसोसियेटेड फ्रैनचाइज नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
11.	7199	मैसर्स उद्घाटक इन्फो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
12.	7203	मैसर्स लोटस ईस्टकॉन एण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	7215	मैसर्स लीडर्स वैबटेक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
14.	7244	मैसर्स अल्पस रीयलएस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
15.	7264	मैसर्स राधेकृष्ण कृष्णा कंसट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
16.	7265	मैसर्स मां लक्ष्मी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	7291	मैसर्स आर्य प्रभा मिनेरेल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
18.	7310	मैसर्स गीता प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	7322	मैसर्स सुदर्शन हर्बस एण्ड फोरेस्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	7337	मैसर्स ऑरीयान शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
21.	7352	मैसर्स सिजलरस कंसट्रक्शन्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	7360	मैसर्स सीडेट कंसलटेन्सी एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
23.	7421	मैसर्स डीपकोम हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
24.	7422	मैसर्स श्री बिया ओसिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	7465	मैसर्स शाश्वती एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. के. दास  
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-7530014, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. आर.ओ.सी/560(3)/3649--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	0951	मैसर्स इंडियन कार्बाईड एण्ड केमीकल्स लिमिटेड
2.	2434	मैसर्स जनज्योति जनरल फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट इण्डिया लिमिटेड
3.	3076	मैसर्स इरोसीया मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड
4.	3316	मैसर्स बेथेल ग्रीन ग्रोथ लिमिटेड
5.	3360	मैसर्स आनन्द परिवार सेवींग्स कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड
6.	3525	मैसर्स एशियन एग्रो फुड्स लिमिटेड
7.	3860	मैसर्स जय जय कैपिटल सिक्युरिटीज लिमिटेड
8.	4099	मैसर्स डायमंड उड़ीसा एग्रोटेक लिमिटेड
9.	4206	मैसर्स आरम्ब मीडिया लिमिटेड
10.	5454	मैसर्स अजन्ता मेटालिक्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	5456	मैसर्स अंजेनीया कनट्रक्शन्स एण्ड ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	5489	मैसर्स अम्बिका इलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	5500	मैसर्स जगनाथ सिक्युरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
14.	5639	मैसर्स इन्द्रधनु प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
15.	5694	मैसर्स ए. वी. एम. हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
16.	5888	मैसर्स साईनास्योर सिक्युरिटीज लिमिटेड
17.	6067	मैसर्स जे. बी. एस. उद्योग लिमिटेड
18.	7100	मैसर्स बीजी मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	7385	मैसर्स फास्टेन्स कंसट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
20.	7961	मैसर्स हिन्दुस्तान इन्डस्ट्रीयल वर्क्स लिमिटेड

सी. के. दास  
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

## कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चेन्नै, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 46765 से 46997 तक/560(5)/स्यो मोटो-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	46765	टेक हाप्स प्रैवेट लिमिटेड
2.	46800	सुब्रा एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
3.	46801	डापा टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
4.	46814	अवीया हैटेक कणसल्टन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
5.	46818	श्री विजैराम ग्रानैट् एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
6.	46821	हल्क्यान इन्फोटेक सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
7.	46832	क्लेयरवोयन्ट् प्लेसमेन्ट् कणसल्टन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
8.	46836	आरम्ब जी2एक्स टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
9.	46837	प्रिंसीटेक मशीनिंग वोर्क्स प्रैवेट लिमिटेड
10.	46838	कोर्सा सेक्युरिटीस प्रैवेट लिमिटेड
11.	46850	कान्प्राक्स टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
12.	46854	कृषीकौ एक्सपोर्ट्स & इम्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
13.	46859	अयिस मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड
14.	46861	केसिजी होटल्स प्रैवेट लिमिटेड
15.	46873	जिप्पर कणट्रोल्स प्रैवेट लिमिटेड
16.	46877	रिलियन टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
17.	14428	चोलण प्रापरटी डेवलपर्स प्रैवेट लिमिटेड
18.	46978	वोल्डवैड प्रिंटोन टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
19.	46937	तुरै प्रिन्टर्स प्रैवेट लिमिटेड
20.	46997	नुयु इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड

के. लता परिमलवदना

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्विपपुंज



## कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चेन्नई, दिनांक 16 जनवरी 2012

सं. 12297 से 78218 तक/560(3)/एफटीई 2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित चेन्नई-6 के कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
1	12297	एस कं नर्सिंग होम प्रैवेट लिमिटेड
2	19930	स्टार टेप लिमिटेड
3	22224	श्रीवास इन्जीनीयर्स प्रैवेट लिमिटेड
4	23566	सदर्ण फौन्डेशन प्रैवेट लिमिटेड
5	25615	मतुरै इन्द्रा चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड
6	26614	ट्रेन्ड पालिपेक प्रैवेट लिमिटेड
7	28122	अस्माक इणवेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
8	28169	सुराना होल्डिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
9	32289	महेन्द्रा शाह सेक्युरिटीस प्रैवेट लिमिटेड
10	34465	जुपिटर निटवेयर्स प्रैवेट लिमिटेड
11	35720	मेन्कार इणवेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
12	37393	एकेके सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
13	37588	रादोड इन्टरनेशनल प्रैवेट लिमिटेड
14	38668	सउत पॉइंट होल्डिंग्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड
15	39445	ए.ए.वी.मिडिया एण्ड सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
16	41435	लुव एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
17	43874	टेलिइण्डिया लिमिटेड
18	47482	अन्दमाण हैलान्ड रिसार्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
19	50650	श्री राम्स मेडिकल प्राजेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
20	52666	अल्फा सोर्स लिग्स प्रैवेट लिमिटेड
21	53252	रिलीश फेन फुड्स प्रैवेट लिमिटेड
22	54020	इवेंटस प्राजेक्ट्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड

23	54223	एक्सीटो मेनेजमेन्ट कणसल्टेन्ट्स लिमिटेड
24	55089	ट्वैसवेयर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
25	56277	अग्रोकाम इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
26	57243	जीफाम् साईमीरा फार्माचुटिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
27	58331	रिवान्स आईटी सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
28	61276	ईस्टपॉइंट सोल्युशन्स लिमिटेड
29	62665	ईमेज होम्स प्रैवेट लिमिटेड
30	63946	सुराना फौंडेशन्स लिमिटेड
31	65352	एसबीएस इन्फ्रा डेवलेप्मेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
32	65791	आर्मन्स आबर्णा मालीगै प्रैवेट लिमिटेड
33	65942	पी.के.एस.केटिंग प्रैवेट लिमिटेड
34	66289	दल्लूरी प्रोपरटीस (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
35	66329	सन्डार्ट् सेरामिक इण्डस्ट्रीस प्रैवेट लिमिटेड
36	66347	फोर डब्ल्यू गार्मन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
37	67292	कोर्नाटी लेनो प्रैवेट लिमिटेड
38	67973	मेययणार फ़िईट सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
39	68417	अस्कान मेनेजमेन्ट कणसल्टेन्सी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
40	69419	ईलिक्सेर प्युरिफियर चेन्नई प्रैवेट लिमिटेड
41	69640	ग्रेस आईटी सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
42	69684	आठोमोटीव कॉम्पोनेन्ट इन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड
43	69943	ऐकान बिसिनेस सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
44	73886	डेव्सन टेक प्रैवेट लिमिटेड
45	74495	अल्फाबेट्स इन्फरमेशन सोल्युशन प्रैवेट लिमिटेड
46	74586	कलुकुमलै प्रोडियुसर कम्पनी लिमिटेड
47	77766	मेट्रोपालिटन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (चेन्नई नम्बर) प्रैवेट लिमिटेड
48	78106	वीग्स एक्सीम प्रैवेट लिमिटेड
49	78218	रेनाल केयरटेक चेन्नई प्रैवेट लिमिटेड

( वी.सी. दवे )  
कम्पनी पंचीयक  
तमिलनाडु,

## कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चेन्नै, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 8793 से 55068 तक/560(3)/स्यो मोटे-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित चेन्नई-6 के कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	8793	नोडुलार कास्टिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
2	8815	ओट्टेरी सास्वता निधि लिमिटेड
3	8823	लीला पब्लिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
4	8828	राम पालिपेक्स प्रैवेट लिमिटेड
5	8836	ट्रेड प्लेज प्रैवेट लिमिटेड
6	8840	अनन्दसयनम् इणवेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
7	8843	मार्स इणवेस्टमेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
8	8874	रेणुका इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीस प्रैवेट लिमिटेड
9	9274	वेंकटगिरी चिट्स प्रैवेट लिमिटेड
10	10176	आदि परासक्ती चिट् फण्ड प्रैवेट लिमिटेड
11	10218	निर्मल सीप्रेइट प्रैवेट लिमिटेड
12	10284	सुस्रा साल्वेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
13	20018	रेड ईगल मरिटैम सरवीसेस (कोच्चिन) प्रैवेट लिमिटेड
14	20028	टेम फैनान्स एण्ड लिसिंग प्रैवेट लिमिटेड
15	35265	अनु क्रेडिट्स प्रैवेट लिमिटेड
16	40059	जे.सी.नेचुरल ग्रीन्स पॉउडर प्रैवेट लिमिटेड
17	40065	होजान इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
18	50302	एक्सोडस एजुकेशनल सरवीसेस & कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
19	50304	कवीत्ता लेदर प्रैवेट लिमिटेड
20	50306	सीजीआई साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
21	50309	आस्ट्रो एन्टरप्राइसेस & एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
22	50310	कॉचना मरैन प्रैवेट लिमिटेड
23	50315	स्टारलैफ़ टूर्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
24	50322	संसार एम्ब्राइडेरिस प्रैवेट लिमिटेड
25	50326	मम्ता अग्रो फाम्स प्रैवेट लिमिटेड
26	50330	रैन इन्फोटेक सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
27	50334	वरुणकुबेरा सेकूर प्रिन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
28	50341	लान्ड मारवेल कणस्ट्रक्शन (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
29	50343	सुचिन्द्रिम् राम चिट् फण्ड प्रैवेट लिमिटेड
30	50353	यूनिक रिलम केयर स्टूडियो प्रैवेट लिमिटेड
31	50354	अल्डान चिट्स & फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड
32	50355	हरिजोन इन्फोलाजिक प्रैवेट लिमिटेड
33	50356	श्री अभिनया साफ्टवेयर सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
34	50357	अल्फा मरीटेक प्रैवेट लिमिटेड
35	50363	लार्जन टिम्बर इम्पोर्टर्स प्रैवेट लिमिटेड
36	50370	वी3 क्रियेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
37	50378	ग्रीन हवर्स गार्डनिंग प्रैवेट लिमिटेड
38	50379	जेम्कान इन्पिलाट्येबिल'स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
39	50399	रेक्कॉन इन्नोवेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
40	50400	डेलपोर्ट प्रासेसिंग प्रैवेट लिमिटेड
41	50402	एनडीसी हैड्रोकार्बन्स प्रैवेट लिमिटेड
42	50403	शामी अप्परेल प्रैवेट लिमिटेड
43	50405	गुड & ग्रेस एक्सिम प्रैवेट लिमिटेड
44	50411	ऐडियल इन्टरनेट कणस्युमर असोसियेटेड नेटवर्क प्रैवेट लिमिटेड
45	50415	मास एक्सप्रिस प्रैवेट लिमिटेड
46	50418	सण बुल्लियन ट्रेडिंग प्रैवेट लिमिटेड
47	50419	शैन रॉक इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
48	50422	नागराज सेक्युरिटी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
49	50424	आर जी एस टेक्नोलाजी (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
50	50425	एम.एम. क्लीनिक प्रैवेट लिमिटेड
51	50426	श्री सक्ती लेदर एक्सपोर्ट्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड
52	50427	मेलकास@आईटीएस प्रैवेट लिमिटेड
53	50435	बालाजी मेटल एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
54	50436	ऐश्वरीया अक्वा प्रैवेट लिमिटेड
55	50437	ई-बेक ऑफिस (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
56	50438	सोमसिला ग्रानैट्स प्रैवेट लिमिटेड
57	50439	निप्पॉन आई टी गेटवे प्रैवेट लिमिटेड
58	50441	एमएनसी लाजिस्टिक्स प्रैवेट लिमिटेड
59	50443	वीएसके मेनेजमेन्ट कणसल्टैन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
60	50444	टैम फ्रेम एन्टरटेन्मेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
61	50448	ताना मान्पॉवर कणसल्टैन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
62	50451	अभिषेक सिस्टेम्स टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
63	50453	प्लाटेस सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
64	50460	केथीस कण्टेनर लैन्स प्रैवेट लिमिटेड
65	50462	जेग्रीन्स आडियो & विडियो विशन प्रैवेट लिमिटेड
66	50463	फौन्डैनहेड इन्टीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रैवेट लिमिटेड
67	50467	आल् इन आईटी प्रैवेट लिमिटेड
68	50470	स्कोयरमैन्ड फुड्स प्रैवेट लिमिटेड
69	50477	वीएसएस इन्टीरियर्स प्रैवेट लिमिटेड
70	50480	रेजीमा इन्फोटेक प्रैवेट लिमिटेड
71	50483	वॉ प्रिन्टींग & पप्लीशिंग विशन प्रैवेट लिमिटेड
72	50486	प्रिमिड नुब्रिकन्ट प्रैवेट लिमिटेड
73	50488	ईसक्की जत्रोफा डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
74	50493	चेन्नई मेट्रोप्लाश सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
75	50496	रॉयल ब्लू डैमन्ड रेस्टोरेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
76	50500	ग्रान्डियर सिस्टेम्स एण्ड सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
77	50504	जैदुर्गा द्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड
78	50506	मेम्बेव टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
79	50511	अफफेन रिसर्च & डेवलेप्मेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
80	50512	स्टाटीजिक साफ्टवेयर रिसर्च & डेवलेप्मेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
81	50513	जिंग इन्फो सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
82	50517	चेन्नई स्मार्ट मेट्रीक्स प्रैवेट लिमिटेड
83	50518	कामदेनु ब्योमास प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
84	50519	इसिस सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
85	50521	माया आठोमेशन प्रैवेट लिमिटेड
86	50522	चोव्ली कॉर्पोरेट सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
87	50532	परा सुपर ट्रेडिंग प्रैवेट लिमिटेड
88	50534	ए.पी.एम. ब्योटेक प्रैवेट लिमिटेड
89	50536	आरएनएस अक्वामिन टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
90	50542	नोवा बेक आफिस सिस्टेम्स एण्ड सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
91	50552	अदवा एक्सिम प्रैवेट लिमिटेड
92	50556	ईकोमाक्स इन्जीनियरिंग सरवीस प्रैवेट लिमिटेड
93	50557	होम्नीसैन्ट इन्फो टेक प्रैवेट लिमिटेड
94	50562	शरवण हालिडे होम्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
95	50570	सुमेरु फुड्स प्रैवेट लिमिटेड
96	50571	गोल्डक्वेस्ट मेयर'स मिन्ट प्रैवेट लिमिटेड
97	50573	स्वेल'ई टेक्नोलाजीस एण्ड सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
98	50574	मारुती ट्रान्समिशन प्रैवेट लिमिटेड
99	50584	अग्नी हेल्थ प्राडेक्ट्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
100	50590	श्री महालक्ष्मी सिन्कोरिनैस्ड मारकेटिंग सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
101	50591	विद्येशवरा अक्वाफाम् प्रैवेट लिमिटेड
102	50592	माप्ले डिवैस प्रैवेट लिमिटेड
103	50599	हुण्डै केयर आईटी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
104	50613	वीक्केयर्स फार्माचुटिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
105	50627	आलयम् मेट्रोमोनियल्स प्रैवेट लिमिटेड
106	50632	चेन्नई टेलनेट इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
107	50634	चाम्पियन स्टेशनरी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
108	50645	इन्डम मुल्टीवेन्चुरेस प्रैवेट लिमिटेड
109	50653	जीवी सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
110	50660	वोल्डवैड द्रावल रिलेटेड सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
111	50663	एन स्टैल टेक्नोलाजी प्रैवेट लिमिटेड
112	50665	डयल ए जाब (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
113	50666	रीडीम्स हेर्बल केयर प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
114	50669	एसआर सेल सिस प्रैवेट लिमिटेड
115	50686	प्रेस्टान एजुकेशन रिसोर्सेस अकादमि प्रैवेट लिमिटेड
116	50687	सन्जीविणी सिद्धा हेर्बल प्राडेक्ट्स लिमिटेड
117	50691	साम्सन मिडिया कम्युकेशन प्रैवेट लिमिटेड
118	50692	केआर काप केयर इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
119	50694	ब्लूलिंग सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
120	50704	लॉबेस टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
121	50705	वेस्टींग ब्रेक लैनिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
122	50709	विल्वा मारकेटिंग सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
123	50712	बद्री मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड
124	50714	डेमिट्रीयस कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
125	50716	सौंदीया सेक्युरिटीस प्रैवेट लिमिटेड
126	50720	डब्ल्युकेओ फेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
127	50722	आईएसएस इन्फो माक प्रैवेट लिमिटेड
128	50723	ईगल इमिग्रेशन सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
129	50725	डेविड एक्सिम प्रैवेट लिमिटेड
130	50729	वनेकर एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
131	50738	बी एफ बी इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
132	50748	हिलिंग सेन्टर इन्नोवेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
133	50754	अल्फा पेट रिसैक्लिंग & प्रासेस्सिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
134	50755	अप्पोलो फेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
135	50757	रैडमास्टर फुड्स & बेवरेजेस प्रैवेट लिमिटेड
136	50765	ईलुसिडा मैन्डवेयर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
137	50775	काफकान्स प्राजेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
138	50781	वल्लीयम्मै परफेक्ट सेक्युरिटी सरवीसेस (चेन्नई) प्रैवेट लिमिटेड
139	50795	ईटरनेल बिल्डर्स चेन्नई प्रैवेट लिमिटेड
140	50801	राग अन्दोनी कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
141	50805	गुड शिप्पेर्ड मिल डैयरी प्रैवेट लिमिटेड
142	50811	माक्सिम ओवरसीज वेंचुरस प्रैवेट लिमिटेड
143	50819	डिजिटल हेल्थ इन्फो सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
144	50829	मेडि बेस्ट हास्पिटल्स प्रैवेट लिमिटेड
145	50831	सरम एक्सपोर्ट्स डैरक्ट मारकेटिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
146	50832	कोस्टल इण्डिया ट्रेडिंग सिस्टेम्स लिमिटेड
147	50845	ऐकान स्टुडियोस प्रैवेट लिमिटेड
148	50853	प्रेम देवी मारकेटिंग सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
149	50859	सोजन असोसियेट्स प्रैवेट लिमिटेड
150	50863	दीक्षा कणसल्टन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
151	50866	वी आर जी सन्स एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
152	50867	ई-केट्स प्रैवेट लिमिटेड
153	50871	मोहित वासन इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
154	50873	सन्स पार्टनर्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
155	50876	सक्सेस फयर सरवीस प्रैवेट लिमिटेड
156	50877	विद्ययाटी हेल्थकेयर प्रैवेट लिमिटेड
157	50879	नैकुल इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
158	50888	शोरपाक फ़ैईट प्रैवेट लिमिटेड
159	50894	बोस्टन है-टेक केबिल नेटवर्क्स प्रैवेट लिमिटेड
160	50897	सेन्दूर मुरुगन फिशरीस प्रैवेट लिमिटेड
161	50901	वीवीएस गोल्ड ज्वल्लेर्स प्रैवेट लिमिटेड
162	50919	हारन्ज मैकोसिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
163	50922	एएसबी एको हेर्बा फाम्स प्रैवेट लिमिटेड
164	50923	नक्षद्रा टेक्निकल सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
165	50928	आरएमआर फुड्स प्रैवेट लिमिटेड
166	50929	सबरी ट्रान्सपोर्ट प्रैवेट लिमिटेड
167	50940	द्रियन इन्फोवे प्रैवेट लिमिटेड
168	50943	उँ गार्डन्स प्रैवेट लिमिटेड
169	50946	हिन्दलान्ड कणसल्टेन्सी प्रैवेट लिमिटेड
170	50948	आरे फियुचेरिस्टीक्स प्रैवेट लिमिटेड
171	50955	लिवर इन्फरमेशन टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
172	50967	अलंकीदा कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
173	50979	ट्राक 1 नेटवोर्क्स प्रैवेट लिमिटेड



क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
174	50983	कम्पन नेटवर्क प्रैवेट लिमिटेड
175	50985	सेल्लीकाम इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
176	50987	अवन्द-गार्डी एन्टेरटैन्मेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
177	50989	ग्रायुरी डाट्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
178	50991	विन्सड प्रैवेट लिमिटेड
179	50993	देवी क्रिपा लाजीस्टिक्स प्रैवेट लिमिटेड
180	51137	प्रेम कनेक्ट प्रैवेट लिमिटेड
181	51158	एन.जी. किड्स एजुकेशन प्रैवेट लिमिटेड
182	51170	श्री नागास फौन्डेशन प्रैवेट लिमिटेड
183	51172	श्री वेंकटेश्वरा प्राजेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
184	51174	फस्ट सिटी सेक्युरिटी सर्विसेस (चेन्नई) प्रैवेट लिमिटेड
185	51183	हेरिटेज सेड कोट्स प्रैवेट लिमिटेड
186	51184	मलुराम एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
187	51202	प्राक्सिस इन्फोटक प्रैवेट लिमिटेड
188	51203	सूर्या स्कैलिंग सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
189	51208	श्री जेय कृष्णा हास्पिटल्स प्रैवेट लिमिटेड
190	51233	वासन मेडिकल सेन्टर (तन्जावूर) प्रैवेट लिमिटेड
191	51245	प्रोम्तीयस इन्टीट्युट आफ़ मेनेजमेंट प्रैवेट लिमिटेड
192	51256	बी ए बी एजुकेशनल सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
193	51266	आयिशा टूर्स & ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड
194	51267	प्रीयया ग्रीन्स प्रैवेट लिमिटेड
195	51268	के.ए.के. बिल्डर्स प्रैवेट लिमिटेड
196	51278	कडियन्सिस (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
197	51281	एएए इन्सुरन्स ब्रोकिंग प्रैवेट लिमिटेड
198	51288	श्री मूकाम्बिगै मिडिया प्रैवेट लिमिटेड
199	51292	रैट चायिस फुड्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
200	51293	रेब मेक इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
201	51296	लास्टेल फैनान्शियल सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
202	51303	स्वराखा एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
203	51309	फेन्ट्स मेडिकेयर प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
204	51310	वसन्ता पेपर्स प्रैवेट लिमिटेड
205	51313	मतुरै एक्सपोर्ट्स अप्पेरल पार्क प्रैवेट लिमिटेड
206	51314	एरोबेस्टवे एयर ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड
207	51317	जेय सुबम् चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड
208	51321	मेक्रे इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
209	51330	क्युर्फ़ मेटल्स & एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
210	51336	सिन्क्रो टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
211	51337	युनिक कास्मेटिक्स प्रैवेट लिमिटेड
212	51343	टेकटीम एशिया पसिफिक प्रैवेट लिमिटेड
213	51345	एलबी पेद्रोकेम प्रैवेट लिमिटेड
214	51347	सास अलैड बियरिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
215	51349	चेल्लम होम्स प्रैवेट लिमिटेड
216	51353	बिक डील टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
217	51359	बालाजी होम मार्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
218	51360	स्ट्रोजेर प्रोडक्ट्स सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
219	51364	अरोमीरा एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड
220	51368	एबी इनीट्यो फार्माकोडैनमिक्स प्रैवेट लिमिटेड
221	51373	कुरिची ट्रेडिंग एजेन्सी प्रैवेट लिमिटेड
222	51378	पिसिकामोर सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
223	51380	मेनांग प्रिया विल्डर्स लिमिटेड
224	51382	जैमोड सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
225	51383	एन.जे.एम. टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
226	51391	चॉम्पियन अग्रो एक्सपोर्ट्स चेन्नई प्रैवेट लिमिटेड
227	51392	कारनेशवर इन्फोटक प्रैवेट लिमिटेड
228	51393	सन्शैन सिन्टीटिक्स प्रैवेट लिमिटेड
229	51394	ज्योती राजा टेक्सटाइल्स प्रैवेट लिमिटेड
230	51402	मेहर एण्ड मेहर इम्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
231	51407	अफरी ग्लोबल.नेट प्रैवेट लिमिटेड
232	51410	रोडम ट्रेडर्स प्रैवेट लिमिटेड
233	51414	डिस्को सुपर टूल्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
234	51418	शारोन एक्सिम प्रैवेट लिमिटेड
235	51422	पी एल डी क्वारिस प्रैवेट लिमिटेड
236	51425	परन्जोती विन्ड पॉवर प्रैवेट लिमिटेड
237	51433	जी.एस.सी. सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
238	51441	पोन्नोली सेक्युरिटी सर्वीस प्रैवेट लिमिटेड
239	51458	तिरुच्ची नेटजोन प्रैवेट लिमिटेड
240	51460	क्लैन्डसाल्व टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
241	51461	जेग्रीन्स हैटेक अक्वाटीक & अग्रीकल्चुरल फार्म्स प्रैवेट लिमिटेड
242	51468	इन्वेटीरेट सॉफ्टवेयर सर्वीसेस प्रैवेट लिमिटेड
243	51469	माल्कम टेली ईक्युप्मेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
244	51474	प्रेम पैरोटेक्नीक्स प्रैवेट लिमिटेड
245	51476	है पाईट सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
246	51479	अलगप्पा इन्टीट्युट आफ टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
247	51481	पान्डवा लेदर्स प्रैवेट लिमिटेड
248	51484	श्री रम्या फुड्स प्रैवेट लिमिटेड
249	51489	सक्ती ब्राडकास्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
250	51491	चेन्नई रेपेल्लेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
251	51495	स्कैलैन फारमुलेशनस प्रैवेट लिमिटेड
252	51498	टारक्हुब लाब प्रैवेट लिमिटेड
253	51503	असोसियेट कोरियरप्रैवेट लिमिटेड
254	51506	अंजब्बर चेट्टीनाड रेस्टारेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
255	51507	राजपालयम् स्ट्रक्चुरल कणस्ट्रक्शन प्रैवेट लिमिटेड
256	51508	मैसोनिक मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड
257	51515	शान्तस युनिकेयर प्रैवेट लिमिटेड
258	51516	एसएसबी लेदर्स प्रैवेट लिमिटेड
259	51518	श्रीवील्वम् इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
260	51519	कियेटीव क्यील्स प्रैवेट लिमिटेड
261	51523	मोबी नेटकम्युनिकेशनस प्रैवेट लिमिटेड
262	51524	कुवान्टा कोक्नीटो टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
263	51530	सिब्लेक्स टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
264	51543	क्रिस्टल फौन्डेशन प्रैवेट लिमिटेड
265	51545	नोबिल अम्बत्तूर फेब्रीकेटर्स प्रैवेट लिमिटेड
266	51546	अल् केम प्राजेक्ट प्रैवेट लिमिटेड
267	51547	अण्णामलै अग्री केयर प्रैवेट लिमिटेड
268	51548	इन्टरनेशनल फैनान्शियल ब्रोकरेज कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
269	51551	हैफै सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
270	51559	स्मार्ट प्लेस पॉवर प्लान्ट इन्जीनियर्स प्रैवेट लिमिटेड
271	51561	सेन्दूर कणस्त्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
272	51569	फेबमेक्स सेमिकण्डेक्टर रिसर्च लाब प्रैवेट लिमिटेड
273	51575	जाक मिडिया सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
274	51579	चेन्नई होम्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
275	51581	आल्विन आईटी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
276	51582	सीम्स टेक इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
277	51584	एसएससी पेट्रोलियम् प्रैवेट लिमिटेड
278	51589	के.पी.जे. क्रियेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
279	51592	रियल इण्डिया कोरियर लिमिटेड
280	51598	अन्टीयोच अक्वा फाम्स प्रैवेट लिमिटेड
281	51601	रॉयल मोबैल्स प्रैवेट लिमिटेड
282	51603	टीसीपीजी रेस्टारेन्ड इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
283	51607	फिलिक्स मेड्स प्रैवेट लिमिटेड
284	51611	कार्मिक हेल्थकेयर रिसोर्सस डेवलपमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
285	51615	इन्टरब्लाक्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
286	51621	सर्वल हेक्साजेन्स प्रैवेट लिमिटेड
287	51627	एजीआर वॉल सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
288	51629	वीबा कणसल्टन्सी प्रैवेट लिमिटेड
289	51633	डिजीटेक आल्फा प्रैवेट लिमिटेड
290	51636	रामदुरै चिट्स प्रैवेट लिमिटेड
291	51641	विघ्नेश टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
292	51642	सीकम्स.काम प्रैवेट लिमिटेड
293	51643	कारमेन अक्वास्टिक्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
294	51650	प्रोवेस कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
295	51651	एसएस ब्यो डेनमिक अग्रोटैक प्रैवेट लिमिटेड
296	51664	वेन्चुर ग्लोबल इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
297	51666	शाहन हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
298	51669	गैडेल एजुकेशन प्रैवेट लिमिटेड
299	51686	साय काम्बेक्स टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
300	51690	पल्लावरम् टान्नेर्स एन्वीरॉन्मेन्ट प्रोटेक्शन कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
301	51692	समूहा टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
302	51709	स्ट्राटीजिक कपिटल वेन्चर्स लिमिटेड
303	51718	तिन्क डेवलपमेन्ट सिस्टेम्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
304	51720	पिच्चमिन ग्रानैट्स प्रैवेट लिमिटेड
305	51721	एएनबी जेनिसिस अकादमि प्रैवेट लिमिटेड
306	51723	एनर्जी क्यूर होम प्रैवेट लिमिटेड
307	51734	क्रियेटीव फेयर टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
308	51739	सालमोन एक्सिम एण्ड सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
309	51747	राटी गोड् फार्मिंग प्रैवेट लिमिटेड
310	51750	स्टारसिटी प्रोपरटीस प्रैवेट लिमिटेड
311	51753	अण्णपूरनी होटल (चेन्नई) प्रैवेट लिमिटेड
312	51754	माजी कार्गो प्रैवेट लिमिटेड
313	51758	येशुवा केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
314	51762	सिन्चोरोनैस्ड सिस्टम सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
315	51767	मीडास मल्टीमिडिया प्रैवेट लिमिटेड
316	51770	साक्स सोलार सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
317	51771	एको-अडवान्टेजत्र इन्जीनियरिंग इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
318	51773	एम्पयर आईल कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
319	51774	फेमिना हट्चेरिस प्रैवेट लिमिटेड
320	51775	श्री असोसियेट्स प्रैवेट लिमिटेड
321	51777	केजी कुसिन्स & बिवरीजेस प्रैवेट लिमिटेड
322	51779	हाक्स कणफेक्शनरी इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
323	51780	राज्यलक्ष्मी एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
324	51785	मोलिकुलर तेरापीटिक्स प्रैवेट लिमिटेड
325	51786	दनव्रीद्धी कणसल्टन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
326	51787	परफेक्ट कान्द्राक्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्रैवेट लिमिटेड
327	51789	प्रोजेन्ट टेक्नोलाजी सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
328	51790	आ.एस.रिसर्च एण्ड मेडिकल सेन्टर प्रैवेट लिमिटेड
329	51797	श्री श्यामला फुड्स प्रैवेट लिमिटेड
330	51798	एसएमजे कार्पेट्स प्रैवेट लिमिटेड
331	51799	करन टी प्रैवेट लिमिटेड
332	51806	युनि टेस्टमाक सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
333	51807	एस एन इन्फो सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
334	51808	ब्रिटीश एजुकेशनल अडवैसरी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
335	51816	श्रीअम्मन कणस्ट्रक्शन प्रैवेट लिमिटेड
336	51818	वी.वी.बुड डिजेन्स प्रैवेट लिमिटेड
337	51821	श्री अरवीन्दा अण्णै फौन्डेशनस प्रैवेट लिमिटेड
338	51825	चेन्नई टैटानियम वोर्क्स प्रैवेट लिमिटेड
339	51826	कासिपलणी लान्ड इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
340	51828	लाप्सी पानेल्स प्रैवेट लिमिटेड
341	51830	जी ट्रेड कणसेल्ट प्रैवेट लिमिटेड
342	51836	यासेर बिन नज़र एक्सिम प्रैवेट लिमिटेड
343	51839	सीमाउट शेल्टर्स प्रैवेट लिमिटेड
344	51848	वैकटरमणा कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
345	51849	मारुती लिंगसिस प्रैवेट लिमिटेड
346	51853	अलियन्स ट्राक्टर्स प्रैवेट लिमिटेड
347	51855	अलमेलु मंगा डक्स & केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
348	51859	गोल्ड हौस इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
349	51861	स्माल्वाल्स मिडिया प्रैवेट लिमिटेड
350	51862	युटैल अडवैसरी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
351	51870	एच.पी.एम.एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
352	51873	श्री सत्या साय शिपिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
353	51880	माडन टूर्स & ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
354	51881	कैबर सिस्टेम्स एण्ड साफ्टवेयर टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
355	51882	जेयम ब्यो मनुरेस प्राइवेट लिमिटेड
356	51884	ब्रिड्ज सन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
357	51885	आप्ट फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
358	51900	नाम्यंग टूर्स प्राइवेट लिमिटेड
359	51905	मूनलैट पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
360	51906	पेस पम्प्स एण्ड स्पेर्स प्राइवेट लिमिटेड
361	51909	बिटाप्लेस कणसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
362	51910	मित्रजेया डेवलेप्मेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
363	51914	छिम्ज क्लीन्टेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
364	51915	आरे इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
365	51917	अरोक्या आइल्स लिमिटेड
366	51921	टैची पालिमेर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
367	51925	युनिपर कूल टेक प्राइवेट लिमिटेड
368	51926	पेंगुइन मेजिक & कल्चुरल प्राइवेट लिमिटेड
369	51928	सक्ती कम्प्युटर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
370	51934	मेको आठोमेशन सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
371	51935	अल्टीयस अणिमेशन प्राइवेट लिमिटेड
372	51949	उँ-एक्स प्रोब्योटीक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
373	51953	गान्दर्वा रेखार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
374	51960	विनस इन्फ्रास्टेक्चर्स & प्राजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
375	51963	रेजीना इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
376	51964	हरशिनी साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
377	51974	कुमारी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
378	51981	पीएम कैप्टो केयर प्राइवेट लिमिटेड
379	51983	एसबी अड विंग्स प्राइवेट लिमिटेड
380	51991	युदयकृष्णा पौल्ट्री फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
381	51992	डीजेएस कणसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
382	51995	रामनयकी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
383	52261	मार्क एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
384	52262	एएमए चिट्स प्रैवेट लिमिटेड
385	52263	सी मारकेट इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
386	52275	अयिशा कम्युनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
387	52276	वेंकटेशवरा मरैन जेल् प्रैवेट लिमिटेड
388	52281	प्रो ग्रीन प्राडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
389	52282	एम स्टुडियो प्रैवेट लिमिटेड
390	52286	चेन्नई कम्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
391	52287	रिया लेर्निंग बस प्रैवेट लिमिटेड
392	52292	ए.वी.एम.पालिमर्स प्रैवेट लिमिटेड
393	52295	श्री अण्णमाच्चारिया अरुणसुवै उनवगम् (चेन्नई) प्रैवेट लिमिटेड
394	52296	कल्वास किङ लेदर प्रैवेट लिमिटेड
395	52310	जी.आर.बी. एक्सिम प्रैवेट लिमिटेड
396	52313	शेन्बग विनायका बिल्डर्स प्रैवेट लिमिटेड
397	52315	नेचर ब्यो—सी मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड
398	52316	मान्टब्लाक मेनेजमेन्ट अडवैसरी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
399	52321	सन्ग्रोव ट्रेडिंग प्रैवेट लिमिटेड
400	52325	पार्षिया ट्रेडर्स प्रैवेट लिमिटेड
401	52326	अनागर एक्सिम प्रैवेट लिमिटेड
402	52334	एन ब्लाक सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
403	52335	अकाडेक्स अप्पेरल्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
404	52337	होके नेटवर्क मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड
405	52345	स्वकोटएम टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड
406	52356	एम एक्सेल टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
407	52364	ग्रीन गलेक्सी इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
408	52369	डी.जी. एन्टरटेन्मेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
409	52370	परीपूर्णा अर्पनम् सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
410	52371	फेक्स इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
411	52372	औशद फेब्रीकेटर्स प्रैवेट लिमिटेड
412	52373	रेना सान्स एक्सिम ट्रेडर्स प्रैवेट लिमिटेड
413	52374	औरा बिज़ मैन्ड्स प्रैवेट लिमिटेड



क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
414	52375	नादिनी रेडहिल्स प्रैवेट लिमिटेड
415	52376	स्मार्ट इन्फोटेक सोल्युशन्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
416	52383	दक्षिण चित्रा प्रिन्टींग & पब्लिशिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
417	52388	जटका-ओन सोल्युशन प्रैवेट लिमिटेड
418	52392	जपोनिका मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड
419	52395	के.पी.करपगम टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड
420	52398	असोसियेटेड हैपर फुड्स प्रैवेट लिमिटेड
421	52400	मैनेनि टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
422	52401	अक्रो अग्रो कमोडिटीस प्रैवेट लिमिटेड
423	52407	बेस्ट ब्यो हारगनिक्स प्रैवेट लिमिटेड
424	52410	यु प्रनव कणसल्टन्सी प्रैवेट लिमिटेड
425	52416	सीयिरा नेटवर्क्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
426	52417	सीयिरा इन्टरनेशनल प्रैवेट लिमिटेड
427	52420	बवी ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड
428	52432	स्वर्णा होम्स प्रैवेट लिमिटेड
429	52435	सार्क इन्जीनियरिंग स्पेशलिटीस प्रैवेट लिमिटेड
430	52439	हाप्टस टेलीकम्युनिकेशन प्रैवेट लिमिटेड
431	52440	होगिरी मान्पावर कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
432	52442	हार्बिट् पेद्रो कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
433	52447	न्यू-लिंग ट्रेड रिसोर्ससेस प्रैवेट लिमिटेड
434	52454	ग्रीन्लैफ रियल्टी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
435	52457	रैट् लेदर कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
436	52459	स्फूर्ती फुड्स प्रैवेट लिमिटेड
437	52460	स्प्रिंट एन्टरटेन्मेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
438	52462	अक्सेन्ट इन्फोसाफ्ट प्रैवेट लिमिटेड
439	52466	सेमून सेक्युरिटी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
440	52475	अर्काडीया असोसियेट्स प्रैवेट लिमिटेड
441	52478	शाह पेरप्युम्स प्रैवेट लिमिटेड
442	52481	वेल्लिक्स लीड.इन.वैयर प्रैवेट लिमिटेड
443	52485	विब्रो टेक्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
444	52491	नजारीया नोव्लेज सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
445	52492	बैरवण सेक्युरिटीस एण्ड मान्पावर प्रैवेट लिमिटेड
446	52497	इन्फी डेमेस स्टुडियोस प्रैवेट लिमिटेड
447	52501	एक्सोटीक होम्स प्रैवेट लिमिटेड
448	52502	जीफफी मेनेजमेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
449	52526	अण्णै ब्यो-कॉर्प प्रैवेट लिमिटेड
450	52531	मद्रास आर्टलाब प्रैवेट लिमिटेड
451	52538	भ्रमास कणसल्टन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
452	52539	सक्ती रॉयल एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
453	52543	येस वोल्ड वैड कणसल्टन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
454	52546	पारचेर ट्रेडिंग पाईट प्रैवेट लिमिटेड
455	52549	तिरुवारूर फार्मा रेमिडीस प्रैवेट लिमिटेड
456	52550	युदैयम् कणसल्टन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
457	52551	एक्सक्यूसैट हेल्थ केयर प्रैवेट लिमिटेड
458	52564	ट्रान्स-टेल इन्फो सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
459	52571	अल्सस्ट्रट् इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
460	52581	शक्ती लाजिस्टिक्स प्रैवेट लिमिटेड
461	52582	वी इन्फरमेशन टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
462	52584	चेन्नई रिलयबिल एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
463	52586	श्री विघ्नेश एयर ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड
464	52587	डेकनेक्ट इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
465	52600	अवोन हाक्सिजेन प्रैवेट लिमिटेड
466	52602	तिरुपूर श्री महागनपती अप्पेरल्स प्रैवेट लिमिटेड
467	52603	अवेंचुर ब्यो-केम प्रैवेट लिमिटेड
468	52605	इन्सेम्बली लाजिस्टिक्स सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
469	52607	अय्डीस फेन केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
470	52611	विन स्टार शिपिंग एजेन्सीस प्रैवेट लिमिटेड
471	52623	मल्टीपिल् रेकूटिंग एजेन्सी प्रैवेट लिमिटेड
472	52627	युदयम् सुभमंगला कल्याण मंडबम् प्रैवेट लिमिटेड
473	52630	केएमएसएन सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
474	52635	ग्रीन मर्सेट कणस्त्रक्शन्स प्रैवेट लिमिडेड
475	52636	बैनरी ई पेजींग प्रैवेट लिमिडेड
476	52649	मुजीब बिल्डर प्रैवेट लिमिडेड
477	52652	तिरुमला लेदर्स प्रैवेट लिमिडेड
478	52654	मुदलवण एस्टेट्स प्रैवेट लिमिडेड
479	52655	इन्द्रप्रियास कम्युनिकेशन्स प्रैवेट लिमिडेड
480	52658	एस्टीम होशन लैनर्स प्रैवेट लिमिडेड
481	52662	क्रांस बौडरी साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिडेड
482	52665	त्रीका फुड्स प्रैवेट लिमिडेड
483	52671	सिन्दु बालाजी प्लान्टेशन प्रैवेट लिमिडेड
484	52677	श्रेयास सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिडेड
485	52681	पेरटमा इणवेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिडेड
486	52682	दीनेद्रा सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिडेड
487	52686	एमडीआर ट्रेडिंग प्रैवेट लिमिडेड
488	52687	फलेम इम्पेक्स प्रैवेट लिमिडेड
489	52692	आई सोल्युशन्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिडेड
490	52698	युनीकॉन टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिडेड
491	52703	फ्रीक्फी लूब्स प्रैवेट लिमिडेड
492	52708	हारिसन्स ब्योटेक प्रैवेट लिमिडेड
493	52727	मा-रोल्लर मसाज एण्ड मेडिटेशनल टूल्स प्रैवेट लिमिडेड
494	52733	एम.ए.के. कम्बैस प्रैवेट लिमिडेड
495	52743	सदर्ण पीक कनेक्शन्स प्रैवेट लिमिडेड
496	52750	पीजल्स अक्वा प्रैवेट लिमिडेड
497	52756	अरवींद रियल एस्टेट प्रैवेट लिमिडेड
498	52757	संवीन टेक्नोलाजी प्रैवेट लिमिडेड
499	52758	एस & पी वेंचुर्स प्रैवेट लिमिडेड
500	52760	कोजेन्ट कणसल्टेन्सी सर्वीसेस प्रैवेट लिमिडेड
501	52763	लीन हिन ली-मल्टीकणस्त्रक्शन रिसोर्सस (इण्डिया) प्रैवेट लिमिडेड
502	52766	गल्फ पेद्रोकेम प्रैवेट लिमिडेड
503	52767	बौटीफुल इम्पेक्स प्रैवेट लिमिडेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
504	52772	ट्रैस्टार फारवर्डर्स प्रैवेट लिमिटेड
505	52773	ऐकान एनर्जी प्रैवेट लिमिटेड
506	52775	टीजारा कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
507	52778	सन होटल्स प्रैवेट लिमिटेड
508	52781	एफएक्स एड्ज प्रैवेट लिमिटेड
509	52783	अडवान्सडु कम्युनिकेशन लेनिंग सेन्टर प्रैवेट लिमिटेड
510	52786	चॉयिस फोरेक्स प्रैवेट लिमिटेड
511	55054	आनंदकार्तिक एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड
512	55056	कोरकै टर्मिनल्स प्रैवेट लिमिटेड
513	55059	सन्केरस फुड्स प्रैवेट लिमिटेड
514	55060	न्यू विशन मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड
515	55062	कनेक्ट मलेसिया इण्डिया प्राजेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
516	55065	होमप्लस प्रोमोटर्स प्रैवेट लिमिटेड
517	55066	न्योहाब्जेक्ट टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
518	55068	सिज्जो टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड

के. लता परिमलवदना  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

## कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चेन्नै, दिनांक 25 जनवरी 2012

सं. 09426 से 58162 तक/560(5)/स्यो मोटो-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
1	9426	इण्डो फुड एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
2	9437	वीटीआर प्रोडेक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
3	9438	वीदज रूफिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
4	9441	नबिल एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
5	9445	मॉर्डण प्रिंट प्रैवेट लिमिटेड
6	9461	वेंकटेशवरा हैस्क्रीम् प्रैवेट लिमिटेड
7	9482	चालियेंज स्पिन्निंग मिल्स प्रैवेट लिमिटेड
8	9496	रॉव & रॉव बोट्लर्स प्रैवेट लिमिटेड
9	9502	अशा मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड
10	9526	निरोध रबर्स प्रैवेट लिमिटेड
11	9532	कैसेर इलेक्ट्रानिक्स प्रैवेट लिमिटेड
12	9536	है-टेक सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
13	9537	अप्सरा प्रिंटर्स प्रैवेट लिमिटेड
14	9541	मिन्नॉह (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
15	9544	स्वस्टीक हैयर परचेस प्रैवेट लिमिटेड
16	9548	ताकूर एक्सीको प्रैवेट लिमिटेड
17	9557	अलैड फोटो कम्पोसेर्स प्रैवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
18	9562	रादावण कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
19	9583	जंचोक प्रैवेट लिमिटेड
20	9587	मेडालियन पेक्केजिंग प्रैवेट लिमिटेड
21	9589	सुनी केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
22	9593	तॉय सेक्युरिटी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
23	9595	जून (इण्डिया) ट्रेडिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
24	9604	होरे फार्माचुटिकल्स को प्रैवेट लिमिटेड
25	9623	हारकेयस मिनरल्स इण्डस्ट्रीस एण्ड एक्सपोर्टर्स प्रैवेट लिमिटेड
26	9647	स्टील्स फाइल्स प्रैवेट लिमिटेड
27	9660	अंसन क्रियेटिव ग्राफिक्स प्रैवेट लिमिटेड
28	9672	अपूर्ण एफ बी & आई प्राडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
29	9690	शाह 'एन' शाह प्रैवेट लिमिटेड
30	9725	सक्ती गियर्स प्रैवेट लिमिटेड
31	9730	सन्द्वाको मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड
32	9754	ट्रैकॉड कणस्ट्रींग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
33	9760	सदर्ण मेनेजमेन्ट सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
34	9770	एन्टरप्राइसिंग सेक्युरिटी एण्ड इणवेस्टीकेशन सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
35	9771	श्री रामकाप्सुल्स प्रैवेट लिमिटेड
36	9785	एक्सेल प्रस्सींग प्रैवेट लिमिटेड
37	9789	जै निव्दिया प्रैवेट लिमिटेड
38	9804	नोमिस इन्जीनियरिंग को प्रैवेट लिमिटेड
39	9822	सउत इण्डिया रिकॉडिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
40	9874	पुक्कॉन स्केनर्स प्रैवेट लिमिटेड
41	9876	पालार इलेक्ट्रीक कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
42	9877	प्रिलाक इलेक्ट्रानिक्स प्रैवेट लिमिटेड
43	9897	पेरिन्बम् फाम्स प्रैवेट लिमिटेड
44	9913	ईस्ट वेस्ट कम्प्युटर इन्टीट्युट प्रैवेट लिमिटेड
45	9928	सेन्दिल कुमार ट्रान्सपोर्ट प्रैवेट लिमिटेड
46	9943	जम्बु बाल वनस्पती एण्ड वीट फ़लोर मिल्स प्रैवेट लिमिटेड
47	9957	अशिश असोसियेट् प्रैवेट लिमिटेड
48	9960	विशाल तियेटर्स प्रैवेट लिमिटेड
49	9967	अल्डम इन्ट्रूमेन्टेशन प्रैवेट लिमिटेड
50	9985	युनिवेर्स हौस्वेयर्स प्रैवेट लिमिटेड
51	9998	देनुपुरी इन्जीनियरिंग एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
52	10009	मद्रास टेन्नीरिस प्रैवेट लिमिटेड
53	10013	ग्लोब एम्प्लायमेन्ट कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
54	10014	शान्ती विहार होटल (सिंगपूर) प्रैवेट लिमिटेड
55	10018	रॉक्पोर्ट डेटा प्रिंट्स प्रैवेट लिमिटेड
56	10024	पालार केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
57	10026	सक्ती डेकेम इण्डस्ट्रीस प्रैवेट लिमिटेड
58	10028	अस्ट्रान कम्प्युटर मेनेजमेन्ट एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
59	10037	तुलिप अब्रासिक्स प्रैवेट लिमिटेड
60	10045	मार्स टेक्सटैल्स प्रैवेट लिमिटेड
61	10057	सबरी कार्टन प्रैवेट लिमिटेड
62	10083	सुदीर इन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड
63	10091	श्रीविसालक्षी फिल्मस प्रैवेट लिमिटेड
64	10096	तिरुच्ची श्री वसवी इणवेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
65	10107	एन्डो एनर्जी फुड्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
66	10134	पैको आर्ट (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
67	10169	वेल्कम बिस्कुट्स प्रैवेट लिमिटेड
68	10175	बास्सम एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
69	10205	सदर्ण टालिस्मेन प्रैवेट लिमिटेड
70	10216	एक्सीबिशन कणस्ट्रक्शन स्पेशलिटीस प्रैवेट लिमिटेड
71	10227	पेलिकान स्टेशनरी प्राडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
72	10269	एन्जल पेरफियुमेस (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
73	10302	सीपीयु कणसल्टन्सी सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
74	10340	सुदेव पेक प्रैवेट लिमिटेड
75	10359	अड्रैट् इन्जीनियरिंग प्राडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
76	58162	आरएन सुप्लीमेशन कोटिंग्स प्रैवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु



## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 8th December 2011

No. A-19011/05/2011-Admn. I—The President is pleased to appoint Ms. Manju Kumar, IPoS (89), as Joint Secretary (Director Level) in the Union Public Service Commission in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay Rs. 8,700/- on Central Deputation for a period of five years w.e.f. the forenoon of 18th November, 2011 or until further orders, whichever is earlier.

S. B. SAROHA  
Jt. Secy. (AGV)

New Delhi-110069, the 30th November 2011

No. A-38013/10/2011-Admn. III—Consequent upon attaining the age of superannuation, Smt. Chander Kanta Nagpal, Section Officer of the CSS Cadre of Union Public Service Commission stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of the 30th November, 2011.

NEERAJ SACHDEVA  
Under Secy. (Adm.)

No. A-38013/9/2011-Admn. III—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. Pawan Kumar Malhotra, Section Officer of the CSS Cadre of Union Public Service Commission stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of the 30th November, 2011.

NEERAJ SACHDEVA  
Under Secy. (Adm.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110003, the 13th January 2012

No. O-II-6716/2012-Pers (DA-5)—Consequent on his selection for the post of Security Officer (E-II) in Society for Integrated Circuit Technology and Applied Research (A Govt. of India Society), Bangalore and acceptance of technical resignation from service, Shri Harsh Wardhan, Asstt. Commandant (IRLA-6716) of 190 Bn, CRPF relinquished the charge of his post on the afternoon of 31.12.2011. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 31.12.2011 (AN).

R. R. DUTTA  
DIG (Pers)

The 16th January 2012

No. P.VII-1/2012-Min.—Consequent on their promotion to the post of Assistant Commandant (Ministerial), the following Subedar Major (Ministerial) have taken over charge as Assistant Commandant (Ministerial) in the Offices and on the dates as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Office in which Posted	Date of taking over charge
1.	Shri Charan Singh, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8735)	O/o IGP, Central Reserve Police Force, Srinagar.	14.11.2011 (F.N.)
2.	Shri Yashpaul, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8696)	O/o DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Allahabad.	08.11.2011 (F.N.)
3.	Shri Debabrata Ghosh, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8685)	O/o IGP, Eastern Sector, Central Reserve Police Force, Kolkata.	04.11.2011 (F.N.)
4.	Shri Madho Ram Arya, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8690)	O/o DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Rampur.	11.11.2011 (F.N.)
5.	Shri Om Prakash, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8718)	O/o DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Bantalab.	31.10.2011 (F.N.)
6.	Shri Rajendera Prasad, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8752)	O/o IGP, Tripura Sector, Central Reserve Police Force, Agartala.	14.10.2011 (F.N.)
7.	Shri Ashokan T. N., Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8777)	O/o DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Gandhinagar.	08.11.2011 (F.N.)
8.	Shri R. Subramani, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8769)	O/o DIGP, Central Reserve Police Force, Gandhinagar.	14.11.2011 (F.N.)
9.	Shri P. Prabhakar Rao, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8759)	O/o IGP/Medical Superintendent, Composite Hospital, Central Reserve Police Force, Hyderabad.	19.10.2011 (F.N.)

R. R. DUTTA  
DIGP (Organisation)

New Delhi-110003, the 24th January 2012

No. O.II.3898/11-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Suman Kumar Kanduri as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the forenoon of 29.12.2011 till further orders.

R. N. MISRA  
DIGP (Pers)

No. A- VI.1/2011-Pers (AC)—The President is pleased to appoint the following candidates as Assistant Commandants in Central Reserve Police Force in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity until further orders against the overall strength of Central Reserve Police Force :—

Sl. No.	Roll No.	Name	Date of Reporting
1	2	3	4
		S/Shri/Smt.	
1.	031085	Venubabu Sunnapu	08.10.2011 (A.N.)
2.	092782	Amit Sankholia	09.10.2011 (A.N.)
3.	088999	Girish Kumar	10.10.2011 (A.N.)
4.	014879	Ashutosh Singh Nikumbh	10.10.2011 (A.N.)
5.	014414	Anil Kumar Sharma	10.10.2011 (A.N.)
6.	051155	Gitanshu Mehta	10.10.2011 (A.N.)
7.	028361	Krishna Kumar Dubey	10.10.2011 (A.N.)
8.	107611	Gulshan Sharma	10.10.2011 (F.N.)
9.	006091	S. Vishwanath	10.10.2011 (F.N.)
10.	035377	Azad Ahmad Hajam	10.10.2011 (F.N.)
11.	050343	Dheeraj Ojha	11.10.2011 (A.N.)
12.	021729	Kshetrimaya Binod Kr. Singh	11.10.2011 (A.N.)
13.	063611	Yogesh Kumar	11.10.2011 (A.N.)
14.	076037	Ravindra Singh Dangi	11.10.2011 (F.N.)
15.	093571	Pradeep Saini	11.10.2011 (F.N.)
16.	036500	Nishant Sood	11.10.2011 (F.N.)
17.	013569	Sunil Verma	11.10.2011 (F.N.)
18.	055694	Surender Singh	11.10.2011 (F.N.)
19.	002098	Sagar Pratap Kaushik	11.10.2011 (A.N.)
20.	001954	Anil Thakur	11.10.2011 (A.N.)

1	2	3	4
		S/Shri/Smt.	
21.	000445	Deepak Ojha	11.10.2011 (A.N.)
22.	044042	Anurag	11.10.2011 (A.N.)
23.	051924	Praveenpatil G. C.	11.10.2011 (A.N.)
24.	035604	Raushan Kumar Jha	11.10.2011 (A.N.)
25.	047434	Amit Sharma	11.10.2011 (A.N.)
26.	074652	Mahesh Kumar	11.10.2011 (A.N.)
27.	033941	Tensubam Bijeta Devi	11.10.2011 (A.N.)
28.	013964	Shakti Prakash	11.10.2011 (A.N.)
29.	074468	Prashant Singh Yadav	11.10.2011 (A.N.)
30.	067955	Rohit Singh Patel	11.10.2011 (A.N.)
31.	019538	Amit Kumar	11.10.2011 (A.N.)
32.	067919	Mukesh Kumar Tiwari	11.10.2011 (A.N.)
33.	048123	Manoj Kumar	11.10.2011 (A.N.)
34.	051438	Bhaskar Anand	11.10.2011 (A.N.)
35.	038784	Satyendra Singh Yadav	11.10.2011 (A.N.)
36.	021804	Ankit Priyadarshi	11.10.2011 (A.N.)
37.	054530	Jyoti Prakash Sharma	11.10.2011 (A.N.)
38.	048329	Thokchom Umakanta Meetei	11.10.2011 (A.N.)
39.	088855	Kuldeep Singh Chaudhary	11.10.2011 (A.N.)
40.	063837	Bechan Yadav	11.10.2011 (A.N.)
41.	014231	Manish Mishra	11.10.2011 (F.N.)
42.	079023	Dinesh Kumar Yadav	11.10.2011 (F.N.)
43.	068647	Lokesh Rana	11.10.2011 (A.N.)
44.	099603	Kailash Singh	11.10.2011 (A.N.)
45.	097262	Birendra Kumar Satyarthi	11.10.2011 (A.N.)
46.	023654	Bhartendra Singh	12.10.2011 (A.N.)
47.	026876	Avinash Tripathi	12.10.2011 (A.N.)
48.	027356	Narendra Singh	12.10.2011 (A.N.)
49.	041536	Adarsh Singh	12.10.2011 (A.N.)
50.	034776	Satendra Singh	12.10.2011 (A.N.)
51.	022097	Amit Shrivastava	12.10.2011 (A.N.)
52.	056158	Manish Verma	12.10.2011 (A.N.)
53.	027894	Manish Kumar	12.10.2011 (A.N.)

1	2	3	4
		S/Shri/Smt.	
54.	005782	Kamlesh Kumar Sahu	12.10.2011 (A.N.)
55.	014967	Suraj Singh	12.10.2011 (A.N.)
56.	094579	Mrinmoy Banerjee	12.10.2011 (A.N.)
57.	091452	Apil Kumar	12.10.2011 (A.N.)
58.	058301	Lokesh Chowdhary	12.10.2011 (A.N.)
59.	064872	Vikram Pratap Singh	12.10.2011 (A.N.)
60.	069472	Kaushal Chaudhary	12.10.2011 (A.N.)
61.	024614	Ram Prawesh Shukla	12.10.2011 (A.N.)
62.	103967	Sohan Singh Rathore	12.10.2011 (A.N.)
63.	011444	S. Jackson Singh	12.10.2011 (A.N.)
64.	058849	Ankita	12.10.2011 (A.N.)
65.	038630	Varun Sharma	12.10.2011 (A.N.)
66.	051673	Sachin Kumar	12.10.2011 (A.N.)
67.	050708	Gambhir Singh	12.10.2011 (A.N.)
68.	030529	Harish Chandra Manori	12.10.2011 (A.N.)
69.	069285	Amit Kumar Singh	12.10.2011 (A.N.)
70.	056286	Abhijeet Nath	12.10.2011 (A.N.)
71.	055001	Vikash Kumar	12.10.2011 (A.N.)
72.	063866	Dinesh Yadav	12.10.2011 (A.N.)
73.	062683	Deepika Yadav	12.10.2011 (A.N.)
74.	032387	Laljalun Misao	12.10.2011 (A.N.)
75.	029120	Rajeev Kumar	12.10.2011 (A.N.)
76.	008441	Abhishek Chaudhary	12.10.2011 (A.N.)
77.	046677	Ranjit Kumar	12.10.2011 (A.N.)
78.	038924	Pranaw Prakash	12.10.2011 (F.N.)
79.	089869	Shashank Gaur	12.10.2011 (F.N.)
80.	025522	Jaspal Rana	12.10.2011 (F.N.)
81.	015368	Niraj Kumar	12.10.2011 (F.N.)
82.	068007	Sanjay Kumar	12.10.2011 (F.N.)
83.	029777	Om Kumar Gupta	12.10.2011 (F.N.)
84.	000207	Roshan Kumar	12.10.2011 (F.N.)
85.	111814	Rakesh Sharma	12.10.2011 (F.N.)
86.	000485	Makkhan Lal	12.10.2011 (F.N.)
87.	018505	Rajgurav Amol Balasaheb	12.10.2011 (F.N.)

1	2	3	4
		S/Shri/Smt.	
88.	086936	Prajeet Singh	12.10.2011 (F.N.)
89.	055435	Rajesh Panchal	12.10.2011 (F.N.)
90.	054427	Ankit Mehra	12.10.2011 (F.N.)
91.	027329	Bankitlang Blah	12.10.2011 (F.N.)
92.	009218	Vinay Kumar	12.10.2011 (F.N.)
93.	005894	Rajesh Kumar Guddu	12.10.2011 (F.N.)
94.	068946	Prakash Chand Yadav	13.10.2011 (A.N.)
95.	033519	Gauri Singh	14.10.2011 (A.N.)
96.	002213	Suresh Kumar	21.10.2011 (A.N.)
97.	011352	Vishwadeep Kumar	30.10.2011 (F.N.)

2. They have reported to CRPF Academy, Kadarapur (Gurgaon) for training and have taken over the charge of their post on the dates shown against their names.

R. N. MISRA  
DIG (Pers)

DIRECTOR GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 11th January 2012

CORRIGENDA

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers. I/21—Reference Notification issued vide letter No. E-16015(2)/32/2009/Pers. I/99, dated 04.06.2010. The following amendment is made in respect of Sl. No. 7:—

For :

Sl. No.	Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as AC(Fire) on regular basis
7.	Sh. Prasuh Kumar Sinha	NFL Bhatinda	02.02.2010 (F.N.)

Read :

Sl. No.	Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as AC(Fire) on regular basis
7.	Sh. Prasun Kumar Sinha	NFL Bhatinda	07.01.2010 (F.N.)

Other contents of the notification under reference remain unchanged.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers. 1/22—Reference Notification issued vide letter No. E-16015(2)/32/2009/Pers. 1/253, dated 20.09.2011. The following amendment is made in respect of Sl. No. 7:—

For :

Sl. No.	Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as AC (Local rank)
7.	Sh. Ranjib Kumar Mishra	EZ Hqrs Patna	12.04.2011

Read :

Sl. No.	Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as AC (Local rank)
7.	Sh. Ranjib Kumar Mishra	HEC Ranchi	12.04.2011 (FN)

Other contents of the notification under reference remain unchanged.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

The 13th January 2012

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers. 1/25—The President is pleased to appoint the following Senior Commandants on regular promotion to the rank of Deputy Inspector General, in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) (+) Grade Pay of Rs. 8,900/- on regular basis in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Deputy Inspector General on regular basis
S/Shri			
1.	S. N. Singh	ONGC, Nazira	12.01.2012 (F.N.)
2.	Suresh Kumar K. C.	RTC, Arakkonam	12.01.2012 (A.N.)
3.	S. S. Gusain	FHqrs, New Delhi	12.01.2012 (A.N.)
4.	R. C. Huria	OIL, Duliajan,	12.01.2012 (F.N.)
5.	Shuvaloke Sarkar	BCCL, Dhanbad	12.01.2012 (A.N.)
6.	Ajay Kumar	BSP, Bhilai (assumed charge at CISF Hqrs, New Delhi)	12.01.2012 (A.N.)

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES  
[OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER (MSME)]

New Delhi, the 27th December 2011

No. A-19018/18/126/2011-Admn. (G)—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Garg, ITS [94], as Joint Development Commissioner on Central deputation at the level of Director in the Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), New Delhi under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the forenoon of 26th December, 2011 for the balance period of central deputation tenure of five years i.e. upto 30.03.2013.

V. A. CHAVDA  
Dir. (Admn.)

No. A-19018/1820/2011-Admn. (G).—The President is pleased to appoint Shri Pabitra Sarkar, ITS [91], as Joint Development Commissioner on Central deputation at the level of Director in the Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), New Delhi under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the forenoon of 19th December, 2011 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. A. CHAVDA  
Dir. (Admn.)

New Delhi, the 10th January 2012

No. A-19018/1827/2011-A (G).—Consequent on the recommendation of Union Public Service Commission, Ms. Sanyogita Karana is appointed as Assistant Director, Grade-I (Industrial Management & Training) in Pay Band Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Rs. 5,400/- (Grade Pay) in Office of Development Commissioner (Micro, Small & Medium Enterprises), New Delhi with effect from the forenoon of 30th December, 2011 until further order.

MAHINDER SINGH  
Dy. Dir. (Admn.)

The 12th January 2012

No. A-19018/1799/2011-A (G).—Shri Dhanendra Prasad is appointed as Assistant Director, Grade-I (Electrical) in the Micro, Small & Medium Enterprises, Development Institute, Patna under Micro, Small & Medium Enterprises, Development Organization with effect from the forenoon of 16th May, 2011 until further order.

MAHINDER SINGH  
Dy. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF MINES  
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 19th January 2012

No. A-19012/512/2011-Estt. A—On the recommendation of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri Eswar Singh K. R., to the post of Assistant Editor in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 29.12.2011 (F.N.).

S. DASGUPTA  
Senior Admn. Officer  
For Controller General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 24th January 2012

No. Ref: PD/7(30)/2011-R-IV/(SO/F)/868—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers grade 'E' Pay Band Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 7,600/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'F' in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000 + Grade Pay Rs. 8,700/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of the dates shown under column 3 against each, in an officiating capacity, until further orders:—

Sl. No.	Name	Promotion w.e.f.
1	2	3
1.	Shri Kaushik Kayal	01.07.2011
2.	Shri Patil Manikrao Nathu	04.07.2011
3.	Dr. Soumen Bhattacharyya	01.07.2011
4.	Shri Amitava Roy	01.07.2011
5.	Smt. Asavari Santosh Dhavale	01.07.2011
6.	Shri Shyam Rao Ghodke	01.07.2011
7.	Shri Vivek Yadav	01.07.2011
8.	Shri Gorakhnath	01.07.2011
9.	Shri Vijay Kumar	01.07.2011
10.	Shri Virender Kumar Gautam	01.07.2011
11.	Dr. Dilip Narayan Wagh	01.07.2011
12.	Shri Maajid Ali	01.07.2011
13.	Dr. Thankan Jayasekharan	01.07.2011
14.	Dr. Chand Krishen Bhat	28.07.2011
15.	Shri Nilesh Chouhan	01.07.2011
16.	Dr. Mahesh Subramanian	01.07.2011
17.	Dr. Manoj Kumar Warriar	01.07.2011

1	2	3
18.	Shri Gundlapally Laxmi Narasimha Reddy	01.07.2011
19.	Shri K. V. N. S. V. P. L. Narasimham	01.07.2011
20.	Dr. Noorbasha Nagula Meeravali	01.07.2011
21.	Shri Raj Kumar Gupta	01.07.2011
22.	Dr. (Kum.) Manidipa Basu	01.07.2011
23.	Dr. (Smt.) Mrinal Rajesh Pal	01.07.2011
24.	Dr. Salil Varma	01.07.2011
25.	Shri Sunil Baliram Shambharkar	01.07.2011
26.	Dr. Krishna Kumar Singh	01.07.2011
27.	Smt. Neetu Amit Baveja	01.07.2011
28.	Shri Amit Kumar	01.07.2011
29.	Shri Deo Kumar Tyagi	01.07.2011
30.	Shri Rajesh Tikamchand Keshwani	01.07.2011
31.	Shri Sushil Kumar Bahuguna	01.07.2011
32.	Shri Abhimanyu Sabato	01.07.2011
33.	Dr. Hemant Shivram Sodaye	01.07.2011
34.	Shri Kantilal Genbhau Shivale	01.07.2011
35.	Shri Alope Nath Jha	01.07.2011
36.	Shri Harsh Madhukar Bapat	01.07.2011
37.	Shri Merugumilli Nagamalleswara Rao	01.07.2011
38.	Shri Ratnesh Singh Sengar	01.07.2011
39.	Shri Amit Tikaria	01.07.2011
40.	Shri Subrat Kaushik	01.07.2011
41.	Shri Mayur Dinesh Patel	01.07.2011
42.	Smt. Madhavi Voleti	01.07.2011
43.	Dr. (Smt.) Mary Alex	01.07.2011
44.	Shri Ajay Shirole	01.07.2011
45.	Shri Chandan Kumar Chakrabarti	01.07.2011
46.	Shri Ramakant	01.07.2011
47.	Shri Kaushal Jha	01.07.2011
48.	Smt. Nirupama Narahari Mirashi	01.07.2011
49.	Smt. Radhika Mohan Rao	01.07.2011
50.	Shri Ravi Prakash Jain	01.07.2011
51.	Shri George Thomas	04.07.2011
52.	Dr. Krishnankutty Menon Radhakrishnan	01.07.2011

1	2	3	1	2	3
53.	Shri Murugesan Rathinam	01.07.2011	88.	Dr. R. M. Altekhar	01.07.2011
54.	Shri Narhari Vasant Utturkar	01.07.2011	89.	Shri Ankur Chatterjee	01.07.2011
55.	Dr. Sulobh Kanti Das	01.07.2011	90.	Dr. (Smt.) Gulnar Abdul Karim	01.07.2011
56.	Dr. Jamdar Sahayog Narayan	01.07.2011	91.	Dr. Mahesh Vasudev Rane	01.07.2011
57.	Shri Ashok Kumar Verma	01.07.2011	92.	Shri Arijit Laik	01.07.2011
58.	Dr. Sukanta Karmakar	01.07.2011	93.	Dr. Mayank Shukla	01.07.2011
59.	Shri Kapil Deo Singh	01.07.2011	94.	Dr. Anand Malakajappa Badigannavar	01.07.2011
60.	Shri S. Rajaram	01.07.2011	95.	Dr. Kuber Chandra Bhainsa	01.07.2011
61.	Shri Jayant Kumar Barik	01.07.2011	96.	Smt. Bidisha Mitra Biswas	01.07.2011
62.	Shri Rajesh Kumar	01.07.2011	97.	Shri Saurabh Goverdhan	01.07.2011
63.	Shri Avhad Bhaurao Ganpat	01.07.2011	98.	Shri R. Govindan	01.07.2011
64.	Dr. Noble Jacob	01.07.2011	99.	Smt. Perna Mishra	01.07.2011
65.	Shri Walinjar Parag Balaram	01.07.2011	100.	Shri Raghuveer Virupaxrao Kulkarni	01.07.2011
66.	Shri Janardan Sharma	01.07.2011	101.	Shri Ashwani Kumar Sharma	01.07.2011
67.	Shri Raj Kumar Gupta	01.07.2011	102.	Shri Chanderpall	01.07.2011
68.	Shri Pramod Soni	01.07.2011	103.	Shri Harinder Kumar Saini	01.07.2011
69.	Shri Chhag Mayur Nanlal	01.07.2011	104.	Shri Ibungohal Ayekpam	01.07.2011
70.	Shri Raj Kumar Soni	01.07.2011	105.	Shri Ravindra Nath Tiwary	01.07.2011
71.	Shri Soumya Sarkar	01.07.2011	106.	Shri Prahalad Patange	01.07.2011
72.	Shri Ganesh Govindaraj	01.07.2011	107.	Shri Anis Ahmad	01.07.2011
73.	Shri Mandapaka Venkata Rama Srikanth	01.07.2011	108.	Shri Uma Nath Tripathi	01.07.2011
74.	Smt. Dixit Aswini Rajanish	01.07.2011	109.	Shri Karuppasamy C. V.	01.07.2011
75.	Shri Mukesh Lal Shah	01.07.2011	110.	Shri Ramachandran E. N.	01.07.2011
76.	Shri Subhra Prakash Dey	01.07.2011	111.	Dr. Kathi Sudarshan	01.07.2011
77.	Shri Vikas Kaushik	01.07.2011	112.	Dr. (Smt.) Vijayalaxmi Channakeshav Adya	01.07.2011
78.	Shri Arun Kumar	01.07.2011	113.	Shri Partha Das	01.07.2011
79.	Shri Kausik Nandi	01.07.2011	114.	Smt. Raka Mitra	01.07.2011
80.	Shri Pankaj Kumar Mahato	01.07.2011	115.	Shri Joginder Kumar Rai	01.07.2011
81.	Shri Saroj Kanta Mohanty	01.07.2011	116.	Shri Ravindra Kumar	01.07.2011
82.	Shri Sreejith Janardanan Nair	08.07.2011	117.	Shri Satyanarayan Kundu	01.07.2011
83.	Dr. Ajay Saini	01.07.2011	118.	Shri Vaze Vinay Vijay	01.07.2011
84.	Shri Mihir Chatterjee	01.07.2011	119.	Dr. (Smt.) Archana Abhay Damle	01.07.2011
85.	Dr. (Smt.) Anjali Anil Godse	01.07.2011	120.	Dr. Sandip Basu	01.07.2011
86.	Dr. (Smt.) Mausumi Garain	01.07.2011	121.	Shri K. P. Dinesh	01.07.2011
87.	Dr. (Smt.) Vanashree Prabhakar Saple	01.07.2011			

1	2	3
122.	Shri Lakshmanan Ramesh	01.07.2011
123.	Shri Ramanatha Hassan Keshavamurthy	01.07.2011
124.	Shri Ramesh Kikkeri Lakshminarayana	01.07.2011
125.	Shri Nand Kumar Choudhary	01.07.2011
126.	Shri Arshad Khan	01.07.2011
127.	Shri Sanjeev Narayanan Menon	01.07.2011
128.	Shri Suresh Mukharuji Pradhan	01.07.2011
129.	Dr. (Smt.) Nandita Maiti	01.07.2011
130.	Dr. Archana Mukherjee	01.07.2011
131.	Dr. Sudipta Chakraborty	01.07.2011
132.	Shri Arvind Kumar Singh	01.07.2011
133.	Shri Rakesh Kumar Singh	01.07.2011
134.	Shri Arvind Singh	01.07.2011
135.	Shri Ram Pravesh Singh	01.07.2011
136.	Shri Imran Ali Khan	01.07.2011
137.	Shri Muruva Hari Prasad	01.07.2011
138.	Shri Mukund Sakhambar Belhe	01.07.2011
139.	Shri Sundar Durairajan	11.07.2011
140.	Shri Khuperkar Abhijit	01.07.2011
141.	Shri Ramakrishna P.	01.07.2011
142.	Dr. Virendra Kumar	01.07.2011
143.	Shri Kabin Kukil Bhuyan	01.07.2011
144.	Smt. Nita Bhaskar	01.07.2011
145.	Smt. Tara Ashok	01.07.2011
146.	Dr. (Smt.) Rajul Ranjan Choudhury	01.07.2011
147.	Shri Avinash Kumar Mudaiya	01.07.2011
148.	Shri Satish Balasaheb Patil	01.07.2011
149.	Smt. Aruna Ramesh Swarnakar	01.07.2011
150.	Shri Arup Debdas	01.07.2011
151.	Dr. Ajay Singh	01.07.2011
152.	Shri B. V. Ramarao	01.07.2011
153.	Shri Abhay Dattatraya Bhalerao	01.07.2011
154.	Shri Chhagan Baliram Patil	01.07.2011
155.	Shri Farhat Tanweer Qureshi	01.07.2011

1	2	3
156.	Dr. Krishan Kumar Gupta	01.07.2011
157.	Shri Madhusoodanan Panicker	01.07.2011
158.	Shri Manoj Kumar	01.07.2011
159.	Shri Kodag Shivaji Tukaram	01.07.2011
160.	Shri Rajasekharan Pillai G.	01.07.2011
161.	Shri Mehta Darshit Bipinchandra	01.07.2011

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

#### (BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY)

Navi Mumbai-400705, the 31st December 2011

Ref: Brit/9/17(3)/July/2011/143—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Saraswathy Padmanabhan, Scientific Officer/Engineer Grade 'F' of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officer/Engineer Grade 'G' in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- and Grade Pay, Rs. 8,900/- in the same unit with effect from the forenoon of July 01, 2011 until further orders.

M. S. GANDLE  
Chief Administrative Officer

Ref: Brit/9/17(3)/July/2011/144—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'E' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'F' in the pay band of Rs. 37,400—67,000/- and Grade Pay Rs. 8,700/- in the same unit with effect from the forenoon of July 01, 2011 until further orders:—

Sl. No.	Name
1.	Kum. Pramila Shamrao Rao
2.	Shri Rakesh Kumar Duggal
3.	Dr. (Smt.) Jain Reji George
4.	Dr. Vivek Nagesh Yelgaonkar
5.	Shri Bhagavan Narayan Patil

M. S. GANDLE  
Chief Administrative Officer

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES (CENTRAL GROUND WATER BOARD)

NH-IV, Faridabad, the 19th January 2012

No. 3-1719/2012-Sci. Estt.-466—On the recommendations of the DPC (Group-B, Gazetted), Shri Shashikant Singh, STA

(Geophysics) has been promoted to the post of Assistant Geophysicist (Group 'B' Gazetted) in the PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- per month plus usual allowances applicable thereon in the temporary capacity from the date 02.12.2011 (FN) and posted at CGWB, Mer, Patna.

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the competent authority at his discretion.

S. R. CHAUHAN  
Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Crystal Milk Products Limited

New Delhi-110019, the 20th December 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00164—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Crystal Milk Products Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sretejas Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 20th December 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00109—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sretejas Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cious Management and Financial Services Private Limited

New Delhi-110019, the 20th December 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00151—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560

of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Cious Management and Financial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. CCRI Exploration Private Limited

New Delhi-110019, the 13th January 2012

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. CCRI Exploration Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jai Chanda Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 25th January 2012

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2012/00060—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jai Chanda Chit Fund Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nikon Fertilizer and Chemicals Private Limited

New Delhi-110019, the 25th January 2012

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2012/00061—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nikon Fertilizer and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana



In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

New Delhi-110019, the 27th January 2012

No. RoC/560 (5)/FTE-2011/13113—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

1	U18204DL2007PTC158225	A G APPARELS PRIVATE LIMITED
2	U74999DL2007PTC161616	A. R. POWER PRIVATE LIMITED
3	U67120DL1996PTC082852	AANDB JEWELS PRIVATE LIMITED
4	U80903DL2007PTC165019	ACES INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
5	U80301DL2005PTC141912	ACHIEVERS ACADEMY PVT LTD
6	U72200DL1998PTC092081	AL-FALAH SOFTWARE PRIVATE LIMITED
7	U26960DL2008PLC179695	ASSAM COMPANY NAFTOGAZ HYDROCARBON PROJECTS LIMITED
8	U55101DL2009PTC187621	BLINE BISTRO PRIVATE LIMITED
9	U72200DL2006PTC145687	BOSS CIVIL ENGINEERING SOFTWARE PRIVATE LIMITED
10	U31908DL2007PTC162627	BVM POWER PLUS PRIVATE LIMITED
11	U74994DL1999PTC098443	CHINTAMANI FASHION AND DESIGN PRIVATE LIMITED
12	U74900DL2008PTC181311	CHLORIS MAINTENANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
13	U51311DL1998PTC091906	CRAZY RIDERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
14	U64200HR2009PTC038680	CYNOSURE COMTECH PRIVATE LIMITED
15	U72900HR2008PTC038604	CYNOSURE OFFSHORE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
16	U65991DL1996PTC076403	DHANANIA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
17	U15500HR2008PTC038110	DND FOOD & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
18	U24231DL1999PTC099792	DONSOFT REMEDIES PRIVATE LIMITED
19	U28933DL1999PTC100665	DORWIN HARDWARE DEVICES PRIVATE LIMITED
20	U74899DL2000PTC108984	DUGGAL ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
21	U55101DL2004PTC128117	EUROSUN HOTEL AND RESORTS PRIVATE LIMITED
22	U80302DL2011PTC214245	EVION MARINE & AVIATION ACADEMY PRIVATE LIMITED
23	U74900DL2008PTC179108	EXOTIQUE SPIRITS PRIVATE LIMITED
24	U74899DL1990PTC041236	EXPERT SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
25	U74899DL1994PTC059795	FALCON CLOTHING CO PVT LIMITED
26	U85199DL1997PTC086474	FLEX AND FITNESS HEALTH CLUB PRIVATE LIMITED
27	U93091DL2006PTC152260	FOTEF FRANCHISE PRIVATE LIMITED
28	U74120DL2009PTC196061	FUNKYFISH RETAILS PRIVATE LIMITED
29	U29199DL2003PTC123383	GANPATI TOOLCUT PRIVATE LIMITED
30	U45400DL2007PTC165586	GOLD BUILDERS PRIVATE LIMITED
31	U45400DL2007PTC165633	GOLD ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
32	U45400DL2007PTC165593	GOLD TOWNPLANNERS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED

33	U45400DL2007PTC165588	GOLDBUILD PROMOTERS PRIVATE LIMITED
34	U45400DL2007PTC165642	GOLDSTAR INFRACON PRIVATE LIMITED
35	U55101DL1999PTC101609	GOSTHA BIHARI GARDENS AND RESORT PVT LTD
36	U35990DL2008PTC184321	HARMONY RENT A CAB PRIVATE LIMITED
37	U55101DL2008PTC182478	HIMALYANRIVER RESORTS PRIVATE LIMITED
38	U72900DL2002PTC116381	HOTWIRE INTERNET PRIVATE LIMITED
39	U74210DL2011PLC216529	HTB LIEBERT ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED
40	U74900DL2008PTC182536	INDIVA DESIGN PRIVATE LIMITED
41	U74900DL2008PTC184178	INDO NORWEIGIAN SOLAR PRIVATE LIMITED
42	U74899DL1994PLC057190	INNOVATORS INFOTECH LIMITED
43	U74999DL1991PLC044527	INTERNATIONAL SECURITY AND INTELLIGENCE AGENCY LIMITED
44	U51909DL2009PTC191306	INTIME OVERSEAS PRIVATE LIMITED
45	U74140HR2004PTC035562	INTRADE BUSINESS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
46	U80301DL2009PTC195441	ITOP EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
47	U74899DL1995PTC074894	JAI SHREE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
48	U45400DL2008PTC179618	JANTA DREAM HOME PRIVATE LIMITED
49	U55101HR2008PTC038333	JOHN KEELLS HOTELS INDIA PRIVATE LIMITED
50	U70101DL2006PTC148918	JWALAJI PROPBUILD PRIVATE LIMITED.
51	U74899DL2005PTC141171	KASTON INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
52	U74899DL1996PTC042531	KM PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED
53	U51101DL2007PTC166490	KRISHNA TRADEEXPO PRIVATE LIMITED
54	U45400DL2007PTC166277	KVM IT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
55	U45400DL2007PTC170872	LEAGUE PROPERTIES PRIVATE LIMITED
56	U29299DL2005PTC135483	LIONSHER EQUIPMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
57	U21020DL2008PTC178962	M S PAPERS PRIVATE LIMITED
58	U15419DL1999PTC102004	MAMMU MOULA FOODS (PVT) LTD
59	U45200DL2008PTC181883	MILESTONE CREATORS PRIVATE LIMITED
60	U24299DL1999PTC098547	MUSKAN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
61	U65990DL1991PTC044968	N .N. SCRIVENER INDIA PVT.LTD.
62	U74899DL1999PLC102105	N.Y.DOX SERVICES LIMITED
63	U18101DL2005PTC136498	NARAMIT FASHION WEAR PRIVATE LIMITED
64	U31102DL1981PTC011752	NIRMAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
65	U29253DL2010PTC211076	OILES BEARINGS INDIA PRIVATE LIMITED
66	U72900DL2007PTC168891	OLIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
67	U51102DL2007PTC160785	ORCHID ART & CRAFT PRIVATE LIMITED
68	U64200DL2008PTC184079	ORTUS INFRATEL AND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
69	U17120DL2007PTC166658	PA GARMENTS PRIVATE LIMITED

70	U74140DL2007PTC170385	PASCO TECH PARK PRIVATE LIMITED
71	U74140DL2006PTC155038	PBAI CONSULTING ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED
72	U74899DL1991PTC043783	PCS ENGINEERS PRIVATE LIMITED
73	U65929DL1981PTC012524	PERPETUAL FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
74	U93000DL2010PTC200316	QUICK HOME SERVICES PRIVATE LIMITED
75	U65921DL1990PTC042380	R.C. BHATIA FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
76	U45203HR1997PTC033456	RAGHAV DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
77	U74899DL1994PLC063541	RAUNAQ SECURITIES LIMITED
78	U40109DL2007PTC165271	RAYALSEEMA POWER PRIVATE LIMITED
79	U74140DL2011PTC221872	RÉCON - RISK EVASION AND CONTROL PRIVATE LIMITED
80	U80302DL2007PTC171899	RGS INSTITUTIONS PRIVATE LIMITED
81	U72300DL2008PTC180772	ROBIN INFOTECH PRIVATE LIMITED
82	U74140DL2011PTC215903	ROYAL HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
83	U51909DL2009PTC196216	RTG MARKETING PRIVATE LIMITED
84	U72200DL2005PTC133719	S.P.D. INFOTECH PRIVATE LIMITED
85	U72200DL2007PTC169874	SAGE SOFTECH PRIVATE LIMITED
86	U74899DL1987PTC027424	SARDAR METAL COMPANY PRIVATE LIMITED
87	U29100DL2009PTC188927	SAVITAR SOL ENERGY EFFICIENCY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
88	U25190DL2009PTC188832	SHANTI KRISHNA TYRE AND TUBES PRIVATE LIMITED
89	U74140DL2008PTC176209	SHINE FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
90	U74899DL1984PTC017401	SHIVHEM GARMENTS PRIVATE LTD
91	U74899DL1986PTC023852	SIDHARTHA ESTATES PRIVATE LTD.
92	U00703DL2005PTC140780	SLA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
93	U24210DL2008PTC183447	SNOW HYGIENE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
94	U64202DL2008PTC177006	SOMA NETWORKS SERVICES PRIVATE LIMITED
95	U51909DL2005PTC134015	SOROS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
96	U74992DL2011PTC221459	SPARK BUYING SERVICES PRIVATE LIMITED
97	U74899DL1992PTC050741	SPEAR SERVICES PRIVATE LIMITED
98	U25203DL2008PTC182666	SPERRY WICTOR ADHESIVES INDIA PRIVATE LIMITED
99	U22122DL2002PTC117146	SPIRE MEDIA PRIVATE LIMITED
100	U17291DL2007PTC159547	SRC TEXTILES PRIVATE LIMITED
101	U52100DL2009PLC196143	SRS ENTERTAINMENT LIMITED.
102	U52100DL2009PLC196141	SRS RETAIL LIMITED.

103	U52100DL2009PLC196194	SRS VALUE BAZAAR LIMITED
104	U45400DL2007PTC164365	SUMO BUILDCON PRIVATE LIMITED
105	U72900DL2008PTC176330	SUNLIGHT COMPUSOFT PRIVATE LIMITED
106	U51109DL2000PTC108199	SUNTEK ENVIRO PRIVATE LIMITED.
107	U45200DL2007PTC157248	TOP BRICK REALTORS PRIVATE LIMITED
108	U17291DL2007PTC161160	TRENDZ BOUTIQUE PRIVATE LIMITED
109	U72200DL2005PTC135320	TUNGSTEN SOFTWARE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
110	U51909DL2005PTC133759	UNCLE NEPHEW IMPEX PRIVATE LIMITED
111	U72200DL2007PTC171906	UNITED INFRAISOFT PRIVATE LIMITED
112	U72900HR2009PTC039143	VASPIRE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
113	U72100DL1999PTC102377	VBEING SOFTWARE PRIVATE LIMITED
114	U74999DL2011PTC212346	VENTURE TALENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
115	U74899DL1995PTC066673	VISHVAS ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
116	U70101DL2010PTC206416	WESTERN COASTAL INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED
117	U74999DL2010PTC206204	WESTERN COASTAL PORT SERVICES PRIVATE LIMITED
118	U51311DL2002PTC115704	YOGDA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

P. L. MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 27th January 2012

No. LC/560(5)/397—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Name of Company	CIN No.
1	CCIS COMPUTERS PRIVATE LIMITED	U72200UP2001PTC025951
2	RAHMAN COLD STORAGE ICE MILLS PRIVATE LIMITED	U15133UP1984PTC006792
3	DAYAL LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED	U01403UP2006PTC032134
4	THUKRAL CREDITS AND FINANCE PVT.LTD.,	U65921UP1986PTC007944
5	SHAKTI POLYMERS PRIVATE LIMITED	U19202UP2000PTC025143
6	FERTILA FARMS PRIVATE LIMITED	U74900UP2008PTC036087
7	SSIL ENVIRO TECHNOLOGIST PRIVATE LIMITED	U74210UP2004PTC028711
8	CLASSIC POLYMERS PRIVATE LIMITED	U32101UP1983PTC006332
9	PERFECT POLY CONS LIMITED	U25209UP1983PLC006325
10	S S SYNTHETICS LIMITED	U17123UP1983PLC005971
11	BDK LANDCRAFTS PRIVATE LIMITED	U15541UP2000PTC025039
12	ZENODYNE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U14295UP2008PTC035436

13	MASIHZ HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U51397UP2008PTC034672
14	SHREE MANKAMESHWAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC034109
15	GREENDEVICES RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED	U74999UP2008PTC035586
16	DAS COACHINGS PRIVATE LIMITED	U80904UP1996PTC021015
17	NAVED SIDDIQUI RADIO & TV ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74999UP2008PTC035580
18	SHANU INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120UP2001PTC026044
19	S.V.S. DWELLING UNIT PRIVATE LIMITED	U45200UP2007PTC032912
20	S.P. THREAD MILLS PRIVATE LIMITED	U17231UP1991PTC013464

M. P. SHAH  
Registrar of Companies  
U. P. & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Mumbai, the 27th January 2012

No. RoC/560 (5)/2011-2012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

SR. NO.	CO. NO.	NAME OF THE COMPANY
1	138592	M/S. RAMA MULTICO EXPORTS PRIVATE LIMITED
2	172693	M/S. TAHOE HOTELS PRIVATE LIMITED
3	172545	M/S. SQUAW VALEY HOTELS PRIVATE LIMITED
4	153657	M/S. DAN-FOSS IMPEX PRIVATE LIMITED
5	002630	M/S. BANCROFT AND COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED
6	151257	M/S. ROBOSOFT TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
7	119265	M/S. FIRST OPTION TELEFILMS PRIVATE LIMITED
8	117515	M/S. PANCHARATNA AGRICULTURE PRIVATE LIMITED
9	175854	M/S. SANTA MONICA HOTELS PRIVATE LIMITED.
10	199056	M/S. KANAKTEJ IRON & STEEL PRIVATE LIMITED
11	189456	M/S. WHITE OAK FURNITURE PRIVATE LIMITED
12	056163	M/S. SUHAS TREXPORTS PRIVATE LIMITED
13	123769	M/S. PRAGPUR TRADING PRIVATE LIMITED
14	122277	M/S. NEW CENTURY EXPORTS PRIVATE LIMITED
15	127063	M/S. TARA INFOTECH PRIVATE LIMITED
16	141493	M/S. C M SHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
17	096427	M/S. RALIN PROJECT FINANCE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
18	189897	M/S. LOADEX MACHINERY PRIVATE LIMITED
19	023684	M/S. BIRBAL INVESTMENT AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
20	184264	M/S. RASTA MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
21	203363	M/S. TAURINE EUROPOWER PRIVATE LIMITED
22	035821	M/S. RAJASTHAN PIPES AND PROFILES PRIVATE LIMITED
23	018157	M/S. MANMIR ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
24	052954	M/S. SPAJ EXPORTS PRIVATE LIMITED
25	185100	M/S. SODEXO FOOD SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED

26	142485	M/S. SAI KRUPA PETROCHEM PRIVATE LIMITED
27	184477	M/S. SHREE SHIPPING CLEARING AND FORWARDING PRIVATE LIMITED
28	171254	M/S. BRV INDIA ADVISORS PRIVATE LIMITED
29	046052	M/S. INDU CONSTRUCTION AND TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
30	186048	M/S. VISION PREMISES PRIVATE LIMITED
31	169603	M/S. VCAM INVESTMENT MANAGERS PRIVATE LIMITED
32	172831	M/S. ZERO SIX ENTERTAINMENT NETWORKS PRIVATE LIMITED.
33	199564	M/S. RAHUL EDUSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
34	012055	M/S. SEMIT PRODUCTS PRIVATE LIMITED
35	173908	M/S. S.N.K. MERCANTILE PRIVATE LIMITED
36	146053	M/S. BLUEGRILLE FOOD PRIVATE LIMITED
37	190184	M/S. SIGNATURE – UPSTART RESEARCH & EVALUATION PRIVATE LIMITED
38	205199	M/S. VIRTUAL TEXT EDUCATOR PRIVATE LIMITED
39	099427	M/S. INCON PAINTS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
40	190704	M/S. PANORAMA MULTITRADE PRIVATE LIMITED
41	144732	M/S. GUL LUBRICANTS PRIVATE LIMITED
42	126638	M/S. HARDIK COM PRIVATE LIMITED
43	049061	M/S. SAI TIRTH HOSPITAL PRIVATE LIMITED
44	078991	M/S. MASHRUWALA FORGINGS PRIVATE LIMITED
45	099744	M/S. ASIC INFOTECH PRIVATE LIMITED
46	049544	M/S. COMFORMS PAPERS PRIVATE LIMITED
47	076632	M/S. COOLAIR FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
48	169599	M/S. KHATOO FORWARDERS PRIVATE LIMITED
49	083364	M/S. TEXMART FABRICS PRIVATE LIMITED
50	178452	M/S. THERMAFLEX PIPES & INSULATION PRIVATE LIMITED.
51	170182	M/S. TRIDENT SALES PRIVATE LIMITED
52	129951	M/S. BELARI BEVERAGES PRIVATE LIMITED
53	117337	M/S. SUPERSONIK INVESTORS PRIVATE LIMITED.
54	186288	M/S. SURA CRYSTAL GLASS WORKS PRIVATE LIMITED
55	188728	M/S. kgb INFORMATION SERVICES INDIA LIMITED
56	034622	M/S. VIAR HOLDINGS PRIVATE LIMITED
57	190041	M/S. BUNTY JUICE & SNACKS STATION PRIVATE LIMITED.
58	194989	M/S. PRIYA RAISINS PRIVATE LIMITED
59	126332	M/S. CONTINUING EDUCATION SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
60	115306	M/S. BBA INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED
61	107215	M/S. SHUBHLAXMI AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
62	041328	M/S. SURESH DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED
63	128925	M/S. BANKSTAR TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
64	167552	M/S. SAKSHAM FOODS AND PACKERS PRIVATE LIMITED
65	142411	M/S. FREEZE FRAME ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
66	181356	M/S. SUYOG FORWARDERS PRIVATE LIMITED
67	189407	M/S. ACON PRINT PRIVATE LIMITED
68	183527	M/S. EXPONENTIA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
69	132212	M/S. CIEMAR ORCHID ELEGANCE PROPERTIES PRIVATE LIMITED

70	175785	M/S. EQUIRUS COMMODITIES PRIVATE LIMITED
71	056267	M/S. MAKANDARS MANAGEMENT AND PERSONNEL SERVICES PRIVATE LIMITED
72	184258	M/S. VAIBHAV SWITCHGEARS PRIVATE LIMITED
73	151192	M/S. DECORATE MULTITRADE PRIVATE LIMITED
74	184485	M/S. SRIPAISIT INFORMATION SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
75	185712	M/S. QASHCOW NETWORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
76	100239	M/S. TANMAY BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
77	183529	M/S. EXPONENTIA VENTURES PRIVATE LIMITED
78	186834	M/S. MARTINIQUE HOTELS PRIVATE LIMITED
79	108107	M/S. BHRUGUPUR CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
80	068842	M/S. GANA-SHANTI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
81	145156	M/S. SABA MINERALS PRIVATE LIMITED
82	048780	M/S. SHARP PRINTING INKS PRIVATE LIMITED
83	176062	M/S. PBT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
84	052343	M/S. AVINEET HOLDINGS PRIVATE LIMITED
85	128802	M/S. SURYA EQUITIES PRIVATE LIMITED
86	122261	M/S. QUATRO JEWELLERY PRIVATE LIMITED
87	188753	M/S. FIRSTRAND CLIENT ADVISORS (INDIA) PRIVATE LIMITED
88	156629	M/S. RAEDAN CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
89	027768	M/S. PROSY ENGINEERS AND CONSULTANT PRIVATE LIMITED
90	188752	M/S. FIRSTRAND PRIVATE WEALTH MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED
91	183530	M/S. EXPONENTIA HOTELS PRIVATE LIMITED
92	063226	M/S. TRUSA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
93	072793	M/S. SHARP INSULATIONS PRIVATE LIMITED
94	188543	M/S. ABC MOVIES PRIVATE LIMITED
95	183528	M/S. EXPONENTIA LOGISTICS & WAREHOUSING PRIVATE LIMITED
96	192000	M/S. CHETAN DALAL FORENSIC SERVICES PRIVATE LIMITED
97	187678	M/S. RAC CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
98	186703	M/S. MARVE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
99	142520	M/S. KUMASI TRADING PRIVATE LIMITED
100	187106	M/S. IL & FS NATURAL RESOURCES LIMITED.
101	174243	M/S. MAHAGENCO POWER GENERATION CONSULTANCY SERVICES LIMITED
102	051143	M/S. VASUDHA HOTELS PRIVATE LIMITED
103	030193	M/S. BETTERFLY TRAVELS PRIVATE LIMITED
104	154321	M/S. SCIENTIFIC-ATLANTA INDIA SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
105	181480	M/S. QUANTUM EQUITY ADVISORS PRIVATE LIMITED
106	119972	M/S. HAJI DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
107	134776	M/S. COUGAR MINDWARE PRIVATE LIMITED
108	156395	M/S. J.H.P. FABRICS PRIVATE LIMITED
109	170575	M/S. VICTAULIC INDIA PRIVATE LIMITED
110	188626	M/S. RAJMUDRA MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED
111	181886	M/S. TIA SHUBHAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
112	191508	M/S. ALMA IT CONSULTING PRIVATE LIMITED

113	186354	M/S.PAREKH FLOOR & FURNISHINGS PRIVATE LIMITED
114	206911	M/S. GUIZZETTI CONSULTING COMPANY PRIVATE LIMITED
115	136000	M/S. EXCELLENT MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED
116	082643	M/S. OMEGA INVESTRADE PRIVATE LIMITED
117	162758	M/S. APT RUBBER WORKS PRIVATE LIMITED
118	204751	M/S. INDO EMU FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
119	187851	M/S. LEYMCO ADVISORY PRIVATE LIMITED
120	121671	M/S. AKOLA HOSPITAL PRIVATE LIMITED
121	151862	M/S. ITM TANKER MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
122	124274	M/S. SAMYAK INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
123	199359	M/S. CATANZARO INTEGRATED WASTE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
124	160099	M/S. SURYAARADHANA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
125	029061	M/S. LOHOTWO TOOLS PRIVATE LIMITED
126	36200	M/S. ALMONDZ CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
127	196769	M/S. GLOBAL CRICKET VENTURES (INDIA) PRIVATE LIMITED-

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Mumbai, the 30th January 2012

No. RoC/EES-2010/560 (5)/689—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

SR. NO	COMPANY NAME	संख्या CIN NO.
1	G C TELECOM (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51505MH2004PTC144292
2	IL FS TRUST HOLDING COMPANY PRIVATE LIMITED	U65993MH2006PTC164083
3	YES HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED	U85100MH2003PTC143251
4	BLUE BELL HOLDINGS PVT LTD	U67120MH1992PTC067407
5	RISHABH WHEELS PRIVATE LIMITED	U27310MH2007PTC168723
6	MJM TEXTILES PRIVATE LIMITED	U99999MH1975PTC018325
7	GREENDALE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC129728
8	SHRINIWAS SOFTWARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U72200MH2005PTC153993
9	SIKA CONSULTANTS LIMITED	U74140MH1983PLC030378
10	EURO ASIA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED	U65990MH1998PLC117261
11	AMIN PATEL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1983PTC030369
12	VASUDEV STEELS PRIVATE LIMITED	U27100MH2004PTC149127
13	YUNA INVESTMENT AND FINANCE P.LTD.	U67120MH1991PTC064124
14	POLI SCREEN INDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2008PTC179633
15	DAIBO EXPORTS (BOMBAY) PVT LTD	U51900MH1984PTC031872
16	KURELE & GAHOI'S INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC168090
17	PHOTO INDIA BUSINESS AND FINANCE LIMITED	U71200MH1987PLC042599
18	POSITUDE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2004PTC150141
19	AMSEK SPECIALITY STEELS PRIVATE LIMITED	U27109MH2006PTC159434
20	FIRSTVISION TRADERS PRIVATE LIMITED	U13209MH2008PTC178571
21	STERLING HOLDINGS PVT LTD	U65990MH1982PTC026255
22	SHREE BRAHMA CHAITANYA SPIRITUAL & MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U93090MH2006PTC163443



23	KSHITIJ TEXTILES PRIVATE LIMITED	U99999MH1990PTC058098
24	LORD TAR PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U99999MH1990PTC058068
25	STATUS SECURITY SERVICES PVT LTD	U74920MH2006PTC164108
26	REALMATRIMONIAL.COM PRIVATE LIMITED	U72900MH2004PTC147909
27	VANRAJ BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1996PTC098132
28	VISION GRAFIXX.COM PRIVATE LIMITED	U72200MH1997PTC109774
29	SUNICO (INDIA) LIMITED	U32300MH2005PLC151905
30	CHADHA CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	U45202MH1972PTC016162
31	BHIMSARIA ZIPPERS AND PLASTICS PRIVATE LIMITED	U25209MH1989PTC050944
32	BROCKWAY INVESTMENT AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U67120MH1980PTC023276
33	ENCORE MARKETING PVT LTD	U51900MH1986PTC039896
34	VIVA HOLDINGS AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U65990MH1981PTC024306
35	CAM-TEX INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U17110MH1995PTC084313
36	EMMANUEL EXPORTS PRIVATE LIMITED	U99999MH2001PTC133817
37	ABC SHIPPING & LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63090MH2005PTC154881
38	CKT STOCKS & REALTY PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC175169
39	SAMARTHA INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC169728
40	ESSENCE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC175525
41	SAMARTH DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U74999MH1978PTC020397
42	TELEFAX BUSINESS SYSTEMS PVT LTD	U32200MH1989PTC052283
43	NUB POLYCHEM PRIVATE LIMITED	U24130MH1999PTC123383
44	DIGVIJAY ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U31102MH2006PTC161852
45	SMITA CONSTRUCTIONS PVT LTD	U45200MH1986PTC039167
46	SOMESHWAR HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U67120MH1991PTC060204
47	SIDDARTH SHIPBREAKING LIMITED	U61100MH1992PLC069383
48	PRINCE COMPUTERS PRIVATE LIMITED	U72100MH1998PTC116551
49	GREENGOLD LEASING AND FINANCE LIMITED	U65910MH1992PLC068597
50	SHIPNOW SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U31200MH1996PTC099351
51	AURIGA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U99999MH1997PTC112190
52	MAYFAIR DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U99999MH1989PTC051604
53	INFRASTRUCTURE INVESTMENT PVT LTD	U67120MH1991PTC062762
54	KALPDURM PHARMA EXIM PRIVATE LIMITED	U51397MH2001PTC130347
55	TRIVEDI ESTATES AND CONSTRUCTIONS PVT LTD	U45200MH1982PTC026825
56	SOLAR PLAST (ASIA) PRIVATE LIMITED	U25200MH1998PTC115355
57	VIHAR AUTOMATION PRIVATE LIMITED	U74999MH2003PTC141822
58	NATRAJ PULP AND PAPER PVT LTD	U21010MH1985PTC036886
59	SEN'S COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74300MH1996PTC104348
60	WELLSET SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC126746
61	AL-HAFIZ TRADERS AND PERFUME MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED	U51900MH1983PTC030716
62	SHRADDHA PLYWOOD PRIVATE LIMITED	U70101MH1994PTC082296
63	REDMOR GLOBAL PRIVATE LIMITED	U51900MH1996PTC097442
64	KAIROS INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72200MH2007PTC175230
65	ENERCON ENTERPRISES LIMITED	U74999MH2003PLC140028
66	SUPER LAMINATIONS PRIVATE LIMITED	U28910MH1979PTC021322
67	SOUTHERN MONOMER INDUSTRIES LTD.	U24100MH1986PLC039795
68	GALACTICA INVESTMENTS LTD	U67120MH1986PLC041219
69	WESTERN INDIA OXIDE PVT LTD	U24110MH1989PTC053086
70	FARM RICH FOODS PRIVATE LIMITED	U15410MH1999PTC118088
71	VIRTUAL SOLUTIONS INDIA LIMITED	U72200MH2000PLC129700
72	DIAMOND DATABASE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC130949
73	MANGALSIDDHI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65993MH2002PTC136473
74	FALCON ADVERTISING MEDIA AND PUBLICITY PRIVATE LIMITED	U74300MH2003PTC141895
75	SHRINIVAS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U67190MH2005PTC154225
76	WHITE WATER ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92132MH2006PTC160247
77	KEYSTROKES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200MH2005PTC158042

78	LIBERTY ENGINEERING P.LTD.	U28920MH1993PTC075829
79	CHHATRASAL FINANCIAL SERVICES LIMITED	U67190MH1995PLC088108
80	RELIABLE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45200MH1972PTC015987
81	ADITYA UDYOG MITRA PRIVATE LIMITED	U51900MH1982PTC026367
82	NEOCON DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1988PTC046880
83	SUBHASH ABRASIVES PRIVATE LIMITED	U74999MH1995PTC085583
84	ROJGAR INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U65999MH2005PTC158862
85	SECURITY CARRIERS PVT LTD	U63000MH1981PTC024194
86	VANVIK LEASING PVT LTD	U70101MH1984PTC034114
87	SPRINGFIELD AGRO HOLDINGS LIMITED	U99999MH1995PLC086895
88	ONKAR OIL AND ALLIED PRODUCTS LIMITED	U15140MH1995PLC088081
89	KAPADIA METLIMPEX PRIVATE LIMITED	U27100MH1997PTC106072
90	AMBICA FINCREDIT LIMITED	U65921MH1997PLC108285
91	CYBERTECH SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC131842
92	SAHARA INDIA ENTERTAINMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED	U92100MH2004PLC149438
93	DR BIRMOLE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U85110MH2005PTC154688
94	LIFE LINE SUPER CARE INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U65999MH2006PTC161932
95	KALYAN ELEMECTRON PRIVATE LIMITED	U31200MH1983PTC031713
96	ECHHARTEE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1998PTC113691
97	AREM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72100MH2005PTC154035
98	PATSONS FINANCE PVT LTD	U65990MH1993PTC071125
99	INDRAYANI MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U99999MH1993PTC074274
100	SHARDA HOME CARE PRIVATE LIMITED	U24200MH2005PTC151729
101	GORDHAN TRADERS PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC156182
102	LABDHI STEEL AND TUBE PRIVATE LIMITED	U27100MH2005PTC157759
103	SHILPIYAN RUBBERS PRIVATE LIMITED	U99999MH1982PTC026365
104	BHORUKA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U99999MH1981PTC023929
105	BHORUKA ESTATE AND HOLDINGS PVT LTD	U67120MH1984PTC034242
106	SARVOTTAM GENERAL TRADING COMPANY PVT LTD	U51900MH1986PTC039654
107	ONLOOKER COMPUTER SERVICES LIMITED	U99999MH1986PLC040566
108	SHAH SIDDHIVINAYAK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70100MH1988PTC047429
109	KACHWAL BROTHERS (FINANCE AND INVESTMENT) P.LTD.	U65990MH1994PTC076025
110	GANESH SHELTERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70100MH1997PTC105720
111	SRILA STOCK SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120MH1997PTC111741
112	VIDHYA POLYESTERS PRIVATE LIMITED	U17120MH1997PTC112667
113	EQUITYTRADE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U72900MH1998PTC115810
114	KUSHAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U99999MH1999PTC118749
115	VISION AGRIGENETICS LIMITED	U51909MH2001PLC133181
116	MATRIX MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC152774
117	LAKHAN TRADERS PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC156183
118	SATURN COMMUNICATIONS LIMITED	U92100MH1995PLC092286
119	TANAWALA SYNTHETIC TEXTILES LIMITED	U17119MH1988PLC160381
120	INTIME STEEL & ALLOYS PRIVATE LIMITED	U51109MH2007PTC166805
121	RAVALS PACKING MATERIALS PRIVATE LIMITED	U74950MH1974PTC017584
122	COMPOSITE POLYMERS PRIVATE LIMITED	U25200MH1988PTC048171
123	NARIMAN NALLASETH PRIVATE LIMITED	U45200MH1971PTC015464
124	SHRIKRISHNA THEATRES AND HOTELS PVT LTD	U55200MH1982PTC026827
125	GEENA MARINE SERVICES PVT LTD	U61100MH1984PTC032409
126	SULNIK AGENCIES AND MACHINERIES P LTD	U99999MH1984PTC034443
127	CHELLARAM INK PRODUCTS PVT. LTD.	U99999MH1986PTC039879
128	NALLASETH COMTECH PRIVATE LIMITED	U28920MH1986PTC041647
129	FALCON COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH1987PTC044511
130	HOTEL CHANDRALOK PRIVATE LIMITED	U55200MH1990PTC055910

131	RAMYA EXIM P.LTD.	U51900MH1993PTC075479
132	RUSHABH CHEMTEX TRADING P LTD	U29299MH1993PTC075497
133	HARISH ROPES PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC095094
134	DIAMPEX TRADING PRIVATE LIMITED	U51311MH1995PTC095535
135	VIGYAPAN VISION PRIVATE LIMITED	U92100MH1996PTC103270
136	POLYTECH PRINT (INDIA) LIMITED	U22210MH1997PLC107993
137	JAY SUB BROKING PRIVATE LIMITED	U67120MH1999PTC122867
138	DEV INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC129195
139	S.S.P.S. SECURITY AND SERVICES COMPANY PRIVATE LIMITED	U67120MH2001PTC134135
140	NOBLE ASSAYING AND HALLMARKING (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51398MH2002PTC136430
141	SAI RETREAT AND HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED	U85110MH2004PTC143908
142	SUNCORP FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH2004PTC146540
143	SAGONA SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72200MH2004PTC147321
144	OM CORRU CONTAINERS PRIVATE LIMITED	U28992MH2005PTC151253
145	MUGGEES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2005PTC151324
146	HIGHRISE DWELLERS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U45200MH2005PTC156528
147	CHAMAN ELECTRICALS LIMITED	U40105MH2006PLC164161
148	KAY KAY PHARMA SALES LIMITED	U51397MH2006PLC166119
149	SPECTRA PUBLIC RELATIONS PRIVATE LIMITED	U74300MH1991PTC062277
150	HARSHITA HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U67120MH1992PTC065514
151	MTR HOTEL AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U55200MH1995PTC094973
152	AGRI INFOTECH ONLINE(INDIA) PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC126168
153	AALAY FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH2000PTC129042
154	SPIRITUAL INCENSE FACTORY PRIVATE LIMITED	U24248MH1984PTC032725
155	CHESIRE LEASING LIMITED	U99999MH1985PLC036798
156	MONTBLANCE INVESTMENTS LIMITED	U67120MH1986PLC041049
157	SHAH HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED	U55100MH1988PTC049586
158	LOUKIK DEVELOPERS PVT LTD	U45200MH1991PTC062010
159	LAVEENA HOLDINGS P LTD	U67120MH1994PTC076338
160	DEVIKA SECURITIES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U65990MH1994PTC079696
161	BRAHMBHATT HOME FINVEST LIMITED	U65922MH1995PLC084502
162	KALA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC089992
163	NRS PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC091431
164	MUNISUWRAT PROPERTIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U70100MH1995PTC093454
165	CHAMATKAR FINVEST PRIVATE LIMITED	U67120MH1996PTC104056
166	ABHYUDAYA MARKETING PRIVATE LIMITED	U51900MH1999PTC118662
167	G.B.EXPORT IMPORT PRIVATE LIMITED	U51900MH1999PTC121327
168	PREMIERE TRADING ENTERPRISES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51900MH2000PTC126271
169	GIRVANABHARATI COM PRIVATE LIMITED	U72300MH2000PTC128044
170	NEELAM INFOTECH SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC129268
171	VIACOM INFOTECH (INDIA ) PRIVATE LIMITED	U72900MH2002PTC135463
172	MULTI LEASING AND INVESTMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U65993MH2002PTC138395
173	HIGHRISE SHELTERS PRIVATE LIMITED	U70101MH2003PTC139981
174	STRATECH INNOVATIONS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2004PTC148448
175	CHIANG PATEL AND YERBY (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74210MH2000PTC127421
176	KJSL LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63000MH2005PTC155650
177	TEHNIKA OIL & GAS EQUIPMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U29219MH2006PTC163955
178	BASAR ALUMINIUM PRIVATE LIMITED	U27203MH2006PTC165475
179	CH EIGHT KARMA ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U29199MH2006PTC165419
180	LITOLIER CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC177739
181	PROGRESSIVE INDUSTRIAL ESTATES AND AGENTS PVT LTD	U67120MH1973PTC016304

182	SWARNA DHARA INVESTMENTS LIMITED	U65920MH1989PLC051505
183	NIRMAN POLYMERS PRIVATE LIMITED	U25209MH1989PTC052860
184	KUNAL TEFTRONIC CABLES PRIVATE LIMITED	U32109MH1992PTC066291
185	CHADDA AND CHADDA DEVELOPERS PVT.LTD.	U45202MH1992PTC069210
186	FORWARD IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC087718
187	ARYAN TRANSPORT PRIVATE LIMITED	U63090MH1996PTC097024
188	PADIYAR AGRO FARMS LIMITED	U01110MH1997PLC106669
189	SHARAD AAROGYA DHAM HOTELS PRIVATE LIMITED	U55201MH1997PTC109951
190	NPS TRAVEL SERVICES PRIVATE LIMITED	U63040MH1998PTC113661
191	MEENANJALI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201MH1998PTC114985
192	TILAK EXPORTS PRIVATE LIMITED	U74999MH1998PTC116995
193	GOLDENLINE SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED	U72200MH2000PLC124100
194	ACE BROADCOM LIMITED	U52335MH2001PLC134017
195	FAIRLINE GRAH NIRMAN PRIVATE LIMITED	U70100MH2004PTC144579
196	SOUNDWAVE CREATIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH1999PTC120834
197	SHREE SUBHADRA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U67190MH2005PTC153457
198	LORD'S GANESH FASHIONS PRIVATE LIMITED	U74994MH2006PTC159595
199	PULGAON OIL MILLS PRIVATE LIMITED	U15100MH1951PTC010561
200	SUPREME TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17110MH1974PTC017778
201	ADROIT INVESTMENT AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U65990MH1977PTC019645
202	WIE MICRO ELECTRONICS LTD	U99999MH1983PLC030552
203	SHABHAM VANIJYA LTD	U51900MH1985PLC037087
204	ETIBAR SHAH CONSTRUCTIN COMPANY PRIVATE LIMITED	U45200MH1986PTC040906
205	DHANRAJ ENGINEERING PVT LTD	U29130MH1987PTC044999
206	THAKKAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH1988PTC046768
207	MAHAVIR BOX MANUFACTURERS PVT LTD	U25202MH1988PTC048570
208	COMBINE PROJECTS AND ALLIED ENGINEERING COMPANY PVT LTD	U74999MH1989PTC053590
209	ALL PROOF TARPOLINE PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U99999MH1990PTC058116
210	N H VASAIWALA CHEMICALS INVESTMENTS P LTD	U99999MH1990PTC059552
211	VISHWANATH TEXTILE MILLS LIMITED	U17120MH1991PLC062191
212	HERO SHELTERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1992PTC068833
213	RAILA INVESTMENTS AND FINANCE PVT.LTD.	U67120MH1992PTC069545
214	DEALWEL PROPERTY DEVELOPERS P.LTD.	U45200MH1993PTC072654
215	MARK FILMS PRIVATE LIMITED	U92110MH1993PTC075202
216	CLIFF BUILDERS PRIVATE LIMITED	U70101MH1994PTC077846
217	URAL BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1994PTC079725
218	PASCHIM ESTATES PRIVATE LIMITED	U45200MH1994PTC079726
219	PARSIK ESTATES PRIVATE LIMITED	U45200MH1994PTC080440
220	CALYX TRADERS PRIVATE LIMITED	U99999MH1994PTC082844
221	CALYX HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U99999MH1995PTC086045
222	VIJAYKUMAR AND COMPANY (SHIP BREAKERS) PRIVATE LIMITED	U35110MH1995PTC086414
223	JITRAJ FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH1995PTC091007
224	TAHREEK FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED	U65900MH1996PLC097930
225	SEVAGRAM FINANCE LIMITED	U65923MH1996PLC097944
226	CAMPBELL CAPITAL LIMITED	U67120MH1996PLC101124
227	AMARDEEP INDIA SAVING AND FINANCE LIMITED	U65990MH1996PLC104555
228	Z AND Z DATATECH PRIVATE LIMITED	U30000MH1997PTC106287
229	BOSS MANUFACTURING AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U64200MH1997PTC108550
230	DR PAUL ASSOCIATES ENGINEERS AND CONSULTANTS LIMITED	U74210MH1998PLC114870
231	JAYESH DIAMONDS PRIVATE LIMITED	U36912MH1999PTC119781
232	FRONTTRACK SERVICES LIMITED	U51100MH1999PLC120689
233	COMMENCE CONCEPTS PRIVATE LIMITED	U74140MH1999PTC122544

234	ONETEAM BUSINESS SOLUTIONS INDIA LIMITED	U72100MH2000PLC127520
235	SJA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC129750
236	SYNERGY FARMS PRIVATE LIMITED	U01211MH2001PTC131883
237	S K FILMS AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92132MH2001PTC132329
238	FREAKQUENCYBUZZ COURIER SERVICES (INDIA ) PRIVATE LIMITED	U64120MH2002PTC137529
239	SHREE GAYATRI SHARES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120MH2003PTC138651
240	AQSENT COMMERCIAL COMPANY PRIVATE LIMITED	U51909MH2003PTC141268
241	PRIME CARTONS PRIVATE LIMITED	U21020MH2004PTC144228
242	TRINITY LIFESTYLES PRIVATE LIMITED	U17100MH2004PTC144983
243	R S EQUITY ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74140MH2004PTC145108
244	SWAR SAMBHAV PRIVATE LIMITED	U92140MH2004PTC145752
245	MULUND WEB SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2004PTC149216
246	CELLPHONE ENTERTAINMENT (MUMBAI) PRIVATE LIMITED	U64202MH2004PTC149544
247	JUMBO DAIRY PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED	U15200MH2005PTC151094
248	RAKS IMAGE MATTERS PRIVATE LIMITED	U74210MH2005PTC158122
249	KSHITIJ BUSINESS SERVICE PVT LTD	U99999MH2006PTC159379
250	ACTIVE BUSINESS SERVICE PVT LTD	U99999MH2006PTC159410
251	I SAT MARKETING PRIVATE LIMITED	U52392MH2008PTC177961
252	AHUNA INVESTMENTS AND FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES PVT LTD	U67120MH1985PTC037733
253	AFIC FINANCE LIMITED	U99999MH1987PLC042503
254	WORLDTRADE COMMUNICATIONS AND SYSTEMS (INDIA) LIMITED	U30000MH1987PLC042557
255	THROUGH CLEAN TECHNICS PVT LTD	U28920MH1987PTC044808
256	BEST AUDIO-VISUAL AMUSEMENT PVT LTD	U74999MH1993PTC072170
257	SPRING FALLS EXPORTS ADVERTISING AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74300MH1994PTC083127
258	MOTILAL OMPRAKASH INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U29290MH1995PTC085655
259	NIVA ONLINE PRIVATE LIMITED	U72900MH1995PTC089397
260	PRIYAM CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U65923MH1996PTC096598
261	DYNA SWITCH MODE POWER PRIVATE LIMITED	U32100MH1996PTC103081
262	SYNCHRONOUS EXIMS LIMITED	U99999MH1997PLC105731
263	KHANDELWAL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U70100MH1997PTC109932
264	ASKME DIRECT MARKETING LIMITED	U74140MH1999PLC122016
265	STRATAGEM MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U70200MH1999PTC123052
266	YASI BIOSOFT PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC129965
267	ACCRESCENT SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC132037
268	IL BIO-MAGNETIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U29198MH2001PTC132693
269	SURTIVOHRA.COM SERVICES PRIVATE LIMITED	U51909MH2002PTC134790
270	VERBENA TRADING AND EXPORTS COMPANY PRIVATE LIMITED	U51909MH2002PTC137092
271	JMBS CLOTHING COMPANY LIMITED	U17120MH2003PLC139022
272	LIFEGUARD MULTI INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U67200MH2003PTC139204
273	PLANET E SERVE PRIVATE LIMITED	U74999MH2003PTC142607
274	ROSY DIAMONDS PRIVATE LIMITED	U36910MH2004PTC147685
275	MAGICSTAR SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U30009MH2004PTC149078
276	ASHWINI HOSPITALS AND I C C U PRIVATE LIMITED	U85110MH2005PTC150932
277	CHINTAMANI IRON AND STEEL COMPANY PRIVATE LIMITED	U27100MH2005PTC152787
278	SHALIMAR CANS PRIVATE LIMITED	U28992MH1981PTC024653
279	GURUDEV CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH2006PTC160411

280	SCENARIO INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC166969
281	VIDUSHI TRADERS PRIVATE LIMITED	U52341MH2007PTC171961
282	ARYAN FLAVOURS & FRAGRANCES PRIVATE LIMITED	U24246MH2008PTC178450

HENRY RECHARD  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Mumbai, the 30th January 2012

No. RoC/560 (5)/690—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

SR. NO	COMPANY NAME	CIN NO.
1	HI - FI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U70101MH2003PTC139842
2	IGENESIS SOFTWARE SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72200MH1991PTC062331
3	ROCKS FINANCIAL SERVICES LIMITED	U65923MH1995PLC086240
4	MAMAL FINANCE PRIVATE LIMITED	U65990MH1993PTC074575
5	JVS INFOCOM (INDIA) LIMITED	U72900MH2001PLC131996
6	POORTI FINVEST LIMITED	U65990MH1996PLC101685
7	NENSEY SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1994PTC080914
8	MAKHANCHOR HOTELS PRIVATE LIMITED	U99999MH1990PTC056259
9	PCTEL WIRELESS PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC171141
10	MITTAL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH1995PTC086957
11	D.S.AIR PRIVATE LIMITED	U74999MH1995PTC088940
12	SCAN FLOW (INDIA) LIMITED	U51900MH1997PLC111604
13	SHANTI ROSINS PRIVATE LIMITED	U24110MH1998PTC116419
14	ENVIRO SOFT SYSTEM PRIVATE LIMITED	U72200MH2008PTC179088
15	INDU INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1985PTC036490
16	RACHANA INTERIORS PRIVATE LIMITED	U74994MH1995PTC090694
17	RETNA APPARELS AND GARMENTS PVT LTD	U18101MH1989PTC053364
18	KAMDHENU SOLVENT EXTRACTIONS LIMITED	U15140MH1993PLC074178
19	EXOTIC COLOURS PRIVATE LIMITED	U99999MH1990PTC059421
20	ASHAR MOTORS PRIVATE LIMITED	U99999MH1995PTC088364
21	STERLING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72100MH1999PTC120380
22	IBERIS AMARA FINANCE AND CONSULTANCY LIMITED	U67190MH1996PLC101292
23	RUJUTAA CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24116MH1997PTC107008
24	VENUS BIOTECH LIMITED	U99999MH1997PLC105393
25	ANSH BIOTECH PRIVATE LIMITED	U51397MH2005PTC155502
26	BATHIJA TRADING PRIVATE LIMITED	U51900MH1996PTC101833
27	SHREE CHAITANYA FIRE ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U31909MH2005PTC153810
28	SONA PLANTATIONS AND FARMS PRIVATE LIMITED	U99999MH1979PTC021253
29	NILONS PLANTATIONS PRIVATE LIMITED	U01120MH1979PTC021255
30	MACRO EDGE (INDIA) PVT LIMITED	U32200MH1988PTC034302
31	MAHESH BRIJESH METALS PRIVATE LIMITED	U74999MH1984PTC034759
32	FEDSON INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	U24222MH1985PTC038127
33	HEVAN AGROTECH PRIVATE LTD	U67120MH1994PTC074963
34	CULABA ESTATE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1994PTC079010
35	YUGAL ESTATE AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1994PTC080338

36	EMINENT ESTATE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65921MH1994PTC080886
37	TOP MOST AGROTECH PRIVATE LIMITED	U01110MH2004PTC084422
38	CEGA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH1995PTC088690
39	ROYAL PALMS LIFECARE PRIVATE LIMITED	U85310MH2002PTC136845
40	RST REALTY PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC170967
41	ANKLESHWAR LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70100MH1988PTC049915
42	NAMEKETU PLASTICS PRIVATE LIMITED	U25209MH1994PTC083965
43	EURO-ALFA FINANCE AND CAPITAL PRIVATE LIMITED	U65910MH1995PTC093378
44	CULVER HOLDINGS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC131039
45	CRYSTAL VALE RESORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U55101MH1997PTC105505
46	URJANKUR BHIMA TAKLI POWER COMPANY LIMITED	U40108MH2008PLC180291
47	NATELCO CELLULAR PRIVATE LIMITED	U84200MH1994PTC080740
48	DIAMOND HOME SHELTERS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U70101MH1995PTC086018
49	SEONI CHEMICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U24100MH1979PTC021548
50	SINGLE WINDOW FINANCIAL SERVICES P.LTD.	U67190MH1994PTC078422
51	TRINITRON PRINTING INKS PRIVATE LIMITED	U21098MH1996PTC102969
52	OM-SAI AGROTECH INVESTMENTS LIMITED	U01100MH1997PLC107838
53	WEDO ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92100MH2005PTC152039
54	CAPTECH SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH1988PTC046079
55	AKAR SURGICAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U33110MH1990PTC058440
56	STARJYOT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U99999MH1994PTC083165
57	SCRIPTECH EQUITY PRIVATE LIMITED	U65990MH1996PTC096568
58	LUMEN PHON MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED	U72900MH1996PTC101247
59	DEL-HOUSIE LAUNDRETTE PRIVATE LIMITED	U74999MH1999PTC118207
60	QUADRATIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200MH2007PTC168951
61	TRADESPHERE INDIA PRIVATE LIMITED	U91110MH2000PTC124176
62	PTFE RUBBER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U25190MH1994PTC080538
63	ROLLSTAR FINVEST PRIVATE LIMITED	U65990MH1995PTC093471
64	SCRIPTECH STOCKS AND SHARES PRIVATE LIMITED	U67190MH1996PTC096521
65	BRAZ HOUSING COMPLEX PRIVATE LIMITED	U45200MH1991PTC062429
66	TINSEL FINANCIAL SERVICES LIMITED	U67190MH1993PLC074166
67	VISHWAKARMA EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51900MH1994PTC079413
68	RSA CAPITAL MARKETS PRIVATE LIMITED	U99999MH1995PTC086491
69	SF COMPUTERS PVT LTD	U99999MH1983PTC030451
70	EVER DIAMONDS PRIVATE LIMITED	U36910MH2004PTC096964
71	C B S DIAMOND PRIVATE LIMITED	U51398MH1999PTC120295
72	BRAND MAGNET (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74999MH2004PTC134827
73	DEV STEEL FAB PRIVATE LIMITED	U27100MH2005PTC151513
74	QUANTITATIVE SECURITIES PRIVATE LIMITED	U65999MH2008PTC177411
75	PRECIOUS FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD	U65990MH1994PTC078600
76	ATLANTA PETRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U23200MH1995PTC090861
77	UNNATI EDUCATIONAL CONSULTANCY SERVICES AND RESEARCH PRIVATE LIMITED	U80221MH1998PTC115153
78	SIGNAL AUTO SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U31100MH1995PTC090652
79	VARSHA SWITCHGEARS PRIVATE LIMITED	U31909MH1995PTC091030
80	SURESEAL BIO-ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U29305MH2001PTC132597
81	OPTIMUM BUSINESS SOLUTIONS LIMITED	U72900MH2001GAP133190
82	TALLEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U51505MH2004PTC143944
83	AEDGE MEDIA PRIVATE LIMITED	U92110MH2005PTC158942
84	NARMADA STRUCTURALS AND VESSELS PVT LTD	U29100MH1981PTC025308
85	SOFTBLAZE INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U72200MH1996PTC101135
86	JITENDRA APPARELS PRIVATE LIMITED	U52322MH1998PTC113022



87	HEENA INFOSYS LIMITED	U72200MH1999PLC120398
88	I2INOW INDIA PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC121956
89	APICAL MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U51909MH2003PTC139818
90	FLORESCENT AIR CARGO P.LTD.	U63012MH1993PTC074789
91	ELECTRO PROJECTS PRIVATE LIMITED	U45208MH1996PTC096321
92	U-FOCUS INTER FACE PRIVATE LIMITED UFOCUS	U74140MH2005PTC155466
93	VCOM NET SOLUTION (INDIA) LIMITED	U72900MH2000PLC124617
94	O AND P ADVERTISING PRIVATE LIMITED	U74300MH2004PTC143880
95	KASHIDEV FINANCIAL SERVICES P.LTD.	U67190MH1994PTC078752
96	NARENDRA VELJI TEXTILES AND INDUSTRIES PVT LTD	U99999MH1982PTC028083
97	NEW-ERA HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U57120MH1991PTC063417
98	GLORY LEASING P.LTD.	U65910MH1992PTC064704
99	SHUBH-LABH FINVEST (BOMBAY) P.LTD.	U65990MH1992PTC064759
100	ASTOR FINANCIAL SERVICES LTD.	U65920MH1993PLC072804
101	ONE CALL HOUSING PRIVATE LIMITED	U70100MH1988PTC049713
102	ABSOLUTE FINANCE AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	U65990MH1990PTC056445
103	SPORTS VACATIONS (INDIA) P.LTD.	U92410MH1994PTC077163
104	INTEGRAND INFORMATION SYSTEMS LIMITED	U65910MH1996PLC096685
105	PRIME SYSTEMS AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200MH1996PTC103934
106	JALVA MEDIA INDIA PRIVATE LIMITED	U64200MH2000PTC124446
107	MONA ESECURITIES LIMITED	U72900MH2000PLC126072
108	WANZ ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74999MH2004PTC148085
109	TARA SOUTIONS PRIVATE LIMITED	U64120MH2005PTC156507
110	SHREE ANUPAR CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U24230MH1994PTC079850
111	MASTERPIECE INTERIORS PRIVATE LIMITED	U45200MH1996PTC096239
112	SURANG BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1973PTC016561
113	SHREEVATSA DAIRIES PRIVATE LIMITED	U15200MH1993PTC074038
114	MONA LIFE SCIENCES LIMITED	U51900MH2000PLC125977
115	AMEYA SUPERMARKET LIMITED	U51909MH2003PLC138823
116	KIMAVANTI PRIVATE LIMITED	U65990MH1987PTC013839
117	AWARD METALS PRIVATE LIMITED	U27200MH1989PTC051549
118	SHREYAS DIAGNOSTIC RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED	U85195MH1991PTC059735
119	CITIZEN HOME LOAN FINANCE COMPANY PVT LTD	U65920MH1991PTC063040
120	ULTRATECH SYNTHETICS PRIVATE LIMITED	U74999MH1994PTC082220
121	FOREST HILLS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U20101MH1994PTC083919
122	PIONEER INFOVISION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH1995PTC087843
123	PARSHAVNATH CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC093189
124	JETSET MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51900MH1996PTC099507
125	CMCS INDIA ESECURITY PRIVATE LIMITED	U72100MH2000PTC124467
126	RHINE SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U63010MH2000PTC125673
127	CIGMA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92100MH2004PTC144541
128	ENERSOURCE TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U31909MH2006PTC161961
129	PUMA FARMS PVT.LTD.	U99999MH1992PTC065167
130	MASTER DESIGNS PRIVATE LIMITED	U65920MH1992PTC069427
131	ISOTECH IRRADIATORS PRIVATE LIMITED	U33111MH1995PTC085667
132	SHIVAM ELECTROFAB PRIVATE LIMITED	U14292MH1998PTC112777
133	SAMARTH BROKING PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC171361
134	VIDARBHA BOARD MILLS PRIVATE LIMITED	U99999MH1960PTC011772
135	SHREE YAMUNA AUTO LINERS PVT LTD	U99999MH1982PTC028068
136	ORACLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U32105MH1991PTC061589



137	OPEN SOFTWARE TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	U99999MH1991PTC063148
138	ANIL AGRO PRODUCTS PVT.LTD.	U01110MH1992PTC068103
139	KAMDHENU LEASING AND FINANCE LIMITED	U65910MH1994PLC083910
140	MYMAKAA.COM PRIVATE LIMITED	U70200MH2000PTC124497
141	SAPTARSHI INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72400MH2000PTC126958
142	R T TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC144712
143	ESAOTE INDIA (WE) PRIVATE LIMITED	U33110MH2000PTC127430
144	PAREKH ELECTRONICS PVT LTD	U32106MH1984PTC032523
145	ALSI ASSOCIATES PVT LTD	U50400MH1986PTC040902
146	PATEL PLANTATIONS PRIVATE LIMITED	U01110MH1993PTC070448
147	AJMERA SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC091496
148	JURA FINSTOCK PRIVATE LIMITED	U67120MH1996PTC102942
149	RICHLINE EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51900MH1997PTC111919
150	SHAKTIKUMAR M.SANCHETI INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS LIMITED	U45200MH2005PLC152068
151	AMANDA MALL DEVELOPERS COMPANY PRIVATE LIMITED	U74999MH2006PTC164650
152	PINault PETROLEUM PRIVATE LIMITED	U40200MH2006PTC165839
153	TEEKAY TRAVELS AND TOUR PVT LTD	U63040MH1985PTC038037
154	GENESIS GREENFIELDS LIMITED	U99999MH1997PLC108025
155	MIND-FORCE CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74100MH2004PTC144198
156	CHAITALI SALES AGENCY PRIVATE LIMITED	U74140MH2006PTC159807
157	SAGAR INVESTMENTS LIMITED	U67120MH1974PLC017426
158	CHEDDAR CONSTRUCTION P.LTD.	U45202MH1994PTC076878
159	CONTRACT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH1995PTC090302
160	DAFFODILS FOODS PRIVATE LIMITED	U15100MH1999PTC118209
161	VISIONARY SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED	U72200MH2000PLC127857
162	ANAND HEALTH EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	U33125MH1989PTC054746
163	PADHI ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U28920MH1991PTC060614
164	SEC MACHINES PRIVATE LIMITED	U29290MH1994PTC079716
165	POSHMOD MARKETING PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC089180
166	OLLAGE CREATION AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74300MH1996PTC100308
167	VIVA AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED	U34101MH2002PTC136844
168	FIRST TEXTILE INDIA PRIVATE LIMITED	U52322MH2005PTC156510
169	SARANG FINE ART PVT LTD	U36998MH1986PTC041625
170	VAIBHAV PRESS LIMITED	U22210MH1992PLC069655
171	SQUARE COMPUTERS PRIVATE LIMITED	U72200MH2004PTC146247
172	FORUM APPARELS PRIVATE LIMITED	U99999MH1992PTC065952
173	AKAYGEES HRM.COM PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC127672
174	MANDVI HOME FIN PRIVATE LIMITED	U45200MH1989PTC052429
175	SHREE ASHAPURA SALES AGENCY PRIVATE LIMITED	U51909MH2003PTC141485
176	PNEUMECH PETROCHEM SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U29299MH2005PTC152466
177	CHARIF PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U31401MH2007PTC174189
178	ADIKESHAV INVESTMENTS AND TRADING CO PVT LTD	U65923MH1981PTC024152
179	EVEREST PETROLEUM PRODUCTS PVT LTD	U99999MH1985PTC036778
180	VELLANOVA PHARMACEUTICALS LTD	U24239MH1986PLC040823
181	ALL TIME FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U15410MH1989PTC050289
182	PRATHIN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC085337
183	PLUS ORGANICS PRIVATE LIMITED	U24230MH1995PTC087175

184	ARIES CONSULTANTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED	U74140MH1995PTC090225
185	SHAKTI DIAMONDS PRIVATE LIMITED	U36912MH1995PTC090391
186	MELKAY TEXTILE INDUSTRIES LIMITED	U17121MH1995PLC092336
187	REDSTONE MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51900MH1996PTC095777
188	AGARWAL INTERNATIONAL LIMITED	U51900MH1996PLC096033
189	PRANAV HOUSING AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED	U65920MH1996PTC098158
190	PVS TOOLS AND TECH PRIVATE LIMITED	U28939MH1996PTC099801
191	SHEETALNATH FINANCE LIMITED	U65900MH1997PLC108972
192	SAHAS CONSULTANTS AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67190MH1997PTC109180
193	SUNWIN FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U65990MH1997PTC109708
194	FIRSTCITY COMPUTERS PRIVATE LIMITED	U80302MH1997PTC112640
195	PALLAVI INFOWAY PRIVATE LIMITED	U73100MH2000PTC125237
196	TPL SHIPPING AGENCIES PRIVATE LIMITED	U63090MH2000PTC127836
197	MIRA SHELTERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2004PTC147091
198	PEOPLE FIRST LEARNING SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U80903MH2005PTC154699
199	ENTROPY ENERGY SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2005PTC156640
200	ELUSIVE PIXEL PRIVATE LIMITED	U72200MH2006PTC163554
201	KOSMIC RAYS HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140MH2006PTC164658
202	EMCA BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1980PTC023403
203	PARKIN EXIM (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC092852
204	UMIYA HOUSING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U70100MH2002PTC136427
205	CHANDAN FURNITURE PRIVATE LIMITED	U36100MH2004PTC150017
206	GANORI FARM PRIVATE LIMITED	U01110MH1950PTC010477
207	GANORI SHETI PRIVATE LIMITED	U01110MH1950PTC010496
208	NACOSI FABRICS PRIVATE LIMITED	U65990MH1974PTC017326
209	AMIKANCHAN FINANCE PVT LTD	U65910MH1987PTC042490
210	H JOSHI ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U29130MH1992PTC068421
211	SWAGAT AUTO-SERVICES PRIVATE LIMITED	U51900MH1993PTC073625
212	MULTI BOARD PRIVATE LIMITED	U21029MH1994PTC076472
213	TREADSTONE COMPUTERS LIMITED	U72900MH1994PLC077035
214	POINTER IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH1996PTC097105
215	CRD HOLDING PRIVATE LIMITED	U67120MH2001PTC133075
216	VISION MARINE PRIVATE LIMITED	U63090MH2004PTC146387
217	AUTHENTIVA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72100MH2005PTC155059
218	STCI INSURANCE DISTRIBUTION LIMITED	U74999MH2007PLC167966
219	MENOKIS MACHINERY COMPANY PRIVATE LIMITED	U99999MH1983PTC029770
220	RAMESH KULKARNI COMMUNICATIONS PVT. LTD.	U74300MH1989PTC052368
221	SHAHI MASALA PRIVATE LIMITED	U99999MH1990PTC055899
222	KOTHARI SAFETY VAULTS LOCKERS AND SECURITY COM PRIVATE LIMITED	U65920MH1992PTC068411
223	HONDA FINECHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24210MH1993PTC073631
224	EASTAR ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U99999MH1994PTC082767
225	RAY CARGO MOVERS LIMITED	U22221MH1998PLC114581
226	M A STOCK BROKING PRIVATE LIMITED	U67120MH2000PTC129127
227	SAI SIDDHESH LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63090MH2004PTC147056
228	REGAL INSULATOR PRIVATE LIMITED	U28920MH2005PTC156095
229	COMPASS WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74140MH2001PTC131548
230	FRESHEN-UP PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U24249MH2006PTC160950
231	VOLKMANN MACHINES PRIVATE LIMITED	U29261MH2007PTC174544
232	SUBSTANCE CINEMA PRIVATE LIMITED	U92120MH2008PTC180417
233	SAONER ADARSHA SHETI PRIVATE LIMITED	U99999MH1950PTC010480
234	METAMIN CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24110MH1980PTC022948

235	PRAYAGA PROPERTIES AND TRADERS PRIVATE LIMITED	U70110MH1988PTC048297
236	PARIHAR ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1988PTC049689
237	JAYKETAN NON-WOVEN INDUSTRIES LIMITED	U17297MH1989PLC052385
238	ELITE LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1989PTC053937
239	APPLE INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED	U80300MH1990PLC057061
240	MEGHNA EXPORTS (BOMBAY) PVT LTD	U51900MH1992PTC064878
241	AGNI CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24100MH1992PTC066800
242	PRUDENT TAX CONSULTANTS PVT.LTD.	U74100MH1993PTC073923
243	PARITOSH PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U99999MH1994PTC082141
244	SHALINI ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U29223MH1995PTC086103
245	HARSHIT FILMS PRIVATE LIMITED	U85910MH1995PTC090927
246	JAI TULJABHAVANI OXYGEN PRIVATE LIMITED	U40200MH1995PTC095195
247	IMPACT HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U65990MH1996PTC096049
248	ANGEL RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101MH1996PTC104335
249	STRATUS CONSULTING GROUP PRIVATE LIMITED	U74140MH1997PTC111970
250	GRISHMA CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24110MH1999PTC117834
251	NOVA FLAVOURS AND FRAGRANCES PRIVATE LIMITED	U15130MH1999PTC121844
252	ABHILASHAA SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1999PTC123086
253	INFRA RED MUSICIANS PRIVATE LIMITED	U92100MH2000PTC125228
254	MIRACLE ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC127581
255	VECTOR INFO BASE LIMITED	U72200MH2000PLC128798
256	ACHREKARS MOTEL PRIVATE LIMITED	U55101MH2003PTC141456
257	MAXVAL AUTOMATION PRIVATE LIMITED	U28990MH2003PTC141938
258	ENHANCE SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72200MH2004PTC146372
259	SANJIVANI PHYTOPHARMA PRIVATE LIMITED	U24230MH2005PTC157364
260	OPAL AGROTECH PRIVATE LIMITED	U01100MH1999PTC119760
261	NUCLEUS SITES INDIA PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC127455
262	VAISHNAVI TOURISM SERVICES PVT LTD	U63040MH2006PTC160088
263	GADA & HARIA LIFE SECURE PRIVATE LIMITED	U65999MH2006PTC164358
264	AMRAVATI ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED	U15311MH1980PTC022783
265	SIMSONS PETROCHEMICALS LTD	U24130MH1986PLC041980
266	PALMS HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1994PTC080783
267	KELKAR MOTELS PRIVATE LIMITED	U55101MH1995PTC085149
268	AMBERNATH COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	U92100MH1996PTC096297
269	SWEETHOME PALACE PRIVATE LIMITED	U70100MH1996PTC096429
270	MAXIS DIGITAL DESIGNING INDIA COMPANY PRIVATE LIMITED	U72200MH1998PTC115435
271	VICTORIA TELETECH PRIVATE LIMITED	U64200MH2003PTC140971
272	AGELONG CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2004PTC147071
273	NOTES AND REPORTS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2005PTC157354
274	NOSHEVA REALTY PRIVATE LIMITED	U70100MH2005PTC157886
275	EMERGENT SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72200MH1999PTC120236
276	MAHARAO TRADING PVT LTD	U51900MH1985PTC035960
277	SHRUJIT STEEL COATS PRIVATE LIMITED	U27100MH1988PTC046044
278	AARESS RESOURCES CONSULTANTS PVT LTD	U74140MH1988PTC048721
279	SUCHAM FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1990PTC055380
280	OPTIMUM SERVICES INDIA P.LTD.	U51505MH1993PTC075145
281	READYMONEY STOCK SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC089425
282	SEA QUEEN TRADINVEST PRIVATE LIMITED	U51900MH1997PTC107801
283	SURENDRA FINE FAB PRIVATE LIMITED	U17110MH1999PTC121068
284	SHRI VYANKTESH HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED	U85110MH2002PTC138000
285	GALLERIA ETHNICA INDIA PRIVATE LIMITED	U92140MH2004PTC144681

286	JBS POLYMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U24134MH2006PTC160908
287	ENCORA CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED	U74140MH2006PTC162719
288	BHILWARA EXPORTS PVT LTD	U51900MH1982PTC026464
289	MULTIFORM INVESTMENTS PVT LTD	U65990MH1985PTC036067
290	TARA CONSULTANCY AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH1986PTC039319
291	NOJHK MARKETING PVT LTD	U51900MH1986PTC039997
292	UNICORN APPLIANCES PVT LTD	U99999MH1987PTC044633
293	AFTEK SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U51900MH1987PTC044828
294	SPARKWIN EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	U29299MH1990PTC057997
295	MELODY MUSIC (INDIA) PVT LTD	U92190MH1992PTC065368
296	SUNRAYS OFFSHORE SERVICES PVT LTD.	U62040MH1993PTC070378
297	MERIT COMMERCIAL CREDITS LIMITED	U74999MH1993PLC070571
298	PRISM BROKING HOUSE LIMITED	U65990MH1993PLC075439
299	SKY INTERMEDIATES P.LTD.	U67120MH1994PTC079246
300	NABCO INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC084510
301	M K DURA TOOLS PRIVATE LIMITED	U29220MH1995PTC085701
302	WINDFALL SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC087019
303	GUJRAT FOREIGN TRADE SERVICES LIMITED	U74100MH1995PLC089859
304	DHOOT MOTOR FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED	U65900MH1995PTC090752
305	ADVANCED AND BASIC COMPUTING PRIVATE LIMITED	U30007MH1995PTC092052
306	KRNEE KALIKA ELECTRONICS AND ELECTRICALS PRIVATE LIMITED	U31100MH1996PTC098205
307	KLI SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1996PTC101996
308	DREAM SAVINGS & FINANCE LIMITED	U65190MH1996PLC103951
309	SUKHSANGAM TRADERS PRIVATE LIMITED	U51900MH2000PTC124558
310	PORT TERMINAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U63090MH2000PTC127791
311	FINER DIMENSIONS PRIVATE LIMITED	U92132MH2001PTC132392
312	SMART DEAL (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51909MH2002PTC134535
313	KHAMGAON SYNTAX INDIA LIMITED	U17111MH2002PLC136301
314	V-SOURCE SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72200MH2002PTC137734
315	TIRUMALA ELECTRICALS AND EXCAVATION PRIVATE LIMITED	U74999MH2005PTC155552
316	FACET FINANCIAL SERVICES PVT LTD	U65910MH2006PTC159268
317	LUSTER EXIM LIMITED	U51310MH2007PLC170927
318	INDUSILS CHEM-TECH PRIVATE LIMITED	U24100MH2008PTC178106
319	TAO BUSINESSES PRIVATE LIMITED	U51900MH2008PTC178988
320	JHIKRI EXPORTS PRIVATE LIMITED	U99999MH1982PTC026409
321	SHAHANI AGENCIES PRIVATE LIMITED	U63010MH1982PTC028634
322	PICASSO INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1983PTC030777
323	KUNAL MEDICAL GASES PRIVATE LIMITED	U40200MH1992PTC066137
324	GAOKARI AGRO PRODUCTS LTD	U01110MH1993PTC075048
325	RIGHT COMPUTER SERVICES P LTD	U72900MH1994PTC076290
326	VAMS PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC087826
327	FIRE END EQUIPMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U99999MH1995PTC091330
328	SHANTA LEASING AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED	U65910MH1995PTC094290
329	BADAL PACKAGING PRIVATE LIMITED	U28129MH1996PTC096402
330	APURVA COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	U92100MH1996PTC104043
331	ROLLIN BOWLIN AMUSEMENT PARK PRIVATE LIMITED	U92199MH1998PTC113897
332	CHITRAKOOT AGRO PRODUCTS INDUSTRIES COMPANY PRIVATE LIMITED	U15490MH1998PTC115776
333	ALFA MICROSOFT PRIVATE LIMITED	U72900MH1999PTC123096
334	SUNBRIGHT MARKETING PRIVATE LIMITED	U51900MH2000PTC124194

335	NAGAR THATTA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2001PTC132090
336	XL IMAGING PRIVATE LIMITED	U22200MH2004PTC147733
337	SHERU IMPEX PRIVATE LIMITED	U51311MH2001PTC131413
338	DOLPHIN INTERNATIONAL RISK SERVICES LIMITED	U11101MH2005PLC158459
339	CARE ONLINE INDIA PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC176341
340	MULTI COLOURS JEWELS EXPORTS PRIVATE LIMITED	U39912MH1978PTC028864
341	MIRAJ PROPERTIES & TRUSTEESHIP SERVICES PRIVATE LIMITED	U70100MH1981PTC024413
342	NIPURA EXPORTS AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1982PTC027443
343	QUARTO LEASING AND FINANCING PVT LTD	U65921MH1983PTC030728
344	SABOO CHEMICALS PVT LTD	U24110MH1984PTC034575
345	POUSH ADEVERTISING PVT LTD	U74300MH1986PTC039736
346	TRANS MEDIA (BOMBAY) PRIVATE LIMITED	U22100MH1986PTC040182
347	MISURA MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U99999MH1987PTC045173
348	SRI BHARATHI ELECTRONIC INDUSTRIES LIMITED	U32109MH1987PLC045586
349	VIKITA FINANCE PRIVATE LIMITED	U65920MH1988PTC048463
350	NUSRATH SHIPPING PRIVATE LIMITED	U63090MH1988PTC048504
351	SHERWOOD SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U32108MH1989PTC051013
352	HALBE CONSULTANTS P. LTD.	U74140MH1989PTC052880
353	ASHWITH FINANCE AND INVESTMENT P LTD	U65990MH1991PTC059793
354	GMH AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED	U51220MH1991PTC064197
355	TAMASA TRADING PRIVATE LIMITED	U51900MH1992PTC069749
356	DWARIKA TRAVELS PVT LTD	U63040MH1993PTC072199
357	DIUEL PROJECT SERVICES PRIVATE LIMITED	U99999MH1994PTC076458
358	RATHI CASSETTES COMPANY P.LTD.	U32305MH1994PTC077223
359	PHOTO-KINA GRAPHICS PRIVATE LIMITED	U74999MH2004PTC079107
360	PRABHAT LABORATORIES PRIVATE LIMITED	U51200MH1994PTC079414
361	MILLENIUM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH1994PTC082057
362	ANERI INVESTMENT AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC084634
363	PAMANEXY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC087916
364	VJEX IMPORTS PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC088406
365	MURTY INVESTMENTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U65921MH1995PTC088949
366	VULCAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC088957
367	SANJAY FINANCE AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U65923MH1995PTC090432
368	RAVRAJ FINANCE LIMITED	U65923MH1995PLC091960
369	GHURA IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC093383
370	GAUTAM GRAPHICS PRIVATE LIMITED	U22219MH1996PTC100327
371	I P NAVIGATION PRIVATE LIMITED	U60100MH1997PTC108851
372	BOMBINO MUSIC ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U32300MH1997PTC109198
373	PAMDEEP TRADERS PRIVATE LIMITED	U51900MH1998PTC116934
374	CALDOL MINERALS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U13000MH1999PTC118063
375	RAJPUT TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17100MH1999PTC120973
376	ANURAG REALTORS PRIVATE LIMITED	U70100MH2000PTC124195
377	THRESHOLD RETAIL MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140MH2000PTC128965
378	VARMALA INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC129613
379	SANTRONIX COMPUTERS PRIVATE LIMITED	U72300MH2000PTC129727
380	PR SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72200MH2001PTC130374
381	THIRU VENKATESA EXIM PRIVATE LIMITED	U85190MH2002PTC135573
382	JIMMY JIB CINE EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	U71309MH2003PTC143010
383	FACT COMMODITIES AND DERIVATIVES PRIVATE LIMITED	U51909MH2003PTC143093
384	SAMARTH REFERRAL LAB PRIVATE LIMITED	U85195MH2004PTC144739

385	FAGERDALA INDIA PRIVATE LIMITED	U24130MH1998PTC147008
386	TEEM ANAESTHESIA PRIVATE LIMITED	U85110MH2005PTC150655
387	SNAP ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U31200MH2006PTC159626
388	ACME LEISURE AND TOURS PVT LTD	U63040MH2006PTC164971
389	PAR NETWORK PRIVATE LIMITED	U72900MH2006PTC163274
390	SYNECTICS ARCHITECTURAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74210MH2006PTC166412
391	JAFZA BANGALORE BUSINESS PARK (INDIA) PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC166586
392	SYNECTICS LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63090MH2008PTC179374
393	LEA ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U27100MH2004PTC013533
394	SUNDER LEASING PVT LTD	U65990MH1986PTC039295
395	DOORDARSHI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1986PTC039337
396	BANGUR AGRO-TEX PVT LTD	U17100MH1987PTC044499
397	DATWANI MOTELS PRIVATE LIMITED	U55101MH1989PTC053321
398	PARADISE LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45202MH1989PTC054492
399	SUPERFINE PLASTO ENGINEERING LIMITED	U25200MH1991PLC060603
400	SHAKTI INTERPLAST ENGINEERING LIMITED	U99999MH1991PLC060725
401	ANUSWHA TRADING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1994PTC082353
402	TRAFALGAR FINLEASE PRIVATE LIMITED	U65910MH1994PTC082634
403	SEIKO-NAHAR PLASTO PRIVATE LIMITED	U25200MH2004PTC084702
404	FLYCO TRAVEL SERVICES PRIVATE LIMITED	U63040MH1995PTC090163
405	SATPRATAP INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC090570
406	LIMPA HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U65990MH1995PTC091605
407	SEVA LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U65910MH2004PTC092088
408	TOTAL SOLUTIONS DECISION SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC095050
409	SWEEKAR TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51900MH1996PTC096190
410	MAN B AND W DIESEL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74210MH1996PTC100548
411	AKOLA MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U65920MH1997PTC110637
412	YASHODHAN DEVELOPERS AND REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70100MH1997PTC111274
413	RAJASTHAN STEEL TRADERS PRIVATE LIMITED	U51498MH1998PTC117281
414	AMEET IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED	U51900MH2001PTC132493
415	SONATA MARKETING PRIVATE LIMITED	U51393MH2005PTC153737
416	CANDEO CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140MH2005PTC153809
417	DELECTADO FOODS AND RESTAURANTS PRIVATE LIMITED	U55101MH2005PTC154103
418	INSIGHT EXAMINATIONS SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED	U67190MH2006PTC159418
419	TRIPLE NINE INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U67190MH2006PTC161900
420	PRIYADARSHANI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45203MH2007PTC170730
421	KAIRO INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC174577
422	SUVIDHA CHEMICALS PVT LTD	U24110MH1986PTC038715
423	SUNDER DISTRIBUTORS PVT LTD	U51391MH1993PTC072334
424	PARR MARKETING AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U99999MH1995PTC086516
425	HOLDENTRUST FINANCE PRIVATE LIMITED	U65900MH1995PTC091946
426	SONKHAR COACH BUILDERS PRIVATE LIMITED	U34200MH1995PTC094781
427	MARIGOLD TRUSTEE LIMITED	U91990MH1997PLC109318
428	CYBERGATE TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U30200MH1999PTC121814
429	NAMS SHIPPING PRIVATE LIMITED	U35100MH2004PTC146817
430	TRACEBIT MOBILE SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72900MH2004PTC147176



431	STARTRACK ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED	U27100MH2005PTC152023
432	AHLUWALIA NAVANI BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45102MH2005PTC157166
433	S R CHEMICALS AND POLYMERS PRIVATE LIMITED	U24130MH2005PTC157360
434	SAIPREM PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC167876
435	ACTION FORCE PAINTBALL PRIVATE LIMITED.	U92412MH2007PTC176798
436	SOLID ERECTION REALTY AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC179774
437	NANAVATI INDUSTRIAL FOOTWEAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U19200MH1970PTC014531
438	BONAFIDE CHEMICALS PVT LTD	U99999MH1987PTC045328
439	DHAMMA FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED	U65990MH1991PTC059961
440	SAI PRECISION COMPONENTS PVT LTD	U27100MH1992PTC068934
441	INFOBASE SOFTWARE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U72200MH1994PTC081301
442	PRAJAPATI ORCHIDS LIMITED	U70100MH1996PLC098182
443	ADZONE NETWORK PRIVATE LIMITED	U74300MH2000PTC128383
444	GURUDEV INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC130535
445	SHREE SAMARTHA MEDICARE SERVICES PRIVATE LIMITED	U85100MH2005PTC154415
446	TACKER PRETLINES LIMITED	U52322MH2005PLC157458
447	M K CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH2000PTC127425
448	BHARAT FRUITS PRIVATE LIMITED	U51221MH2006FTC162734
449	EURO REALITY PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC166792
450	MAINSTAR SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC171457
451	RAINBOW SYNTHETICS LIMITED	U17120MH1989PLC052165
452	ISHAAN CONSORTIUM PRIVATE LIMITED	U51900MH1990PTC057209
453	RUHI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U70101MH1993PTC075212
454	DIAMPEX FINANCIAL SERVICES LIMITED	U65923MH1995PLC085739
455	SEVA SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC091559
456	SUMUKI SECURITIES PRIVATE LIMITED	U65990MH1995PTC091606
457	SAMPAT FOREX PRIVATE LIMITED	U74999MH2005PTC151325
458	IDOL CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	U45200MH2005PTC157451
459	RASHMI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U65929MH2006PTC159464
460	DE SOUZA BEST TELECOM PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC168609
461	G.H.S. CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140MH2003PTC168004
462	AMARJOTI SALES AND AGENCIES PRIVATE LIMITED	U99999MH1969PTC014448
463	SUNDARVAN FARM AND RESORT PVT LTD	U15200MH1986PTC041659
464	SHERBROOK INTERNATIONAL PVT LTD	U51900MH1987PTC044475
465	GANGAL COMPUTERS PRIVATE LIMITED	U72100MH1988PTC049598
466	PROFICIENT SECURITIES PVT.LTD.	U67120MH1992PTC065993
467	PRAKALP INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1994PTC076257
468	NUDENT DENTAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U33112MH2002PTC076850
469	BIG KIDS TOYS P.LTD.	U36940MH1994PTC078131
470	RADISON EXECUTIVE HOTELS PRIVATE LIMITED	U45202MH1994PTC082625
471	BANWARILAL MARKETING PRIVATE LIMITED	U51900MH1994PTC083276
472	MUTRAL LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U65921MH1995PTC095408
473	BELMONT TYRES PRIVATE LIMITED	U25119MH1996PTC101232
474	NEHA CARGO PRIVATE LIMITED	U63010MH1996PTC102085
475	SWING CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	U36930MH1997PTC107734
476	UNITED MARITIME BUREAU OF INDIA LIMITED	U63090MH1998PLC112942
477	JAL SHAKTI SHIPPING AND SHIPBUILDING PRIVATE LIMITED	U35110MH1998PTC117459
478	GAYATRI INTERIOR PRIVATE LIMITED	U74994MH1999PTC118214
479	A G KONSULTANTS (ENGINEERS) PRIVATE LIMITED	U74210MH1999PTC118572

480	SYCN-G CARE MARKETING (INDIA) LIMITED	U51900MH2000PLC128924
481	RADIANCE SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH2001PTC131141
482	CROSSECOM (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72200MH2003PTC140738
483	BODYSPORE HEALTH AND FITNESS PRIVATE LIMITED	U92411MH2003PTC142877
484	DEDICATED CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH2004PTC143960
485	SMA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC147328
486	SAMARTHA MARITIME PRIVATE LIMITED	U35100MH2004PTC147828
487	AKHAND ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED	U92100MH2004PTC148597
488	LIHAR ORGANIC PRIVATE LIMITED	U24230MH2005PTC151585
489	SIGPRO SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72200MH2005PTC152093
490	UNISTAR MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED	U63000MH2005PTC156543
491	ROLEX HYGIENE PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U24240MH2005PTC156726
492	IDOL HOMES CREATORS PRIVATE LIMITED	U45200MH2005PTC157450
493	OLIVOTTO-FERRE-HARVE FURNACES PRIVATE LIMITED	U29130MH2006PTC160834
494	NCH TRADING PRIVATE LIMITED	U51900MH2006PTC161422
495	MAXTRONICS APPLIANCES PRIVATE LIMITED	U52399MH2007PTC166950
496	PACKAGING BUSINESS VISION PRIVATE LIMITED	U28129MH2007PTC169583
497	CREST & CENTURIAN CAPITAL MARKET PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC168969
498	DHARA CREDIT CAPITAL LIMITED	U67120MH1995PLC034826
499	KARNIK-TIPNIS PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH1995PTC096937
500	AAJINKYA STEELS PRIVATE LIMITED	U27100MH2005PTC154516
501	B A PATEL PROPERTY DEVELOPERS (BARODA) PVT LTD	U70100MH1993PTC070813
502	EVOLUTION HOLDINGS PVT LTD	U67120MH1993PTC070864
503	RARITY EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51900MH1994PTC076227
504	HERAMB TECHNO CRAFTS PRIVATE LIMITED	U99999MH1994PTC083353
505	PRATAP INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72900MH1999PTC120687
506	N K HOUSING PRIVATE LIMITED	U45200MH2003PTC139384
507	PAM CREDIT AND VERIFICATION SERVICES PRIVATE LIMITED	U65929MH2005PTC153895
508	TAPI FOODS PRIVATE LIMITED	U15300MH2005PTC153396
509	MITSUMI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1988PTC045925
510	COMPOSITE LEASING AND FINANCIAL SERVICES PVT LTD.	U65920MH1989PTC051253
511	ELIXIR PROFESSIONAL SERVICE PVT LTD	U74140MH1993PTC070860
512	ARCOPAL DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC090424
513	BRIGHTWAY COMMERCIALS PRIVATE LIMITED	U53320MH1996PTC098002
514	ELITE AUXILIARIES PRIVATE LIMITED	U30009MH1998PTC115282
515	MILAN TECHNO PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC128131
516	PAL AIR SERVICES PRIVATE LIMITED	U63000MH2004PTC148855
517	GELATOMANIA COMPANY PRIVATE LIMITED	U15205MH2005PTC153945
518	ORIGIN STEELS PRIVATE LIMITED	U27100MH2005PTC154515
519	FOYER CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U51496MH1998PTC116588
520	KIPASH EXPORT INDIA PRIVATE LIMITED	U51221MH2004PTC144284
521	TEECHEE TRADING PRIVATE LIMITED	U74999MH1982PTC028365
522	SCANALYSE BUSINESS RESEARCH P.LTD.	U74140MH1994PTC076952
523	ENSURE HEALTH CARE P.LTD.	U92411MH1994PTC077471
524	MARBRO MARKETING PRIVATE LIMITED	U51900MH1994PTC079288
525	NAMITA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH1995PTC035290
526	PURTI STARCH AND GLUCOSE LIMITED	U15118MH2001PLC132305
527	FORTUNE ALCO BREW PRIVATE LIMITED	U15530MH2003PTC141613
528	KANTA TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17110MH2003PTC141603
529	FAST TRACK CALL CENTRE SERVICES PRIVATE LIMITED	U65999MH2005PTC153694



530	WONDERFUL STEELS PRIVATE LIMITED	U27100MH12005PTC154564
531	CITA LIMITED	U99999MH1986PLC012565
532	FAKIRBHAI PATEL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1980PTC022481
533	TEMPLITE GLASS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U26100MH1985PTC036397
534	NEHAL IMPORTS PVT LTD	U51900MH1986PTC041224
535	FUTURENOW OFFICE SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U74994MH1989PTC052342
536	ANUPAM SOFTWARE DEVELOPMENT AND ONLINE TRADING PVT LIMITED	U72200MH1990PTC055783
537	ANIL IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH1990PTC055954
538	DHUN MAHAL TRAVEL PRIVATE LIMITED	U63040MH1990PTC056639
539	NAGPUR HEAVY ELECTRICAL TRANSFORMERS PVT.LTD.	U31200MH1992PTC065313
540	MODEL'S PLUS CORDINATING AND PUBLISHING COMPANY PRIVATE LIMITED	U74999MH1994PTC082201
541	COMPUTER STATION AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U80222MH1995PTC084334
542	WESTERN INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U72900MH1995PTC084683
543	PRISTINE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH1995PTC085084
544	BLUE VALLEY ESTATES PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC091029
545	KANDE CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH1995PTC091612
546	INDO-THAI PROPERTY HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U65990MH1995PTC091917
547	NEW CONCEPTS STEEL FABRS LIMITED	U27100MH1995PLC093271
548	GOLDFACE PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH1995PTC093399
549	KENWOOD REALTORS AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U45201MH1995PTC094163
550	SHELTERS ARCHITECTURAL DESIGNS PRIVATE LIMITED	U74210MH1995PTC095282
551	AKAI PETROLEUM LIMITED	U23209MH1995PLC095547
552	HIMSONS IMPEX PRIVATE LIMITED	U51200MH1996PTC096037
553	TALDHVAJ FINLEASE PRIVATE LIMITED	U65920MH1996PTC096485
554	VASTU NIRMITI SAMUHA PRIVATE LIMITED	U45200MH1996PTC103431
555	JP LANDMARKS PRIVATE LIMITED	U70100MH1997PTC107036
556	S.K. INDUSTRIES LIMITED	U17110MH1997PLC107651
557	MAYUR SULPHUR CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24210MH1997PTC109156
558	TIRUPATI LEISURE & HOSPITALITY LIMITED	U63040MH1997PLC112706
559	GALAXY MARINE LIMITED	U61100MH1999PLC120483
560	SCOTT AGENCIES PRIVATE LIMITED	U51900MH1999PTC121232
561	DEEPAK PETERS DESIGN PRIVATE LIMITED	U74999MH2002PTC135335
562	ON DOT PUBLICITY (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74300MH2002PTC136479
563	GOLDMAN SACHS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2002PTC138327
564	LAKHAI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2004PTC149903
565	SMART LEARNING PRIVATE LIMITED	U60903MH2004PTC146629
566	TRANS OCEAN DISTRIBUTION (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51502MH2004PTC149083
567	ORBUS PHARMA INDIA PRIVATE LIMITED	U51397MH2004PTC149443
568	JAYRAJ AGRO PRIVATE LIMITED	U01100MH2005PTC150494
569	CACHET REALTORS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U70100MH2005PTC151766
570	SANGINI TRADEPLACE PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC152306

571	SHAH AND SANGHVI AGRO PRIVATE LIMITED	U01100MH2005PTC152442
572	VERTEX TECHNO-INSTRUMENT INDIA PRIVATE LIMITED	U31900MH2005PTC153833
573	NKH PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH2005PTC156630
574	DAWNAY DAY HOTEL BANGALORE PRIVATE LIMITED	U55101MH2006PTC163203
575	ABHA CREATIONS PRIVATE LIMITED	U27205MH2006PTC165341
576	A4A CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC170122
577	SONA ENERGY AND INFRASTRUCTURE LIMITED	U40104MH2008PLC179824
578	HIRANANDANI HOUSING NASHIK SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U70102MH2008PTC180369
579	SEA-FACE INVESTMENT AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U99999MH1987PTC044860
580	CONCEPT PETROLEUM LIMITED	U23200MH1988PLC049752
581	COMFIN CONSULTANTS PVT. LTD.	U72200MH1989PTC052381
582	SUPERPLAZA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC150198
583	VIRTUAL VALLEY STUDIOS PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC171397
584	VITAL ORGANICS PRIVATE LIMITED	U99999MH1973PTC016626
585	BALALI BONDS AND HOLDINGS LIMITED	U65990MH1982PLC026129
586	G V R ESTATES PVT LTD	U45200MH1982PTC027386
587	MAHNT INVESTMENTS PVT LTD	U65990MH1982PTC028084
588	BHORUKA CONSULTANTS PVT LTD	U99999MH1983PTC031317
589	BIPIN INDUSTRIES STEEL PVT LTD	U27100MH1984PTC033216
590	VIMO ELECTRONICS INDUSTRIES PVT LTD	U31900MH1986PTC039971
591	IVORY HOLDING AND LEASING LIMITED	U99999MH1986PLC041452
592	KHULLAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH1988PTC046140
593	OM EXHIBITORS AND DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U92100MH1988PTC047573
594	GALAXY PAPER BOARDS PVT LTD	U21010MH1989PTC054391
595	ARDENT SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U99999MH1990PTC056178
596	MEFALI FIBRES LIMITED	U99999MH1991PLC061349
597	KARNAVAT CREATIONS PRIVATE LIMITED	U74140MH1991PTC063539
598	SHREEPATI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1992PTC065224
599	KAPILVASTU MILK AND AGRO INDUSTRIES LTD	U01110MH1992PLC069380
600	HURRICANE EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51311MH1993PTC072670
601	MANS PRINT LIMITED	U22219MH1994PLC077247
602	SAM CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U65990MH1994PTC081357
603	VISHWAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U99999MH1994PTC083547
604	BELVEDER DEVELOPERS AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45203MH1994PTC084041
605	THAKKAR DWELLERS (NEW BOMBAY) PRIVATE LIMITED	U45201MH1995PTC085617
606	MAHAJAN RESORTS AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U55200MH1995PTC086178
607	SHREE BALAJI SALES TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51396MH1995PTC086332
608	ALPHA GOLD PRIVATE LIMITED	U36911MH1995PTC088789
609	JEEVANDEEP FISCAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U65920MH1995PTC089742
610	SATPRATAP HOSPITALS PRIVATE LIMITED	U85110MH1995PTC090569
611	PENTRA AIR SERVICES PRIVATE LIMITED	U63000MH1996PTC097343
612	ABHIRUCHI FINVEST PRIVATE LIMITED	U65990MH1996PTC100020
613	BAPNA FINANCE (INDIA) LIMITED	U65921MH1997PLC105774

614	AQUALINE FREIGHT LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U99999MH1997PTC106852
615	SONKI JEWELLERS PRIVATE LIMITED	U36911MH1997PTC107839
616	BAPNA CONSULTANCY SERVICES (INDIA) LIMITED	U74140MH1997PLC108821
617	SPACETECH SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U73100MH1998PTC112865
618	MOTHERINDIA INFANTCARE PRODUCTS LIMITED	U74999MH1998PLC116907
619	KHANDELWAL CLASSES PRIVATE LIMITED	U52321MH1999PTC117887
620	EARTHMETAL ELECTRICALS PRIVATE LIMITED	U31200MH1999PTC120824
621	ALAG DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201MH2000PTC123997
622	SUYOG INFOTECH AND DATACOM PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC126589
623	GLAMOR GEM INDIA PRIVATE LIMITED	U51909MH2001PTC133320
624	SOHAM ENERGY AND FUEL PRIVATE LIMITED	U40100MH2003PTC138685
625	HAKIMS DISPLAYS MUMBAI PRIVATE LIMITED	U74300MH2003PTC139061
626	SUPERCON EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	U51397MH2003PTC139122
627	FREEMIND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92130MH2003PTC141811
628	SHREEHARI ELECTRIC COMPANY LIMITED	U40100MH2004PLC144038
629	NEEL-TEJ TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED	U63040MH2004PTC144520
630	DRIESASSUR INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U67200MH2004PTC148529
631	KAILASH PARBAT RESTAURANTS PRIVATE LIMITED	U55101MH2005PTC150551
632	THREE STAR HOTEL AND RESORT PVT LTD	U99999MH2006PTC159514
633	DAWNAY DAY HOTELS HYDERABAD PRIVATE LIMITED	U55101MH2006PTC164163
634	DOGRA EAGLE RUBBER PRIVATE LIMITED	U25199MH2006PTC166333
635	MIGUN HEALTH & WELLNESS PRIVATE LIMITED	U51507MH2007PTC170942
636	SONA TRANSMISSION EQUIPMENTS COMPANY PRIVATE LIMITED	U31908MH2007PTC177010
637	DUHIRA EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51900MH1980PTC022897
638	SIMON EXPORTS PRIVATE LIMITED	U18101MH1982PTC028313
639	SPLASH TRADING AND INVESTMENTS PVT LTD	U51900MH1984PTC034832
640	KARMER PHARMACEUTICALS PVT LTD	U24200MH1986PTC039972
641	PEERS IMPEX PVT LTD	U51900MH1989PTC051670
642	SHARP TWIST DRILLS PVT LTD	U29220MH1991PTC060709
643	MOHIT ENGINEERING P.LTD.	U74210MH1992PTC064771
644	BHAKTAMBER INVESTMENTS COMPANY PVT.LTD.	U65990MH1992PTC066164
645	P AND P INDUSTRIES LIMITED	U21010MH1992PLC068885
646	SAMUTKARSH FINANCE AND MANAGEMENT SERVICES P.LTD.	U65920MH1994PTC078421
647	MODERN MANAGEMENT COUNSEL (EXECUTIVE PLACEMENTS) PRIVATE LIMITED	U74140MH1995PTC086101
648	DEVNIKA PRIVATE LIMITED	U24241MH1996PTC096343
649	JITLAL RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101MH1996PTC103708
650	ASPEN MANAGEMENT AND COUNSELS PRIVATE LIMITED	U74140MH1996PTC103958
651	NODS CONSULTING PRIVATE LIMITED	U72900MH1998PTC113385
652	JAIN HOMECARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U24240MH1998PTC116243
653	MAHALAXMI FINANCES AND TRADING (INDIA) PRIVATE LIMITED	U65921MH1999PTC121649
654	SANKALPAN SOFTWARE SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC125922
655	CONTENTSCAPE INDIA PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC127868
656	SARVOTTAM HOSPITALS PRIVATE LIMITED	U85110MH2000PTC129281
657	EZEEGO TRAVELS LIMITED	U63040MH2000PLC129339
658	ANI IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51909MH2001PTC133853
659	DANAUTIC TECHNOLOGIES WORK PRIVATE LIMITED	U72900MH2003PTC140728
660	JAIN AND DESAI MARKETING PRIVATE LIMITED	U51909MH2003PTC141877

661	LUSARK SAFETY & RISK MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC149888
662	E B C TRADE SERVICES LIMITED	U52110MH2005PLC153943
663	M N M SAFETY PRIVATE LIMITED	U33100MH2005PTC154585
664	LEMON GRAFFITI PRIVATE LIMITED	U74300MH2005PTC156233
665	AARTI COATS PRIVATE LIMITED	U17110MH2005PTC156769
666	VENGURLEKAR AND HAJARE AGRO FARMS AND ESTATE PVT LTD	U99999MH2006PTC159658
667	DILMUL HEALTH & WEALTH LIMITED	U24110MH2007PLC167281
668	RALHAN REALTY PRIVATE LIMITED	U70102MH2007PTC166693
669	SHASHIKIRAN CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U99999MH1975PTC018199
670	B AND M SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH1977PTC019890
671	JMC MECHANICAL ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U99999MH1980PTC023399
672	PRABHAG INVESTMENTS PVT LTD	U65990MH1981PTC024202
673	PRAGATI BONDS AND HOLDINGS LIMITED	U65990MH1982PLC026130
674	KUNNUJ INVESTMENTS PVT LTD	U65990MH1982PTC028156
675	NATRAJ BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD	U70101MH1983PTC030639
676	RIM TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17110MH1984PTC034551
677	VECTOR CONSULTANTS PVT LTD	U74140MH1984PTC034658
678	SHREE SAMARTH CERAMIC INDUSTRIES PVT LTD	U26920MH1986PTC038766
679	GOODLUCK FINANCIAL MANAGEMENT AND COMPUTER CONSULTANTS PVT LTD	U65910MH1986PTC039514
680	PUJIT AND BROS FINANCE AND INVESTMENT LIMITED	U99999MH1986PLC039636
681	AMBITIOUS INVESTMENT AND FINANCE LIMITED	U41454MH1986PLC041454
682	TODAR ENGINEERS PVT LTD	U28920MH1987PTC042162
683	DEEJAY FOODS PVT LTD	U29195MH1987PTC043665
684	VINDHYA PETRO CHEMICALS LIMITED	U24294MH1987PLC043739
685	SPRINGS EXPORTERS PVT LTD	U51100MH1987PTC043897
686	VINAY CHEM-PACK UDYOG PRIVATE LIMITED	U25202MH1988PTC046221
687	GAUTAM BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U24200MH1989PTC050431
688	PLASTRON STEEL PRIVATE LIMITED	U27108MH1989PTC050585
689	PUSHPAM WINE MERCHANTS PRIVATE LIMITED	U51228MH1989PTC051466
690	AL-FAIZ ISLAMIC FINANCIAL AND INVESTMENT COMPANY (INDIA) LIMITED	U65920MH1989PLC052836
691	MAHUDI GEMS PRIVATE LIMITED	U52393MH1989PTC054808
692	SHREE SHAKTI ELECTROPLAST INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U51900MH1990PTC055063
693	HALOL ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED	U27200MH1990PTC055426
694	DISTINCT POLYMERS PRIVATE LIMITED	U25209MH1990PTC055556
695	PRAFULLA ORGANICS PRIVATE LIMITED	U24239MH1990PTC056042
696	TULIP CAPITAL SERVICES AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U65990MH1990PTC056498
697	MAJUMDAR INVESTMENT AND TRADING PRIVATE LIMITED	U65990MH1990PTC056748
698	ROAMONA INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U67120MH1990PTC057627
699	SHIRDI TRADING AND AGENCIES PRIVATE LIMITED	U51900MH1990PTC057746
700	NAREN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U55200MH1990PTC057765
701	MOROLIA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1990PTC057986
702	MAHESH PLANTATIONS AND AGRO INDUSTRIES PVT. LTD.	U01120MH1992PTC065743
703	GANGARAM EXPORTS PVT LTD	U51900MH1992PTC067679
704	EXPRESS COLOURCOM SYSTEMS LIMITED	U24114MH1992PLC068399
705	FRONTLINE IMPEX PVT LTD	U65990MH1993PTC073960
706	ASSOCIATED RICE MILLS PRIVATE LIMITED	U99999MH1993PTC074385
707	SKYNET WEB TV LIMITED	U80302MH1993PLC074689
708	SHANKER TECHNO CONSULTATION PRIVATE LIMITED	U74220MH1993PTC075752

709	NUCLEUS CAPITAL AND FINANCIAL SERVICES P.LTD.	U65990MH1994PTC076140
710	VAMRATAN SECURITIES AND LEASING PRIVATE LIMITED	U67190MH1994GAT078949
711	MAVICH MARKETING AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U65990MH1994PTC081868
712	SHALLOW AQUA FARMS PRIVATE LIMITED	U01110MH1994PTC081994
713	NETLINK COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U85200MH1994PTC082351
714	NUC FINANCIAL SERVICES AND MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1994PTC084188
715	SUPRA SECURITIES AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC085800
716	NEELKAMAL CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC086663
717	MITUL SULPHUR AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24211MH1995PTC088344
718	SPUTNIK OVERSEAS PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC089087
719	MIRA GHAR LEASING AND FINVEST PRIVATE LIMITED	U65980MH1995PTC090463
720	RASHIGA'S ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U29299MH1995PTC091556
721	DURGESHWARI INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U65990MH1995PTC091726
722	LAKHANI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U65920MH1995PTC092439
723	HONEYBEE LEASING AND FINVEST PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC092670
724	TDR FINANCE CORPORATION LIMITED	U65990MH1995PLC094984
725	ENPEE HOLDING PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC095383
726	M S M PAPER MILLS LIMITED	U25209MH1996PLC096961
727	SUNRISE TRAGENCY PRIVATE LIMITED	U23200MH1996PTC099570
728	BAGGA ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U28920MH1996PTC100158
729	DPJ INSURANCE SERVICES LIMITED	U65990MH1996PLC100745
730	BIG BEE INFOMEDIA LIMITED	U99999MH1996PLC102257
731	VFM HOUSING FINANCE LIMITED	U65921MH1997PLC106596
732	HOMEINDIA ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED	U30000MH1997PTC107612
733	GSL MARBLES PRIVATE LIMITED	U14100MH1997PTC108895
734	SRI RADHAKRISHNA FREIGHT FORWARDERS PRIVATE LIMITED	U63090MH1997PTC110064
735	KARAN SIDDHARTH REALTORS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1997PLC110537
736	MAVICH INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U67200MH1998PTC113086
737	RAINBOW LUBRICANTS LIMITED	U23200MH1998PLC113645
738	MEGHINI RESORT PRIVATE LIMITED	U70102MH1998PTC113648
739	INTECH PREFAB ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U28920MH1998PTC114067
740	ADARSH RURAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	U45203MH1998PTC117362
741	VAILANKANNY ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74140MH1999PTC118997
742	LAVLESH ALBAMA ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED	U29290MH1999PTC119779
743	VIJAYKUMAR AGENCIES PRIVATE LIMITED	U15511MH1999PTC122966
744	NK COMPUTER EDUCATION INDIA PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC124077
745	AR BUSINESS DEVELOPMENT LIMITED	U51900MH2000PLC124555
746	PANHEALTH.COM (INDIA) LIMITED	U72900MH2000PLC124916
747	INDIACONSULTS COM PRIVATE LIMITED	U72300MH2000PTC125442
748	CALL FOR INDIA TELECOM LIMITED	U72900MH2000PLC126420
749	AMBAJI MEDICAL AND TRAUMA SERVICES PRIVATE LIMITED	U85110MH2000PTC126577
750	VIMAL SPARES AND PARTS PRIVATE LIMITED	U28920MH2000PTC128442
751	KRISHNA CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH2000PTC128482

752	SUPERBYTE SOLUTION PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC128837
753	TIDAL DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED	U55100MH2000PTC129182
754	SAI UNIMALL PRIVATE LIMITED	U51399MH2001PTC130776
755	SHOPPING POINT DEPARTMENTAL STORES PRIVATE LIMITED	U52190MH2001PTC134222
756	MAHARAJA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45203MH2002PTC135302
757	TRANS REF AIRCONS LIMITED	U29191MH2002PLC136052
758	AAKASH ONBOARD COURIER PRIVATE LIMITED	U63000MH2002PTC137379
759	U K HYDRALICS AND SEALS PRIVATE LIMITED	U29120MH2002PTC138408
760	SAVITA APPARELS PRIVATE LIMITED	U18100MH2003PTC140491
761	PRINCE COATING (INDIA) PRIVATE LIMITED	U50909MH2003PTC141073
762	SHREE SAI EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51909MH2003PTC141374
763	TCG POPCORN MEDIA VENTURES PRIVATE LIMITED	U92110MH2003PTC142375
764	ARC SECURITIES COMPLIANCE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U67120MH2004PTC145828
765	FORTUNE ACCESSORIES INDIA PRIVATE LIMITED	U31909MH2004PTC145847
766	TECHNAMECH COMPONENTS INDIA PRIVATE LIMITED	U31909MH2004PTC145848
767	VIKING SWED-IND PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U24200MH2004PTC146700
768	RAJARAM MARKETING PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC146724
769	SMART MECHANICA ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED	U31909MH2004PTC146744
770	INWAY INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U67200MH2004PTC148900
771	RED ICE MOTION PICTURES PRIVATE LIMITED	U92110MH2004PTC150091
772	PARMARTH IMPEX PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC150180
773	REJUVENATE HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U85190MH2004PTC150249
774	HESHA CHEM PLAST PRIVATE LIMITED	U25200MH2005PTC150649
775	CHINCHOLI TEXTILES PARK LIMITED	U17120MH2005PLC153789
776	SENSUS INDIA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74130MH2005PTC154258
777	RADIANT FIRE PROTECTION COMPANY PRIVATE LIMITED	U29193MH2005PTC155302
778	NOEL PHARMA PRIVATE LIMITED	U24230MH2005PTC155415
779	TEKSEA INDIA PRIVATE LIMITED	U72100MH2005PTC155469
780	DIGI POLIS INDIA LIMITED	U55100MH2005PLC157635
781	JASPER JEWELS PRIVATE LIMITED	U36911MH2005PTC153351
782	SAHAR LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED	U63090MH2005PTC158287
783	EXPRESS LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED	U24233MH2006PTC162427
784	DAWNAY DAY HOTELS AMRITSAR PRIVATE LIMITED	U55101MH2006PTC164162
785	IFA GALLERY PVT LTD	U51909MH2006PTC164727
786	EXCELLENCE AVIATION ACADEMY PRIVATE LIMITED	U80301MH2006PTC165243
787	PURPLE FOUNTAIN RETAIL PRIVATE LIMITED	U51909MH2006PTC165356
788	VIRAT INFRASTRUCTURAL DEVELOPERS AND AGGREGATORS PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC167885
789	MRS FUEL SOLUTION (I) PRIVATE LIMITED	U51900MH2007PTC175313
790	IATRO MEDICAL SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2007FTC172510
791	URISHITA TRADING & PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC170252
792	SIDDHANT SYSCON PRIVATE LIMITED	U74140MH2007PTC173578
793	SCG INDIA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70102MH2007PTC175968
794	DAFFODIL INFO SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC172913
795	GALA OXIDE PRIVATE LIMITED	U24110MH2007PTC173703
796	PETROMIDAS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC174885
797	HIRANANDANI PANVEL SEZ CO-DEVELOPER 1 PRIVATE LIMITED	U45201MH2007PTC176252
798	ASHAPURA INDUSTRIAL PROJECTS PRIVATE LIMITED	U74999MH2008PTC179541

799	HIRCO AHMEDABAD SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U70102MH2007PTC176318
800	HIRANANDANI AHMEDABAD SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC176306
801	HIRCO CHENNAI SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U45209MH2007PTC176319
802	HIRANANDANI CHENNAI SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U45209MH2007PTC176307
803	HIRANANDANI IT PANVEL SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U45400MH2008PTC178095
804	HIRANANDANI UTILITY PANVEL SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U45201MH2008PTC178045
805	HIRANANDANI RETAIL PANVEL SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U45203MH2008PTC178222
806	HIRANANDANI HOUSING PANVEL SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC178224
807	HIRCO PUNE SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U70102MH2008PTC180368
808	HIRANANDANI HOSPITALITY PANVEL SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U70102MH2008PTC180371
809	HIRANANDANI ENTERTAINMENT PANVEL SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U92190MH2008PTC180364
810	HIRANANDANI RETAIL CHENNAI SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U52100MH2008PTC180379
811	HIRANANDANI UTILITY AHMEDABAD SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U70102MH2008PTC180373
812	HIRANANDANI UTILITY CHENNAI SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U70102MH2008PTC180374
813	FUUSIO LIFESTYLE PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC167165
814	VINCULUM GREY TRAINING RESOURCES PRIVATE LIMITED	U74140MH2005PTC150792
815	ZINC TRAVEL COMPANY PRIVATE LIMITED	U63040MH2005PTC152708
816	HIRANANDANI RETAIL AHMEDABAD SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U52100MH2008PTC180380
817	PINKDICE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1993PTC071571
818	PINK POT INVESTMENTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U65990MH1994PTC083717
819	MAHAVIR COMMERCE AND TRADE PRIVATE LIMITED	U72000MH2002PTC137679
820	ALGORITHMS COMPUTING LIMITED	U65993MH1981PLC023922
821	SUNRISE HOUSE MAKERS PRIVATE LIMITED	U70100MH1995PTC093834
822	BHPE KINHILL INDIA PRIVATE LIMITED	U74210MH1991PTC123672
823	DINESH OFFSET WORKS PVT LTD	U22219MH1986PTC041409
824	ORCHID ELEGANCE RENT FARMING PRIVATE LIMITED	U45202MH2001PTC132165
825	JAJU AND COMPANY PVT LTD	U17120MH1994PTC076049
826	JAYADEV ELECTROMECH CO PVT LTD	U29150MH1989PTC035227
827	NEERAO INVESTMENT CO PVT LTD	U99999MH1981PTC024474
828	TRIMITI MARKET COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74140MH1997PTC111319
829	LIVE WIRE ARTIST MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2005PTC155189
830	TUTKUHS HOTELS AND RESORTS PVT LTD	U55200MH1983PTC030724
831	KAMAL PIPES LIMITED	U25209MH1992PLC066445
832	ROCKY IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC091442
833	CREATIONS JEWELLERY EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51398MH2003PTC139301
834	TECHNOFLUID SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U29120MH2005PTC153052
835	SCUBES TRADING LIMITED	U52300MH2007PLC173915
836	ASAR TRADING PRIVATE LIMITED	U51900MH2007PTC175481
837	ASHA GLASS WOOL MANUFACTURING PRIVATE LIMITED	U99999MH1994PTC082796
838	CHANILLO EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51900MH1997PTC107852
839	DR. BHIMGADE'S AGRIBIOTECH PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC170790



840	AMISHA PIPE AND SANITARY WARE PRIVATE LIMITED	U51433MH1999PTC120873
841	SPARKLE CLEANERS PRIVATE LIMITED	U74930MH2006PTC163549
842	ENCASH FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC088445
843	TOLANI OFFICE PLAZA PRIVATE LIMITED	U70200MH1999PTC122211
844	HITEC FERRO CASTINGS PRIVATE LIMITED	U27320MH1984PTC033495
845	BISCO CUISINES PRIVATE LIMITED	U55101MH2006PTC186156
846	VAIBHAV AGRO MACHINERIES PVT LTD	U01122PN1992PTC066341
847	TESS EXPORTS PVT LTD.	U51900MH1987PTC042904
848	ARCANE ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U29200MH2000PTC123644
849	K K CIVIL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH2000PTC128733
850	MAZZUCCONI INDIA PRIVATE LIMITED	U29290MH2000PTC123905
851	TUPSAKHARE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1988PTC050050
852	GURUJI CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	U45203MH2000PTC127267
853	V 6 NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED	U51909MH2006PTC165078
854	MTOUCHE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	U72901MH2006PTC190412
855	KRONITEX ENGINEERS (INDIA) LIMITED	U99999MH1995PLC088470
856	MONTELL COLMAN ENGINEERS (INDIA) LIMITED	U28920MH1996PLC100731
857	AVANI PLANTATIONS LIMITED	U99999MH1997PLC105394
858	WISDOM CREATIVE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH1998PTC116504
859	INDIA SUPPORT SERVICES PVT LTD	U74992MH2005PTC158542
860	HIRANYAVANT INVESTMENTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U65990MH1994PTC083770
861	LALA SOHNAMAL HAKAMACHAND TEXTILE CO PVT LTD	U17100MH1981PTC025647
862	CHANDRAPUR CONDUCTORS PRIVATE LIMITED	U31300MH1979PTC021971
863	COMPUMATRIX SERVICES PRIVATE LIMITED	U72100MH1988PTC046380
864	SATORIS INDIA PRIVATE LIMITED	U28920MH2004PTC145969
865	GREEN PLANET REALTORS PVT LTD.	U70102MH2007PTC176921
866	JAGRUTI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45202MH2003PTC055075
867	VANLAXMI AGRO DEVELOPERS (INDIA) LIMITED	U01110MH1997PLC106204
868	DVPT TOURS AND FOREX LIMITED	U63040MH2005PLC156589
869	EAST WEST BIOTECH LIMITED	U01110MH1994PLC078446
870	NEKEL MANUFACTURING PRIVATE LIMITED	U29120MH2001PTC133760
871	AKHIL FINANCE AND SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC085755
872	INEGA ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED	U92100MH2000PTC126962
873	PERM INFOTECH LIMITED	U72200MH2000PLC127574
874	GADIA CHEMOPLAST PRIVATE LIMITED	U25205MH1991PTC061254
875	KEYNOTE SOFTWARE TECHNOLOGIES PVT LTD	U99999MH1993PTC073048
876	MAXWORTH FINLEASE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U65920MH1995PTC092452
877	GANDHI EXIM PRIVATE LIMITED	U36910MH1990PTC055349
878	SOUTHERN SUITES PROPERTY 2 PRIVATE LIMITED	U70200MH2007PTC166817
879	INNOVATIVE LABORATORY AND WORKSHOP PVT LTD	U24100MH1982PTC028945
880	TIME REAL ESTATES PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC086815
881	TIME DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC090605
882	ANTICO PUMPS PRIVATE LIMITED	U29297MH1999PTC119208
883	SPHOTA TECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC133108
884	FLORA BLOSSOMS LIMITED	U01110MH1994PLC082832
885	MEDHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45200MH2002PTC136318
886	PRAL AGRITECH LIMITED	U01403MH2007PLC170193
887	SHANTANU ENERGY PRIVATE LIMITED	U40102MH2007PTC172840
888	JAMBO ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U74210MH1972PTC015902
889	TRANSBORDER CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2004PTC149197



890	ARIEL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U67190MH1993PTC070924
891	MARSHALL REALTY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U70109MH2007PTC167082
892	FINAC CONSULTANT PRIVATE LIMITED	U74140MH2003PTC139097
893	TAPI AGENCIES PVT LTD	U51900MH1984PTC034049
894	MADHURO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH2005PTC152594
895	KUMAR CARD AGENCIES PRIVATE LIMITED	U21010MH1991PTC063885
896	SHANGHVI FABRICS PRIVATE LIMITED	U17100MH1987PTC045515
897	VIJAY-RAJ REALTORS PRIVATE LIMITED	U45200MH1991PTC064049
898	MATCHWELL IMPEX LIMITED	U51395MH2000PLC130124
899	OWENS CORNING BUILDING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U70109MH2007PTC170574
900	ASHTALAXMI MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC090972
901	ZODIAC CONSTRUERE SUPPLERE PVT LTD	U45200MH1986PTC039107
902	TUFF STUFF WATCHES PRIVATE LIMITED	U33300MH1998PTC112801
903	VINTAGE WATCHES IMPEX PRIVATE LIMITED	U51394MH1999PTC118589
904	KHAZANA CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	U45200MH1999PTC122673
905	SHKAMBARI CEMENTS LIMITED	U26943MH1991PLC212603
906	NEMANI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC084873
907	SINDHUDURG TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED	U55101MH1999SGC121431
908	NICKS INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1991PTC060836
909	TWENTY FIRST CENTURY REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70100MH1993PTC075360
910	GOKUL AGRO TECH PRODUCER COMPANY LIMITED	U74999MH2007PTC167642
911	TASS CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24239MH1977PTC019892
912	BULLION NETWORK (INDIA) LIMITED	U51398MH2003PLC142781
913	DEVA CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74140MH2008PTC179650
914	K M NEMANI STOCKFIN LIMITED	U67120MH1995PLC086144
915	TIRUMALA CATERERS PRIVATE LIMITED	U55204MH1999PTC122561
916	SHRI HARI RAM IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH1999PTC122564
917	BAHETI & BAHETI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U70101MH1991PTC060942
918	CHHAPARIA ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U99999MH1996PTC096714
919	VIRTUAL NETWORKS PRIVATE LIMITED	U64203MH1998PTC115580
920	AURO TRAVELS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U63030MH1994PTC076959
921	PATSONS TELECOM PRIVATE LIMITED	U32109MH1995PTC095422
922	ANURADHA CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	U45200MH1981PTC024977
923	ROOPIN PLASTICS AND FOILDECOR PVT LTD	U25209MH1984PTC034431
924	MARVEL EQUITY PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC092198
925	MAHADEV TOOLS PRIVATE LIMITED	U74999MH2000PTC126625
926	SHRUSHTI TRANSMISSION PRIVATE LIMITED	U51505MH2006PTC163434
927	KING MEDJOUL (SMT) PRIVATE LIMITED	U74900MH2008PTC179482
928	NAGPUR ROLLERS PRIVATE LIMITED	U25190MH2002PTC135052
929	SARATHI MANAGEMENT CONSULTANTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74140MH2002PTC137227
930	MUNGIPA STEEL PRIVATE LIMITED	U28910MH1997PTC107484
931	ZEUS INTERNATIONAL EXPORTS PRIVATE LIMITED	U52322MH2001PTC133872
932	VIC-MON DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1988PTC046357
933	PRAVIN FINANCE PRIVATE LIMITED	U51900MH1961PTC012231
934	KAAMAVASTRA FASHIONS PRIVATE LIMITED	U17291MH1999PTC117930
935	ACCESS HOLDING AND TRADING PVT LTD	U65990MH1989PTC052139
936	KOTESHWAR LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U65910MH1992PTC066842
937	AFFIANCE SECURITY AND LOSS PREVENTION SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U31907MH2003PTC143385

938	OCTOPUS MARITIME PRIVATE LIMITED	U63090MH2004PTC144560
939	KAMAKHYA FLYING INSTITUTES PRIVATE LIMITED	U62200MH2007PTC171408
940	SAPPHIRE EXPORTS PRIVATE LIMITED	U99999MH1974PTC017912
941	SR E-COMMUNICATIONS .COM LIMITED	U92110MH2000PLC127989
942	AM BUSINESS PARK PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC163674
943	K.G.T. TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	U72900MH2006PTC165185
944	KENT POLYMERS & PROFILES PRIVATE LIMITED	U25200MH2007PTC174347
945	SNS REALTORS PRIVATE LIMITED	U45202MH2008PTC178044
946	VANGUARD GUJARAT PROJECTS DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U74999MH2008PTC179802
947	HANG SENG FOOD PRIVATE LIMITED	U15110MH2001PTC133992
948	ALBATROSS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74999MH2004PTC144778
949	UMEED PLASTICS PRIVATE LIMITED	U99999MH1972PTC016152
950	VEGETABLE OIL SPECIALITIES (BOMBAY) LIMITED	U99999MH1985PLC037903
951	GAYATRI VINYL PRIVATE LIMITED	U74999MH1987PTC044643
952	AGNI CHEMIPLAST PVT LTD	U24110MH1989PTC053516
953	MYSTIQUE FASHIONS GARMENTS PRIVATE LIMITED	U52322MH1993PTC072743
954	SVC HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U67120MH1997PTC107698
955	SHRUSTI NETWORK AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U50103MH2001PTC131917
956	VALUABLE MINERALS AND METALS IMPEX PRIVATE LIMITED	U51420MH2004PTC149630
957	VALUABLE NETWORKS MARKETING PRIVATE LIMITED	U52520MH2004PTC149926
958	AKRUT TRADE LINKS PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC153352
959	SAPIENCE INFORMATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC168786
960	TRADECOM SERVICES PRIVATE LIMITED	U51220MH1996PTC099770
961	AMEEN CONTRACTING PRIVATE LIMITED	U23994MH1998PTC117702
962	METRO AIDS CARE PRIVATE LIMITED	U85110MH2001PTC132689
963	MENGHRAJ INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U57120MH1985PTC035887
964	ALERT METAL PRIVATE LIMITED	U99999MH1990PTC056110
965	AMIT REFRACTORIES PVT LTD	U99999MH1991PTC064011
966	PANSA HOLDING PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC086363
967	DEW DROP PHARMACEUTICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U24230MH1997PTC106340
968	ANURAG APPARELS PRIVATE LIMITED	U18101MH2000PTC123621
969	PRINCIPAL REAL ESTATE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U70100MH2001PTC134241
970	PERPETUAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72900MH2002PTC134474
971	SWASTIKA MEDIA AND COMMUNICATIONS LIMITED	U74300MH1993PLC073813
972	DIA PHARMA LIMITED	U24230MH2005PLC152003
973	SHIVRATNA HATCHERIES PVT.LTD.	U29199PN1992PTC067907
974	HARMONY FINANCIAL SERVICES LIMITED	U65900MH1995PLC086706
975	MAA PADMAVATI REAL ESTATE DEVELOPERS AND FARMS PRIVATE LIMITED	U70109MH2007PTC166916
976	LODHA VILLAS PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC169358
977	SIDDHESHWAR REAL ESTATE DEVELOPERS AND AGROFARMS PRIVATE LIMITED	U70101MH2007PTC168434
978	MAHAVIR COUNTRY HOUSE PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC169351
979	LODHA QUALITY REALTORS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC169576
980	LODHA TOWNSCAPE PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC169577
981	LODHA ORIGIN REALTORS AND FARMS PRIVATE LIMITED.	U45200MH2007PTC168890
982	LODHA ENERGETIC DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168822
983	CHANDRAPRABHA REALTY AND FARMS PRIVATE LIMITED	U45300MH2007PTC173805
984	THE JAIDEO OIL MILLS COMPANY PRIVATE LIMITED	U15143MH1947PTC006071

985	KINGS WIRE AND METAL INDUSTRIES PVT LTD	U31300MH1986PTC038773
986	SPEED MERCANTILE LIMITED	U51507MH1995PLC087472
987	DIVYA COMPUTER ACADEMY PRIVATE LIMITED	U80302MH1999PTC118040
988	GUPTA AND PATIL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70100MH2005PTC154450
989	LODHA BUILDTECH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168395
990	LODHA AUTHENTICITY BUILDERS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168384
991	LODHA INFRABUILD AND FARMS PRIVATE LIMITED	U70109MH2007PTC173571
992	SHEETALNATH CONSTRUCTIONS AND AGRO PRIVATE LIMITED	U70109MH2007PTC173498
993	JANAK IT SERVICES PRIVATE LIMITED	U72100MH2002PTC137757
994	SHANTINATH RESIDENTIAL PARADISE PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC166487
995	DIAMOND SACCHARIN PVT LTD	U24230MH1986PTC041801
996	VARMA JAIN CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	U45200MH1989PTC054593
997	GAURANG MINERALS PRIVATE LIMITED	U14210MH1996PTC102432
998	VALUEADD REMOTE SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH1999PTC121776
999	SAFEGUARD EVERSECURE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74920MH2001PTC132731
1000	ALGI IMPEX PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC150560
1001	PARK BAY WINES PRIVATE LIMITED	U15520MH2005PTC154003
1002	LODHA FOUNDATION DEVELOPERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168912
1003	NAVNATH BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45202MH2008PTC177508
1004	LODHA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC177476
1005	LODHA AND KHENI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2005PTC155136
1006	LODHA INTENSITY CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168253
1007	SHALIBHADRA REALTOR AND FARMS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168406
1008	LODHA FLATS AND HOUSES PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC169575
1009	LODHA OBSTINATE REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168679
1010	LODHA LUXURY BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168978
1011	LODHA AGROBUILD TECH PRIVATE LIMITED	U70109MH2007PTC173498
1012	SANGRAM SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120MH2001PTC133394
1013	SPACEWAY TOURS AND TRAVELS PVT LTD	U63090MH1983PTC030672
1014	MEDHEALTH SERVICES (INDIA) PVT LTD	U85110MH1992PTC067480
1015	SKY-HIGH SCAFFOLD PVT. LTD.	U28111MH1993PTC071982
1016	NEELKANTH FARM AND HOUSES PRIVATE LIMITED	U70100MH2005PTC155499
1017	FIRST ROCKFORD ESTATES PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC169713
1018	SKY-BUILD(INDIA) PVT LTD	U45200MH1984PTC032939
1019	SHAMLA CONSTRUCTION AND INVESTMENT COMPANY PVT LTD	U41953MH1986PTC041953
1020	PRAJMD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1988PTC046999
1021	SURYA TIMBER INDUSTRIES PVT LTD	U20100MH1988PTC048807
1022	PREMSONS IMPEX PRIVATE LIMITED	U27201MH1990PTC058399
1023	IBEX SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC085204
1024	AGWAN TRAILERS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U34102MH1995PTC091049
1025	KEYWEST SHARES AND SECURITIES CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U67120MH2005PTC158134
1026	RAIN FOREST HOTELS PRIVATE LIMITED	U55100MH2006PTC180188
1027	BLISS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92130MH2007PTC173134
1028	LODHA BONAFIDE BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168983
1029	TRAICON FILM PRODUCTION PRIVATE LIMITED	U92120MH2007PTC170616
1030	PLEASANT REALTY AND FARMS PRIVATE LIMITED	U70109MH2007PTC173495
1031	INFRATECH REALTY AND FARMS PRIVATE LIMITED	U70102MH2007PTC173531

1032	LODHA INFRACREATIONS AND FARMS PRIVATE LIMITED	U45201MH2007PTC173655
1033	LODHA INFRAVISION BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U45202MH2008PTC178024
1034	TASTE BUDS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55204MH2003PTC140875
1035	LODHA INFRACON PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168819
1036	TOP CRANE SERVICES PVT LTD	U29150MH1986PTC041429
1037	BALAJI SUGARCANE PROCESS PRIVATE LIMITED	U15420MH1995PTC085170
1038	SANKALPA MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC088714
1039	LODHA FOREMOST CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC166532
1040	LODHA CIVIL CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U70200MH2007PTC166834
1041	NULUX MEDIA AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U74300MH2007PTC174117
1042	BALARAJ COMMERCIALS PRIVATE LIMITED	U51909MH2008PTC178072
1043	CHINMAY COMMERCIALS PRIVATE LIMITED	U52100MH2008PTC178175
1044	BRENT COMMERCIALS PRIVATE LIMITED	U51101MH2008PTC179685
1045	BLUE BAND COMMERCIALS PRIVATE LIMITED	U51109MH2008PTC179479
1046	PACEOR TRADING AND INVESTMENT CO PVT LTD	U51900MH1982PTC027640
1047	URVASHI LAND DEVELOPERS P.LTD.	U65910MH1993PTC072700
1048	KOREGAON SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC088211
1049	TRIJAL FINLEASE PRIVATE LIMITED	U65910MH1995PTC092031
1050	HAVANET NETWORKING AND INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2005PTC155414
1051	KRONOS DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51909MH2006PTC166009
1052	SANDESH SALES PRIVATE LIMITED	U52100MH2007PTC169880
1053	MANI BHADRA SALES PRIVATE LIMITED	U52100MH2007PTC169906
1054	PRENA AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED	U99999MH1980PTC023509
1055	I E TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC132315
1056	VINCULUM GREY PRIVATE LIMITED	U74140MH2004PTC146874
1057	VISION 20-20 MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U51909MH2007PTC168602
1058	LAXMI KALPSHEE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45200MH2005PTC157810
1059	B R INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U45200MH2005PTC156659
1060	INTEGRA MAINTENNANCE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74210MH2005PTC156663
1061	GLACIAL EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC090267
1062	WIRE FORMS LIMITED	U74999MH1961PLC012156
1063	POLY DECOR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U36100MH1987PTC045534
1064	PRATAP JEWELLERS PRIVATE LIMITED	U36911MH1995PTC094803
1065	NARKHEDE POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U31200MH2006PTC158399
1066	ERWO WOOLLENS PRIVATE LIMITED	U17123MH2007PTC170781
1067	SAKET CANS PVT LTD	U28920MH1982PTC026353
1068	KEYUR BUILDERS PVT LTD	U45200MH1982PTC027440
1069	HERMES EXPORTS PVT LTD	U51900MH1987PTC042559
1070	RAJ TANK AND VESSEL COMPANY PRIVATE LIMITED	U29290MH1988PTC049532
1071	NIKITA AGENCIES P.LTD.	U51109MH1991PTC064171
1072	OPTION CHANNEL PRIVATE LIMITED	U92110MH1995PTC085230
1073	SOFTWARE ALGORITHMS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72900MH1995PTC087836
1074	M.M.CHOKSEY SHARE AND STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED	U67120MH1996PTC097195
1075	ANUJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U51100MH2004PTC145411
1076	INTEGRA PROJECT MANAGEMENT SUPPORT PRIVATE LIMITED	U74210MH2005PTC156660
1077	ASEEL HERBALS PRIVATE LIMITED	U24233MH2005PTC156828

1078	GAYLORD ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U32100MH1984PTC034002
1079	ASHOKA TEA PROCESSING PRIVATE LIMITED	U01132MH2006PTC163395
1080	MODSTAT ANALYSTS PRIVATE LIMITED	U93090MH2007PTC167169
1081	H S MANGALAM REALTORS PRIVATE LIMITED	U70101MH2007PTC176705
1082	ALL ITALIA JEWELS PRIVATE LIMITED	U36911MH2000PTC127986
1083	KUMANA ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U74210MH1990PTC055661
1084	NOVA FINVESTRADE (BOMBAY) PRIVATE LIMITED	U65944MH1992PTC067681
1085	POORTI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH1996PTC101782
1086	STERLING DTH MARKETING LIMITED	U51109MH1998PLC114095
1087	ELAN GLOBAL PRIVATE LIMITED	U51395MH1998PTC114966
1088	NETSHOPPE WEBSERVICES PRIVATE LIMITED	U72300MH1998PTC115248
1089	BHANSALI ALUMINIUM PRIVATE LIMITED	U27200MH1998PTC117409
1090	D C METALS PRIVATE LIMITED	U27200MH1998PTC117410
1091	ECOMEDIA INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72900MH1999PTC118799
1092	J N M PRIME INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC125213
1093	CLEARGRIP REPRESENTATIONS INDIA PRIVATE LIMITED	U52334MH2001PTC130424
1094	SYSTEMATIC HYGIENE CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24200MH2002PTC136312
1095	SKILLS BRIDGE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74100MH2005PTC153148
1096	JAJAL TEXTILES PRIVATE LIMITED	U52320MH1984PTC034703
1097	SHILDOLL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45203MH2007PTC169993
1098	JEWELKRAFT JEWELLERY PRIVATE LIMITED	U36911MH2008PTC178303
1099	GOEL CARRIERS PRIVATE LIMITED	U63090MH1999PTC117965
1100	JC PHARMACHEM PRIVATE LIMITED	U24100MH2005PTC154370
1101	MULTISERV PRINTPACK PVT. LTD.	U99999MH1993PTC070689
1102	DHANA SAMPADA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U72200MH2001PTC130605
1103	KOMEX SALES PRIVATE LIMITED	U51500MH2003PTC058651
1104	RATHI PAPAINS PRIVATE LIMITED	U99999MH1978PTC020178
1105	MEHTA PHOTO PVT. LTD.	U99999MH1986PTC040326
1106	MEKALAI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH1992PTC067189
1107	J N MARSHALL FINANCIAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U65920MH1994PTC080428
1108	KAMLASHREE TRANSPORT PRIVATE LIMITED	U51102MH1995PTC087203
1109	MEDIASCOPE EXPOSITIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH1995PTC087996
1110	B S CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	U51395MH1997PTC110222
1111	ANISH POLYMERS PRIVATE LIMITED	U24134MH1999PTC121219
1112	WESTERN AGRO AND HYGIENE CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24210MH1999PTC122267
1113	CROWN OUTDOOR PUBLICITY PRIVATE LIMITED	U24240MH2004PTC145850
1114	SPICA MARITIME PRIVATE LIMITED	U35100MH2005PTC153615
1115	KAPUR SOFT PRIVATE LIMITED	U99999MH1985PTC035681
1116	FAIR SCALES PVT LTD	U29150MH2006PTC160068
1117	SKYTOUCHE TRAVELS PRIVATE LIMITED	U63040MH2007PTC174731
1118	AFCO ADVERTISING PVT LTD	U74300MH1991PTC063515
1119	DOSHI SYNLAB PRIVATE LIMITED	U18101MH1999PTC119140
1120	SAI POOL AND SNOOKER GAMES PRIVATE LIMITED	U92410MH1999PTC119515
1121	TERRY IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH1999PTC121955
1122	OXYGEN STATION (INDIA) LIMITED	U23201MH2001PLC130973
1123	INFOMANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2001PTC133612
1124	HENNA MARINE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74210MH2003PTC139200
1125	PSK BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2004PTC149697
1126	PSK CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH2004PTC149757
1127	ALLSEA CARGO SHIPPING PVT LTD	U99999MH2005PTC158532
1128	BENS DE BUTIQUE PRIVATE LIMITED	U55101MH2006PTC163527
1129	ARADHANA AGRI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70101MH2007PTC166746
1130	DURVISH AGRI REALTORS PRIVATE LIMITED	U70101MH2007PTC166746

1131	GALAXY AGRI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2007PTC175826
1132	SHRAYAS REALTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U01403MH2007PTC175827
1133	MAJESTIC REALTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U01403MH2007PTC175828
1134	ADMIT TWO (INDIA) PRIVATE LIMITED	U92114MH1999PTC120844
1135	R.R.M. PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC162797
1136	MANGO TRADING PRIVATE LIMITED	U51101MH2007PTC170550
1137	JAGRUK AGENCIES PRIVATE LIMITED	U51900MH1999PTC120239
1138	FERREIRA DESIGN PRIVATE LIMITED	U18109MH2007PTC176551
1139	EAPEN VARGHESE CONSTRUCTION PVT LTD	U45200MH1984PTC034109
1140	VIMAL TYRES PRIVATE LIMITED	U99999MH1992PTC067235
1141	GARODIA INFORMATION TECHNOLOGIES P.LTD.	U72900MH1994PTC078591
1142	PUSHPAK DETECTIVES AND GUARD SERVICES PRIVATE LIMITED	U74920MH1995PTC086237
1143	MUNSHI BUILDERS PRIVATE LIMITED	U70100MH1995PTC089630
1144	VISHWAMANGAL LEASING AND FINANCE COMPANY LIMITED	U65910MH1995PLC094231
1145	PRINTLINE OFFSET PRIVATE LIMITED	U22219MH1996PTC103771
1146	VISHVA INFOTECH LIMITED	U72200MH2000PLC126585
1147	HI-IMPACT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140MH2001PTC133413
1148	BIRSA MINEREX PRIVATE LIMITED	U13200MH2004PTC148705
1149	JAI SALASAR COMMODITIES AND OPTIONS PRIVATE LIMITED	U51100MH2004PTC149093
1150	QUANTUM LEAP ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U31403MH2006PTC163770
1151	WELD WELL ELECTRODES PRIVATE LIMITED	U99999MH1955PTC009580
1152	MANJUSHREE ENGINEERING EXPORT PRIVATE LIMITED	U74210MH1979PTC021707
1153	INTERBULK SHIPPING AND TRADING PRIVATE LIMITED	U63090MH1983PTC031117
1154	VIDARBHA DRINKS PRIVATE LIMITED	U15540MH1989PTC050956
1155	ALOK LEASING PRIVATE LIMITED	U65910MH1989PTC051631
1156	MEHUL AUTO COOLANT PRIVATE LIMITED	U24242MH1989PTC051683
1157	MAGIC SYNTHETICS PRIVATE LIMITED	U17118MH1996PTC102487
1158	EXPONENTIAL GROWTH MARKET LIMITED	U67120MH1998PLC114890
1159	SUDHIR RATHI SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67190MH2000PTC124135
1160	MOHINI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24239MH2000PTC126263
1161	S-3 HOSPITALS AND RESEARCH ACADEMY PRIVATE LIMITED	U85110MH2004PTC147777
1162	TIPHAN AGRO TRADE PRIVATE LIMITED	U51220MH2004PTC149856
1163	VIJAY AGRI REALTORS PRIVATE LTD	U45200MH2007PTC167412
1164	BLEND FIXTURES PRIVATE LIMITED	U29253MH2007PTC167859
1165	NAVNIIRMAN MINING PRIVATE LIMITED	U13209MH2007PTC175354
1166	DEXTER PAPER INDUSTRIES PVT LTD	U21010MH1985PTC039854
1167	PAYYADE FINANCE PRIVATE LIMITED	U65920MH1994PTC081943
1168	DELTA EMBROIDERY PRIVATE LIMITED	U18101MH2001PTC133735
1169	EDEN IMPEX PRIVATE LIMITED	U51909MH2003PTC140251
1170	SHREENATHJI REALTY DEVELOPERS PVT. LIMITED	U45201MH2006PTC165780
1171	DEVELOPMENT AGRI REALTORS PRIVATE LTD	U70101MH2006PTC186019
1172	PALLAVI LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168306
1173	PRATIK LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168307
1174	HARIT AGRI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70109MH2007PTC170095
1175	PADMASONS TRADING PRIVATE LIMITED	U51900MH2007PTC174343
1176	SWAGAT REALTY & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102MH2007PTC175825
1177	VIRAT MINING PRIVATE LIMITED	U13209MH2007PTC175355
1178	MUNDRA REALTORS PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC179235
1179	JAI MAA AMBE REALTORS PRIVATE LIMITED	U45202MH2008PTC179348

1180	JOSTARS ESSENTIALS PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U15410MH2007PTC176411
1181	KIRON CHITRA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U92112MH1990PTC055532
1182	PRATAP LEASING PRIVATE LIMITED	U65921MH1990PTC055343
1183	CANARA PET CHIPS PRIVATE LIMITED	U25209MH2006PTC159965
1184	NORIND HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U85100MH1997PTC110034
1185	C AND D TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51900MH1981PTC025335
1186	INTER HOTELS PRIVATE LIMITED	U70100MH1988PTC047205
1187	DRAVID AND COMPANY PRIVATE LIMITED	U17120MH1992PTC070152
1188	VIVA TEXTILE INDUSTRIES PVT LTD	U17110MH1993PTC072283
1189	KNIK ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U27310MH1993PTC072451
1190	NAMURA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U70101MH1993PTC073088
1191	LAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U70200MH1993PTC074240
1192	LOK ARCHITECTURAL & PROJECT MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74210MH1995PTC087939
1193	SHALIMAAR MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC089995
1194	EQUITY ANALYSIS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC092449
1195	CISCO FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1985PTC092689
1196	FIDAI INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC094963
1197	LOK ESTATES AND GENERAL MAINTENANCE PRIVATE LIMITED	U45400MH1996PTC097975
1198	LOK INTERDESIGNERS PRIVATE LIMITED	U74990MH1996PTC098014
1199	UTKARSH HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101MH1996PTC100657
1200	LOK HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101MH1996PTC103146
1201	SHABDE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74210MH1996PTC103666
1202	ASTEYA HOUSING AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U70100MH1996PTC103769
1203	NAGPUR POLYPACK LIMITED	U25202MH1997PLC108069
1204	BVG ELECTRODES PRIVATE LIMITED	U74999MH1997PTC108499
1205	EMCO INFOTECH LIMITED	U72200MH2000PLC125046
1206	MODEL TRADING PRIVATE LIMITED	U51900MH2000PTC125432
1207	ARMO TRANS-ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U31909MH2002PTC134959
1208	G R MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51090MH2002PTC136266
1209	SV ELECTROPLAST ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U28920MH2003PTC141247
1210	AMEETA TRADECOM PRIVATE LIMITED	U52322MH2005PTC155973
1211	OUR TOWN NEWSPRINTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U99999MH2005PTC157816
1212	TRADEHELL ONLINE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U72900MH2006PTC158680
1213	NPP PRINTING & PACKAGING PRIVATE LIMITED	U74950MH2006PTC163152
1214	ARC FLUOROCHEM PRIVATE LIMITED	U24110MH2006PTC166347
1215	SKYLINE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC169059
1216	URBAN GAS SUPPLIERS LIMITED	U40200MH2008PLC178173
1217	APPLET REALTOR PRIVATE LIMITED	U45202MH2008PTC180045
1218	AWAS REALTORS LIMITED	U45200MH2008PLC178952
1219	ARVIVA TEXINDS PRIVATE LIMITED	U17120MH1993PTC071884
1220	AMAR VIVA TEXINDS PVT LTD	U17100MH1993PTC071966
1221	THE BRAINSTORMING COMPANY (INTERNATIONAL) PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC129222
1222	MEKO CHEM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U24117MH2006PTC185542
1223	REJOICE LAND DEVELOPERS LIMITED	U45201MH2007PLC168348
1224	SAMRAT REALTY AND DEVELOPERS LIMITED	U45200MH2008PLC177611
1225	JAI INFRAPROJECTS LIMITED	U45400MH2007PLC177013
1226	URBAN GAS DISTRIBUTION LIMITED	U40200MH2008PLC178171
1227	URBAN GAS LIMITED	U40200MH2008PLC178172
1228	SECO TECHNOMESH (BORIWALA) PRIVATE LIMITED	U29219MH1990PTC058289



1229	ELGAR FINANCE P LTD	U67120MH1993PTC073778
1230	M.A. LOKHANDWALA DUGAR SHELTERS PRIVATE LIMITED	U70100MH1994PTC082637
1231	MULTI TRADE EXPORTS (INDIA) LIMITED	U51900MH1999PLC123427
1232	LAWATE PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45102MH2001PTC131268
1233	KRISP TRADE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U51909MH2002PTC136694
1234	FINE PAPER TUBES PRIVATE LIMITED	U99999MH1984PTC034597
1235	KARMA LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63090MH2006PTC160093
1236	VIBHUTI AGRI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70101MH2007PTC166788
1237	TRIDEV AGRI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70101MH2006PTC166352
1238	SHAGUN AGRI REALTORS PRIVATE LIMITED	U70101MH2007PTC166688
1239	U FEDERAL ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED	U92190MH2007PTC173563
1240	GILT IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH1983PTC029871
1241	POSITEX ELECTRODOMESTICS PRIVATE LIMITED	U32109MH1988PTC048662
1242	VIDARBHA PACKAGINGS PRIVATE LIMITED	U74950MH1995PTC087259
1243	TROJAN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2005PTC155264
1244	INTERMASS CAPITAL (ASIA) LIMITED	U65990MH2005PLC156228
1245	AMIVA INTERNATIONAL PVT LTD	U70100MH2006PTC160103
1246	KRISHNA AGRI AND FARM REALTORS PRIVATE LTD	U70101MH2006PTC165958
1247	PUKHRAJ AGRI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70101MH2006PTC166350
1248	CALSCAPE CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140MH2007PTC172969
1249	MURPHY METALS PRIVATE LIMITED	U27100MH2007PTC171732
1250	BHAVIKH STEELS PRIVATE LIMITED	U27107MH2007PTC171731
1251	INDIAN MARBLE INDUSTRIES (BOMBAY) PVT LTD	U14100MH1986PTC038836
1252	GURUKRUPA LEASING PRIVATE LIMITED	U65990MH1991PTC062826
1253	AUTO GUIDE AGENCIES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U50100MH1995PTC085898
1254	SARADA PUMPS PRIVATE LIMITED	U74999MH1993PTC117268
1255	DAYAVANTI ENTERTAINMENT PVT. LTD.	U92132MH2000PTC126036
1256	SPACEWIZ MEDIA PRIVATE LIMITED	U92100MH2004PTC147859
1257	KRISH AGRI REALTORS PRIVATE LIMITED	U70109MH2007PTC166789
1258	SOLAR SOFTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC173288
1259	AMI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1972PTC016171
1260	M H WOLLEN MILLS PRIVATE LIMITED	U17117MH1973PTC016379
1261	KRISHNA LEASING LIMITED	U99999MH1986PLC038962
1262	JEH MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED	U22219MH1989PTC054132
1263	BDH BIOTECH P LTD	U74999MH1991PTC063993
1264	VAKHARIA AND COMPANY PVT.LTD.	U67120MH1993PTC073136
1265	TRALUX TRADING PVT LTD	U51900MH1993PTC075358
1266	DEVAKI MULTIFILMS P LTD	U24134MH1994PTC076986
1267	EVENS AND ODDS SHARES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC091495
1268	VISCO ELASTICS PRIVATE LIMITED	U25110MH1995PTC093441
1269	MARATHWADA AVIATION PRIVATE LIMITED	U62100MH1998PTC115629
1270	CHEMTECH INDIA PRIVATE LIMITED	U24110MH1999PTC121563
1271	AMS MARKETING PRIVATE LIMITED	U51900MH2000PTC128282
1272	UNITEDONEUP (INDIA ) MARKETING NETWORK LIMITED	U51909MH2002PLC134488
1273	DYNAMICS INFOCOM PRIVATE LIMITED	U72900MH2003PTC138754
1274	PALMS EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U80903MH2003PTC140225
1275	REVIVEMED TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U51507MH2004PTC149967
1276	SSUMA SURGICAL DEVICES PRIVATE LIMITED	U33110MH2005PTC152160
1277	SHILPKAR REALTORS (I) PRIVATE LIMITED	U55101MH2005PTC155290
1278	SHILPKAR FILMS PRIVATE LIMITED	U92100MH2005PTC155317
1279	AMIVA ENERGY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2006PTC160768



1280	MIRACLE AGRI PROPERTIES PRIVATE LTD	U70101MH2006PTC166101
1281	LOKESH AGRI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70101MH2006PTC166355
1282	PARADISE AGRI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2007PTC166686
1283	SYNERGY SCIENTIFIC EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	U29251MH2007PTC166975
1284	SILVER TIPS PVT. LTD.	U99999MH1986PTC040843
1285	CARRY AIRCONDITIONERS SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U29192MH1988PTC049803
1286	NOVA ADVERTISING PALACE PRIVATE LIMITED	U74300MH1990PTC054901
1287	COLOGNE DENTAL PRODUCTS LIMITED.	U24245MH1993PLC071412
1288	HERMES FIN-IMPEX P.LTD.	U65920MH1993PTC074328
1289	ASHISH CARGO MOVERS PRIVATE LIMITED	U63010MH1995PTC088628
1290	LATA DIAMONDS AND JEWELLERY PRIVATE LIMITED	U36911MH1995PTC090844
1291	POSH HOME DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC094321
1292	GAGANGIRI ACCOMODATION PRIVATE LIMITED	U70100MH1996PTC097336
1293	WANLAND DATACOM (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72100MH1997PTC108418
1294	GREEN POWER COMPANY LIMITED	U40108MH2000PLC129637
1295	GEORGE TRADING PRIVATE LIMITED	U51909MH2002PTC137421
1296	VRS MARKETING AND ADVERTISING PRIVATE LIMITED	U74300MH2002PTC137478
1297	SOFTEX DATA MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U72200MH2005PTC151778
1298	SAVVY TRADING INDIA COMPANY PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC156702
1299	BRAVO ALLIANCE PRIVATE LIMITED	U63040MH2005PTC158249
1300	STATUS TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72100MH2006PTC161065
1301	SUNWICK MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED	U74999MH2006PTC163653
1302	INDIAM ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2007PTC171546
1303	GOLDEN-RAYS PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45201MH2007PTC175141
1304	STAR GINNING AND PRESSING FACTORIES LIMITED	U99999MH1931PTC001789
1305	PEARL DYESTUFF INDUSTRIES PVT LTD	U99999MH1984PTC033541
1306	VYNA FOOD & BEVERAGES LIMITED	U24100MH1984PLC034714
1307	ATVIN INVESTMENTS AND TRADING COMPANY PVT. LTD.	U99999MH1986PTC042049
1308	MOONRISE INVESTMENT AND TRADING PRIVATE LIMITED	U65990MH1991PTC060455
1309	SONA AGRO INDUSTRIES P LTD	U01110MH1991PTC064494
1310	VAISHTJEU INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC089371
1311	SKIERS AND PRINCE TRADING PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC091075
1312	COMCEPT INFORMATION TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74140MH1995PTC093102
1313	ZENITH ELECTROPLATERS AND MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED	U35900MH1996PTC096691
1314	NEERU SILK MILLS LIMITED	U17101MH1997PLC106488
1315	SANDHAAN ADVERTISING AND PUBLISHING PRIVATE LIMITED	U74300MH1997PTC109874
1316	COMPEX SOLUTION PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC131668
1317	POWERMATIC INDIA PRIVATE LIMITED	U32109MH2003PTC142641
1318	MULJANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH2004PTC150189
1319	KODIA PLAST PRIVATE LIMITED	U25200MH2005PTC150357
1320	HIND DHATU VYAPAR PRIVATE LIMITED	U51900MH2005PTC158051
1321	TREX LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63090MH2007PTC173768
1322	PATHOLOGICAL LABORATORIES PRIVATE LIMITED	U85190MH1951PTC008580
1323	PAL ENGINEERING AND FABRICATION SERVICES PRIVATE LIMITED	U26956MH1977PTC019723
1324	SAMY METALTECH PRIVATE LIMITED	U99999MH1981PTC025186
1325	WOODLAND HOLDINGS PVT LTD	U67120MH1983PTC030496
1326	SYSENG DATA TECHNIQUES PVT LTD	U32106MH1984PTC033564

1327	SUNVILLA HOLDINGS PVT LTD	U67120MH1984PTC034205
1328	JAISHANKER SYNTHETICS PVT LTD	U17110MH1986PTC041679
1329	SIKARIYA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1987PTC044167
1330	TAXAS PETROWAX PRIVATE LIMITED	U24100MH1990PTC056136
1331	REAL VALUE SECURITIES PVT LTD	U85990MH1991PTC060882
1332	LEOPARD EXPORTS LIMITED	U51900MH1992PLC065677
1333	KHIMSON SYNTHETICS PRIVATE LIMITED	U51311MH1992PTC069487
1334	ANURADHA INN AND SECURITIES PRIVATE LIMITED	U55200MH1994PTC076303
1335	SAMBHAV CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U70100MH1995PTC087195
1336	PLAZA SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC088512
1337	BROOKS SECURITIES PRIVATE LIMITED	U65990MH1996PTC100786
1338	SPM AGENCIES PRIVATE LIMITED	U51311MH1998PTC117703
1339	VALUE PLUS EXPORTS PRIVATE LIMITED	U15110MH1999PTC119420
1340	PERFECT REMEDIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2003PTC138917
1341	TURBOPARTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U31100MH2003PTC139147
1342	SAUGAAT ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74210MH2003PTC140035
1343	LOKHANDWALA AVIATION PRIVATE LIMITED	U63033MH2003PTC141021
1344	POLYCHEM REFACTORIES MUMBAI PRIVATE LIMITED	U51102MH2003PTC141294
1345	HUBB EVENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74130MH2005PTC151738
1346	FIRE AND ICE RECREATIONS PRIVATE LIMITED	U55100MH1999PTC120120
1347	NISHIGANDHA MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U15200MH2005PTC155610
1348	MAGONY TECXPORTS PVT. LTD.	U51909MH2006PTC165509
1349	LUSI EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51397MH2007PTC167228
1350	SONAL FOOT WEAR PRIVATE LIMITED	U19202MH1968PTC013936
1351	BHAGWATI NITRATE PRIVATE LIMITED	U24100MH1980PTC023371
1352	ECON LABORATORIES PVT LTD	U99999MH1982PTC026327
1353	HARMONY MUSIC PVT LTD	U92113MH1983PTC031061
1354	PARASRAMPURIA AND GUPTA BUILDERS PRIVATE LIMITED	U70100MH1985PTC035300
1355	ACHARYA EXPORTS PVT LTD	U51900MH1985PTC037078
1356	BOMBAY PUMP HOUSE PVT LTD	U29120MH1985PTC038482
1357	BDH CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS PVT LTD	U52310MH1987PTC042411
1358	KARJAT HORTICULTURAL PVT LTD	U01110MH1987PTC042674
1359	TRIMBAK CONSTRUCTIONS PVT LTD	U45200MH1987PTC044260
1360	PRATIMA LEASING & INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U65900MH1988PTC047689
1361	WOOLTEX AND SYNTEX (INDIA) PRIVATE LIMITED	U17110MH1988PTC047812
1362	EAKMAT CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	U45200MH1990PTC057815
1363	VINI ENGINEERING P LTD	U33100MH1990PTC059504
1364	MEGHANI FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1991PTC062931
1365	PEEVEE ENGINEERING AND EXPORTS PRIVATE LIMITED	U28920MH1992PTC065139
1366	DC AGRAWAL SHARE AND STOCK BROKER LIMITED	U67120MH1993PLC070547
1367	PYRAMID HOTELS AND RESORTS P.LTD.	U55200MH1993PTC075386
1368	ANALYTICAL SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74999MH1993PTC075545
1369	JENUINE FINANCE P.LTD.	U65910MH1993PTC075598
1370	SCIENTECHNIC SERVICES P.LTD.	U72300MH1994PTC076512
1371	LOTUS SOFTWARE TECHNOLOGIES P.LTD.	U30007MH1994PTC078877
1372	SHIVNERI FIBRES P.LTD.	U99999MH1994PTC079348
1373	ANKUR SYNTHETICS PRIVATE LIMITED	U17120MH1994PTC080583
1374	NAVALE TRANSPORTS PRIVATE LIMITED	U99999MH1994PTC083352
1375	SAGAR KALA INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC085709
1376	SHUDH FINANCES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC087623

1377	ARM CHEMIST PRIVATE LIMITED	U99999MH1995PTC088535
1378	ACCORD TRADE IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC091322
1379	JENUINE IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC095573
1380	DWELL PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH1996PTC095838
1381	ATINA MARKETING PRIVATE LIMITED	U51900MH1996PTC096490
1382	SAGAR KALA AGROCHEM PRIVATE LIMITED	U99999MH1996PTC086597
1383	HEMANT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1996PTC097830
1384	TALK FREE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51505MH1996PTC098291
1385	MULTI-PLUS FUEL INJECTION PRIVATE LIMITED	U28113MH1996PTC100764
1386	AJINKYA TRADING LIMITED	U51900MH1997PLC107491
1387	SELECTION ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74999MH1997PTC107870
1388	VEE BEE ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U67190MH1998PTC117227
1389	NEW MILLENNIUM HOUSING AND INFRASTRUCTURAL PRIVATE LIMITED	U45230MH1999PTC122203
1390	MAHADEV INFOSYNERGIES AND NET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH1999PTC122314
1391	FASHION-PORTALS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74994MH2000PTC125909
1392	SYSLINK INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC126933
1393	FRUITS AND NUTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U15130MH2000PTC128968
1394	TRAVEL MATE PRIVATE LIMITED	U63040MH2001PTC133528
1395	WIREDCHANNEL SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72200MH2003PTC141472
1396	YAMAI TECHNO FILTERS PRIVATE LIMITED	U29197MH2004PTC145370
1397	GOLDSHIELD BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U24230MH2004PTC150239
1398	PUSHYA INSULATION TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC153236
1399	UMESH PRINTERS PRIVATE LIMITED	U22200MH2005PTC155709
1400	ROYAL MINIMART PRIVATE LIMITED	U51900MH2005PTC157745
1401	PRIME PORTALS LIMITED	U72900MH2000PLC127447
1402	MOTI EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	U29300MH2005PTC155647
1403	CANTER AIRCONDITIONING SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U31103MH2006PTC164726
1404	ATHENA GEOTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2006PTC165897
1405	ORADYNE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300MH2007PTC171278
1406	MANAS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC171841
1407	COLORLINES TRADING PRIVATE LIMITED	U51909MH2007PTC172172
1408	FIONA METALS PRIVATE LIMITED	U27100MH2007PTC176850
1409	GERMAN TOOLING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U29268MH2008PTC189342
1410	CCDC CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U70101MH1975PTC018508
1411	CCDC CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24100MH1979PTC021226
1412	HARRY FLEX MACHINES PRIVATE LIMITED	U29100MH1982PTC027626
1413	JITGIR TRADING CO PVT LTD	U51900MH1982PTC027960
1414	AARTI SHRINGAR PRODUCTS PVT LTD	U24246MH1986PTC039232
1415	TULSI AGRO CHEM PVT LTD	U99999MH1986PTC041426
1416	RAJLAXMI FLOUR MILLS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U15311MH1987PTC042489
1417	KHYBER FOODS PRIVATE LIMITED	U55101MH1990PTC058338
1418	UNIQUEM ANALYTICAL INSTRUMENTS INDIA PVT LTD	U29290MH1991PTC062456
1419	SAHYADRI AIRCONDITIONING SERVICES PVT LTD	U29191MH1992PTC066212
1420	MIND TECHNOLOGIES (INDIA) PVT LTD.	U74140MH1992PTC067346
1421	PRITIKA FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65923MH1992PTC069882

1422	BHAVDIP FINANCIAL SERVICES P.LTD.	U65920MH1994PTC076306
1423	TRIFAM BUILDERS AND DEVELOPERS P.LTD.	U70101MH1994PTC078234
1424	ROCK TRADING P.LTD.	U51900MH1994PTC078572
1425	FARM SPECIALITIES (INDIA) LIMITED	U99999MH1994PLC079646
1426	SAUBHAGYA HOUSING PRIVATE LIMITED	U99999MH1995PTC090969
1427	SHRADHA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED	U67120MH1996PTC095916
1428	NEW BOMBAY FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U99999MH1996PTC099428
1429	SAGAR AGRO AND HERBAL PRIVATE LIMITED	U01100MH1997PTC108606
1430	RAHUL MACHINERY AND ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED	U31100MH1998PTC115595
1431	ARNAB PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24117MH1998PTC117084
1432	AJANTA ETHANOL INDIA LIMITED	U15420MH1999PLC118091
1433	MORYA CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24110MH2004PTC121470
1434	STANHUEZ CONSULTANCY AND IMPEX PRIVATE LIMITED	U74140MH1999PTC122728
1435	TSA MULTITRADE INDIA PRIVATE LIMITED	U52100MH2000PTC124087
1436	VINA INFOMEDIARIES PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC127586
1437	SHIVOM MARKETING PRIVATE LIMITED	U51909MH2001PTC132740
1438	DASHABHUJA RECOVERY AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U65999MH2002PTC134852
1439	PROTIBHA MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2004PTC144238
1440	AMBIENCE HOUSING AND INFRASTRUCTURES LIMITED	U70100MH2004PLC144588
1441	MAHAKAL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH2004PTC147233
1442	MOBIANCE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U32109MH2004PTC149226
1443	B & S HOUSE OF HEALTH PRIVATE LIMITED	U24230MH2005FTC151391
1444	LYRICAL CASSETTES AND FILMS PRIVATE LIMITED	U22300MH2001PTC132422
1445	SHOLAPUR KAPAD YAPARI SANGH LIMITED	U51900MH1959PLC009440
1446	PRO SOLUTION HOSPITALITY AND RESOURCE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74910MH2005PTC158018
1447	SHRI RENUKA MATA ISPAT AND METALS LIMITED	U27101MH2006PLC158844
1448	TEWARI BROS MITHAIWALA (MUMBAI) PRIVATE LIMITED	U15433MH2006PTC160779
1449	ITELL SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200MH2006PTC161076
1450	GRANATUUM EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51909MH2006PTC163540
1451	SANABIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U15209MH2006PTC166411
1452	SEPCOHI POWER INDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2007FTC169362
1453	REALTY ESTATE MANAGERS AND CONSULTANTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74140MH2008PTC178898
1454	LODHA CORE CONSTRUCTIONS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168448
1455	NISHKAALOY WELD TECHNIK PRIVATE LIMITED	U51900MH2007PTC174390
1456	EALDOR LEATHERS PRIVATE LIMITED	U19122MH2008PTC177198
1457	BRISK CONTROLS SYSTEMS LIMITED	U99999MH1987PLC045648
1458	CONSOLIDATED FOOTWEARS LIMITED	U74999MH1984PLC033310
1459	YAGNAM POWER PRIVATE LIMITED	U31908MH2007PTC169608
1460	SERVOTECH EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51900MH1978PTC020642
1461	LANDMARK RESORTS PVT LTD	U55200MH1986PTC039136
1462	GOPAL GROWTH FUNDS PVT. LTD.	U65990MH1986PTC040225
1463	PERSIAN DARBAR RESTAURANT PRIVATE LIMITED	U55101MH1990PTC054960
1464	PERFECT AUTOMOTIVE GEARS PRIVATE LIMITED	U29130MH1990PTC059154
1465	CLEA PUBLIC RELATIONS PRIVATE LIMITED	U74130MH1995PTC093631
1466	DWARKADHISH MERCHANDISE PRIVATE LIMITED	U51900MH1999PTC123220
1467	ATIT CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201MH2000PTC124392
1468	PARSVA INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U30007MH2002PTC134957
1469	BOON SOFTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2002PTC136277
1470	CENTURIAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45200MH2005PTC154640

1471	THUMBPRINT ARTIST MANAGEMENT & PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	U92132MH2006PTC161359
1472	GEMMA ART JEWELLERY PRIVATE LIMITED	U36911MH2007PTC176962
1473	THANE METAL AIDS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U27100MH1988PTC045953
1474	SUNHARI TRADING AND COMMERCE PRIVATE LIMITED	U51900MH1988PTC046047
1475	HANSPAL TYRES PVT LTD	U25110MH1988PTC048538
1476	STALLION AGENCIES PRIVATE LIMITED	U51102MH2004PTC049444
1477	AMICO CASTING PRIVATE LIMITED	U27300MH1989PTC050558
1478	CREATIVE PERFUMERS PRIVATE LIMITED	U99999MH1990PTC055068
1479	SHANU SIREN PVT LTD	U32109MH1992PTC068503
1480	GEEPEE MARINE TRANSPORT P.LTD.	U61100MH1993PTC072887
1481	STERLINE LAB PVT.LTD.	U25206MH1993PTC073823
1482	SMOOTH SHARP CUTTERS PRIVATE LIMITED	U28931MH1994PTC076075
1483	SOTRA TRANSPORT (INDIA) PVT LTD	U60300MH1994PTC078915
1484	GITANJALI FINLEASE PRIVATE LIMITED	U65923MH1995PTC086963
1485	AAKINS DOCUMENT STORAGE COMPANY PRIVATE LIMITED	U92310MH1995PTC090941
1486	JAY SHREE KRISHNA BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC092229
1487	TRANS FREIGHT PANELS INDIA LIMITED	U34203MH1995PLC092459
1488	SHILP CIVIL ENGINEERS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC093940
1489	ANAND RISK MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH1995PTC095464
1490	MAHENDRAKUMAR KHIMCHAND FAB PRIVATE LIMITED	U17100MH1996PTC101177
1491	RUBY FARMS AND HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED	U01110MH1996PTC102882
1492	SOHANSONS INDUSTRIES LIMITED	U70100MH1996PLC104367
1493	TRUST TRADE AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	U51900MH1998PTC116557
1494	APEX PACIFIC FORWARDERS PRIVATE LIMITED	U63090MH1998PTC116876
1495	SUN UJALA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51900MH1999PTC118693
1496	INDERGIRI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U99999MH1999PTC123148
1497	NETAXIS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72100MH2000PTC124130
1498	TIBREWALA PAPERS PRIVATE LIMITED	U71092MH2000PTC125618
1499	STAR SEARCH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC126155
1500	BINDI INDIA INFO-TECH PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC128739
1501	RUCHIRA KITCHENS PRIVATE LIMITED	U36101MH2000PTC129487
1502	KAM SURFACE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC132806
1503	FEENIX IMPEX PRIVATE LIMITED	U51909MH2001PTC134029
1504	HARBHAJAN DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED	U85110MH2001PTC134346
1505	DHANISTA MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51909MH2002PTC135790
1506	HIQ BUSINESS PROCESS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74140MH2002PTC137594
1507	SIDDHI VINAYAK CREATIONS PRIVATE LIMITED	U92100MH2003PTC138506
1508	INFOLOGYS SERVICES (MUMBAI) PRIVATE LIMITED	U72900MH2003PTC139472
1509	LOGAN INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED	U51507MH2003PTC139724
1510	PRUDENT DEBT RECOVERY SERVICES PRIVATE LIMITED	U65990MH2003PTC141744
1511	EUPHORIA IMPEX PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC146154
1512	VFM TRADING AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC146493
1513	PROFESSIONAL GLASS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U26100MH2005PTC155487
1514	INTELLIGENTSIA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74100MH2005PTC155842
1515	JONATHAN IMPEX PRIVATE LIMITED	U51909MH2003PTC143289
1516	ATLANTIS INVESTMENT ADVISORS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U65990MH2005PTC155633
1517	ONE DROP MARKETING PRIVATE LIMITED	U51909MH2006PTC158824

1518	NILAKSHI SENGUPTA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2006PTC162929
1519	JAI DAYAL KAPUR PAPERS PRIVATE LIMITED	U51102MH2006PTC162764
1520	OM REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70101MH2006PTC166083
1521	LOIRE AGROTECH PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC168219
1522	UTOPIA REALTY PRIVATE LIMITED	U70102MH2007PTC168786
1523	MACQUARIE WEALTH MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED	U67190MH2007PTC168966
1524	ESSENCE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U01403MH2007PTC168802
1525	AXLE ASSURETECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC177776
1526	FIRE COMPUTER GRAPHICS PRIVATE LIMITED	U72200MH2007PTC173603
1527	JETPUR SOMNATH HIGHWAY LIMITED	U60200MH2007PLC175335
1528	YORKSHIRE RESORTS & PROJECTS PRIVATE LIMITED	U55101MH2007PTC175768
1529	PUSHPAK MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U51101MH2007PTC175756
1530	MOSS ESTATES PRIVATE LIMITED	U45400MH2008PTC177951
1531	MOSS PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45400MH2008PTC177950
1532	SABRE CAPITAL INDIA INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED	U67190MH2008PTC180341
1533	CREATIVE PACKAGING PRIVATE LIMITED	U28129MH1963PTC012710
1534	R K BATTERY CHARGER MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED	U99999MH1972PTC015639
1535	CORE ADVERTISING AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74300MH1976PTC018742
1536	DESAI AND COMPANY METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U99999MH1981PTC024708
1537	SIDKA DYES PVT LTD	U99999MH1982PTC026686
1538	RATI COLOR PRIVATE LIMITED	U67120MH1982PTC026865
1539	KAPPA SIGMA TELEMATICS PVT LTD	U30007MH1986PTC040184
1540	APPLISOFT INTERNATIONAL PVT LTD	U99999MH1987PTC042686
1541	ALLAN COMMERCIAL PRIVATE LIMITED	U51900MH2003PTC046533
1542	SADIQ AND COMPANY (CONSTRUCTIONS) PRIVATE LIMITED	U45200MH1990PTC056919
1543	OYSTER PACKAGING PRIVATE LIMITED	U28120MH1991PTC061439
1544	PISCEAN IMPEX PVT LTD	U51900MH1991PTC062206
1545	ORANGE CITY ENGINEERS AND TRADERS PVT.LTD.	U74210MH1992PTC067550
1546	GROWSAFE INVESTMENTS AND CONSULTANCY SRVICES (BOMBAY) PVT.LTD.	U74140MH1992PTC068895
1547	GOOD SPUN TRADING AND INVESTMENTS PVT LTD	U51900MH1992PTC068923
1548	DWEL HOUSING AND CONSTRUCTIONS LIMITED.	U45200MH1993PLC070471
1549	KONKAN AGENCIES PVT LTD	U51900MH1993PTC070745
1550	FLOJET MARKETING PVT LTD	U51900MH1993PTC073766
1551	RAJDEEP SOFTWARE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140MH1993PTC075413
1552	GEEPEE DEVELOPERS P.LTD.	U70102MH1993PTC075839
1553	RAJNARAYAN GARGI COPPER EXPORT LIMITED	U30007MH1994PLC076085
1554	YES PLASTICS PRIVATE LIMITED	U25209MH1994PTC079274
1555	AMRUNI MARKETING PRIVATE LIMITED	U57900MH1994PTC084195
1556	GREEN PARROT INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC084809
1557	SOFGEL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U24246MH1995PTC085241
1558	LAVISHNU CORPORATE FINANCE & MANAGEMENT LIMITED	U67100MH1995PLC088943
1559	SHELLY TRADING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1995PTC090173
1560	SAMDARSHI LEASING AND FINVEST PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC091031
1561	VIGHNAHAR HOMES PRIVATE LIMITED	U70100MH1995PTC091536

1562	ESTHER AGRO LIMITED	U15100MH1995PLC093850
1563	HERMITAGE -LAVLESH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC095371
1564	GEOMYSTIQUE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74140MH1995PTC095549
1565	SWETUSH FINANCIAL AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U65990MH1996PTC096087
1566	BLUEPEARL EQUIFIN PRIVATE LIMITED	U65990MH1996PTC096189
1567	SAGAR KALA PRIME (INDIA) CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45200MH1996PTC098611
1568	KANARA FIRE PROTECTION COMPANY PRIVATE LIMITED	U29270MH1996PTC103460
1569	MATUNGA COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	U92110MH1996PTC103555
1570	HEERA SYNTHETICS PRIVATE LIMITED	U51900MH1997PTC107327
1571	GEOMYSTIQUE IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH1998PTC112975
1572	DPG BUILDERS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	U45200MH1998PTC114449
1573	MANGESH CONTAINERS PRIVATE LIMITED	U63023MH1998PTC116608
1574	ARVIND TEXTILE PRIVATE LIMITED	U51311MH1999PTC118055
1575	INTEGRATED MASONRY SYSTEMS GROUP INDIA PRIVATE LIMITED	U74210MH1999PTC118322
1576	KESHAV COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	U92110MH1999PTC120366
1577	FALAK CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH1999PTC121435
1578	TECHNOVATORS MACHINERY PRIVATE LIMITED	U28920MH1999PTC122352
1579	SECON IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH2000PTC123879
1580	PRIME CIVIL ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U45203MH2001PTC130280
1581	HATDIA IMPEX PRIVATE LIMITED	U57311MH2001PTC131985
1582	BALE SOFTWARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC132823
1583	VIVEK FOODS PRIVATE LIMITED	U15110MH2002PTC134592
1584	EVENT MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE (BOMBAY) PRIVATE LIMITED	U74999MH2002PTC137791
1585	SDM ELECTRONICS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U31909MH2003PTC138738
1586	UPJONE PHARMA PRIVATE LIMITED	U52310MH2003PTC140397
1587	RESURGENCE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2003PTC140736
1588	AMEYA HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED	U55101MH2003PTC141889
1589	SEA LAVENDER SHIPPING PRIVATE LIMITED	U63090MH2003PTC141829
1590	SAHYOG DEALERS PRIVATE LIMITED	U51430MH2003PTC142980
1591	RATNA-SINDHU PORTS SERVICES PRIVATE LIMITED	U63032MH2004PTC143874
1592	BLUE SEA FOODS PRIVATE LIMITED	U92110MH2004PTC144744
1593	SAARV TRADES PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC150221
1594	MEHANDI TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED	U17120MH2005PTC150802
1595	KUDOS OVERSEAS PRIVATE LIMITED	U36998MH2005PTC150836
1596	RAJAL-SIDDHI GRIHA NIRMAN PRIVATE LIMITED	U45200MH2005PTC151245
1597	MANI COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U51100MH2005PTC155454
1598	INTEGRATED CO-MENTORS AND EDU-GUIDE PVT LIMITED	U80900MH2005PTC157361
1599	REODAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2006PTC161383
1600	EMDI INSTITUTE OF EVENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74140MH2006PTC161541
1601	MUDRA EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51909MH2006PTC164535
1602	INTIVION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200MH2006PTC164760
1603	EMGEE ESTATE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U93090MH2007PTC166722
1604	SKIL KNOWLEDGE PARK AND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U80301MH2007PTC168558
1605	SKIL WATER RESOURCES PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC170855
1606	SANG-FROID TRADING PRIVATE LIMITED	U67120MH2006PTC161658



1607	LMG LOYALTY SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED	U74990MH2007PTC169936
1608	ANN'S CREATIONS PRIVATE LIMITED	U52393MH2007PTC176212
1609	APOORVA MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U52100MH2007PTC173116
1610	ANANT MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U52100MH2007PTC173224
1611	CREDENTIALS FARMS PRIVATE LIMITED	U01403MH2007PTC175580
1612	SKIL SEZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U70102MH2007PTC176546
1613	HIGHPOINT IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2008FTC179609
1614	BRIHAN MARKETING PVT.LTD.	U51900MH1992PTC065780
1615	GEOMYSTIQUE MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U51900MH1997PTC106521
1616	APRO ENTERPRISE PRIVATE LIMITED	U24110MH1999PTC119257
1617	PRAKRUTI FOODS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U51900MH2000PTC127061
1618	TERTON CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140MH2006PTC163164
1619	SHAH SYNTHETICS PRIVATE LIMITED	U99999MH1982PTC028071
1620	NITSON COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U51900MH1996PTC099700
1621	NIDISH EXIM PRIVATE LIMITED	U70100MH1996PTC101767
1622	DMS DIRECT MARKETING SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51909MH2002PTC135855
1623	MEDKNOW PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED	U22100MH2005PTC154757
1624	MAG WEAR PRIVATE LIMITED	U18101MH2006PTC160491
1625	BILBA PAPER PRIVATE LIMITED	U22100MH1939PTC002975
1626	PURSHOTTAMDAS MADHVANI AND COMPANY PRIVATE LIMITED	U50100MH1946PTC004762
1627	FARM CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24110MH1970PTC014770
1628	LOTUS PAPER MILLS PRIVATE LIMITED	U21010MH1972PTC015827
1629	PRASAN INVESTMENT AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U67120MH1978PTC020382
1630	BYTCO PHARMACHEM PRIVATE LIMITED	U24239MH1980PTC022635
1631	STALLION TEXTILES PRIVATE LTD	U17100MH1982PTC027168
1632	SUNIDO TEXTILES PRIVATE LTD	U17100MH1982PTC027169
1633	IQMS ERP INDIA PRIVATE LIMITED	U93000MH1984PTC032632
1634	KAPOOR TEXTILES PVT LTD	U17110MH1984PTC033471
1635	GURPREET PLASTIC AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U99999MH1986PTC039411
1636	CENTRAL TRANSPORT COMPANY PRIVATE LIMITED	U63010MH1986PTC039500
1637	MEERA PLASTICS PRIVATE LIMITED	U25200MH1988PTC046841
1638	NIK POLYMERS PVT LTD	U24130MH1988PTC048664
1639	PREYASA INVESTMENT AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U67120MH1990PTC056194
1640	SEAGULL PLASTICS P LTD	U25200MH1993PTC059588
1641	SAIZ EXPORTS COMPANY PRIVATE LIMITED	U51311MH1991PTC061828
1642	ZULASH TRAVELS AND CARGO PRIVATE LIMITED	U63010MH1991PTC063658
1643	SESHA INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	U65990MH1992PTC066358
1644	MELAX INVESTMENTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U99999MH1992PTC070026
1645	JAMINA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51900MH1993PTC073550
1646	ONEX MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC087888
1647	AAR DEE CARGO MOVERS PRIVATE LIMITED	U63011MH1995PTC091117
1648	RAGHUNATHJI SHIP BREAKING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U35110MH1995PTC093024
1649	NTB HITECH CERAMICS LIMITED	U26920MH1995PLC093598
1650	CONTAINER HANDLERS PRIVATE LIMITED	U63032MH1995PTC095471
1651	VENSTAR DEVICES PRIVATE LIMITED	U30000MH1996PTC097751
1652	DAESHIN COLOR CHEM PRIVATE LIMITED	U65990MH1997PTC107960
1653	BHAIRAVI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH1997PTC110265
1654	DADDIKAR LIGHTING PRIVATE LIMITED	U31500MH1999PTC119205
1655	ZEAL PULP AND PAPERS PRIVATE LIMITED	U21000MH1999PTC120192



1656	CLUB TWO THOUSAND (INDIA) PRIVATE LIMITED	U55100MH1999PTC120742
1657	NATH RASAYAN PRIVATE LIMITED	U24110MH1999PTC123385
1658	VIJAYLAXMI CARRIERS PRIVATE LIMITED	U63000MH2000PTC125553
1659	NICHE INTERIORS PRIVATE LIMITED	U74994MH2000PTC126646
1660	SHAMS MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED	U61100MH2000PTC128219
1661	LOGIX TRADING PRIVATE LIMITED	U51900MH2000PTC128868
1662	CINEMA-TIMES INFOMEDIA (INDIA) LIMITED	U72900MH2000PLC129525
1663	FIREWALL ANTIPIRACY (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74820MH2001PTC130932
1664	PARVATI LAXMI REALITY PRIVATE LIMITED	U70109MH2001PTC133692
1665	POWER GENSSPARES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U72100MH2002PTC138117
1666	FIREWALL PIRACY INVESTIGATION PRIVATE LIMITED	U74920MH2002PTC138195
1667	ORANGE CITY FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U65920MH2003PTC139983
1668	BVC JEWELS PRIVATE LIMITED	U36910MH2004PTC144309
1669	MAESTRO MARKETING AND SALES PROMOTIONS PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC146697
1670	ANA LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63000MH2004PTC147392
1671	FOUZIA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH2005PTC152523
1672	INTERPHASE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U51507MH2005PTC156697
1673	FX INDIA ONLINE CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140MH2005PTC157044
1674	BCB SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH2001PTC131514
1675	WCA TRAINING AND SPORT PVT LTD	U92400MH2006PTC159106
1676	TRAVELCO TRAVEL PVT. LTD.	U63040MH2006PTC164378
1677	KALKA APPLIANCES PVT. LTD.	U29253MH2007SGC167139
1678	ACETECH SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED.	U72900MH2007PTC172103
1679	HARIOM RE-ROLLING PRIVATE LIMITED	U28910MH2007PTC171577
1680	TRUE POTATO SEEDS PRIVATE LIMITED	U01403MH2007PTC170600
1681	INFLUX E-SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC171835
1682	SPEEDICUT SMALL CUTTING TOOLS PRIVATE LIMITED	U99999MH1976PTC019341
1683	SACHIN TEXTILES PVT LTD	U18101MH1981PTC025269
1684	KANTANU EXPORTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1982PTC026786
1685	RAJENDRA PENTA APPLIANCES AND ELECTRONICS LTD	U99999MH1985PLC038092
1686	MANWANI DEVELOPMENT AND FINANCE PVT LTD	U70100MH1986PTC040918
1687	MANTARA PROPERTIES PVT LTD	U45200MH1987PTC043454
1688	STAR JEWELS PVT LTD	U36911MH1988PTC048620
1689	MANAV PREM INVESTMENT AND TRADING PRIVATE LIMITED	U67120MH1991PTC060437
1690	SHANKAR MAHADEV BUILDERS PVT.LTD.	U99999MH1991PTC063783
1691	SAHINA TRAVELS PRIVATE LIMITED	U63040MH1991PTC064475
1692	LAWRENCE WATCH COMPANY PVT.LTD.	U33300MH1993PTC071946
1693	KOMETT GRANITES PRIVATE LIMITED	U14102MH1993PTC072186
1694	VEEYES OFFSHORE P.LTD.	U74999MH1994PTC077640
1695	TARONISH ESTATE AND HOLDINGS P.LTD.	U70101MH1994PTC078034
1696	STERFIL RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED	U85195MH1994PTC078651
1697	PIE COMPUTER AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U72200MH1994PTC081779
1698	AMEYA FINVEST PRIVATE LIMITED	U65910MH1995PTC086831
1699	MICRO PACKAGING MACHINERY LIMITED	U29290MH1995PLC089310
1700	ISHA ROADLINES PRIVATE LIMITED	U60210MH1995PTC089746
1701	RHINO SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC093546
1702	MAXIM MULTIMEDIA SHOP PRIVATE LIMITED	U74999MH1995PTC093703
1703	SACHI CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH1995PTC095466
1704	MOHAMMEDALLYS INTERIOR DESIGNERS PRIVATE LIMITED	U36100MH1996PTC096089

1705	KARTIK CORPORATE SERVICES LIMITED	U67120MH1996PLC097328
1706	RESOURCES INVESTMENT AND MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED	U65993MH1996PTC100370
1707	MUKTAGIRI PAINTERS PRIVATE LIMITED	U22210MH1996PTC101123
1708	SPACIOUS HOMES PRIVATE LIMITED	U70100MH1996PTC101423
1709	VAIDYA AND ASSOCIATES TEXTILE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74130MH1996PTC104758
1710	H R P ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U31503MH1997PTC109621
1711	PREMSAGAR HOTELS PRIVATE LIMITED	U55101MH1997PTC110833
1712	CHINTAN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300MH1997PTC111504
1713	FOUR PLUS MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED	U51900MH1997PTC111771
1714	NAMRATA SALES COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51100MH1998PTC115534
1715	NEELAM GOLDCRAFT PRIVATE LIMITED	U36911MH1998PTC116728
1716	SHABRI SUPER SHOPS PRIVATE LIMITED	U51100MH1999PTC121963
1717	SHIMS TRADINGS PRIVATE LIMITED	U51900MH2000PTC126291
1718	SANSUI SALES COMPANY PRIVATE LIMITED	U74910MH2000PTC128766
1719	TRIUMPH AIRCONDITIONING ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U29191MH2000PTC130212
1720	GLEBEX SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH2001PTC130567
1721	UNITED ALUMINIUM MILLS PRIVATE LIMITED	U27203MH2001PTC132598
1722	PUSHPAK EXPRESS SERVICE PRIVATE LIMITED	U63090MH2001PTC132877
1723	NEKA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65993MH2001PTC133063
1724	HAPPY-LIFE GENERAL INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED	U74140MH2001PTC133130
1725	COSMOS FOREX AND TRAVEL PRIVATE LIMITED	U65999MH2002PTC134850
1726	SAHYADRI ADVERTISING PRIVATE LIMITED	U74300MH2002PTC135745
1727	SCINTILLA ORNAMENTAL GLASS PRIVATE LIMITED	U26100MH2003PTC138581
1728	QUANTUM PHYNANCE SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72200MH2004PTC145123
1729	ORNATE JEWELLERY PRIVATE LIMITED	U36910MH2004PTC145890
1730	HERO ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED	U29100MH2004PTC146153
1731	ROY ENTERTAINMENT CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74999MH2004PTC146192
1732	LABELPRINT (INDIA) PRIVATE LIMITED	U22220MH2004PTC146210
1733	REDAPPLE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74300MH2005PTC150976
1734	RAJKAMAL PHARMA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51397MH2005PTC151533
1735	MIRROR FILMS PRIVATE LIMITED	U92100MH2005PTC152757
1736	SAHIL ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92100MH2005PTC153280
1737	SPITAMAN ALCO BEVERAGES PRIVATE LIMITED	U15500MH2005PTC153795
1738	ESQUIRE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2005PTC156674
1739	VINTECH TRADE FAIRS PRIVATE LIMITED	U92140MH1999PTC120046
1740	SHREE KESHAV MILK PRODUCTS LIMITED	U15300MH1999PLC120469
1741	J AND M HOSPITAL PRIVATE LIMITED	U85100MH2005PTC155617
1742	PHONETIZE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72100MH2005PTC157968
1743	SKY HIGH REALESTATES PRIVATE LIMITED	U45200MH2006PTC160366
1744	KAMYA TRAVELS AND TOURS PRIVATE LIMITED	U63040MH2006PTC163393
1745	S M BIOSCIENCE PRIVATE LIMITED	U33125MH2006PTC165501
1746	EMGEE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U93090MH2006PTC163807
1747	BHARUCHA & QURESHI DEVELOPERS PVT. LTD.	U45201MH2006PTC165713
1748	SANTA FE RELOCATION SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74140MH2007FTC167444
1749	EMGEE PROPERTY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U93090MH2007PTC166720

1750	DELTA FILMS AND MEDIA PRIVATE LIMITED	U92100MH2008PTC178138
1751	SHEHVIJAY INVESTMENT AND TRADING PRIVATE LIMITED	U67120MH1991PTC060590
1752	DARSHAN SOFTWARES LIMITED	U72200MH1992PLC068273
1753	TEMPTATION IMPEX PRIVATE LIMITED	U18101MH1995PTC084714
1754	GAGANDEEP REAL ESTATES PRIVATE LIMITED	U45201MH1995PTC084756
1755	VIDARBHA DEPARTMENTAL STORES PRIVATE LIMITED	U52190MH1995PTC090144
1756	SPLENDID SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC095374
1757	SCHEMAK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1999PTC118072
1758	SHRIKRISHNA PROVISIONS AND NOVELTIES PRIVATE LIMITED	U51200MH2000PTC124881
1759	TRANS GRIP CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U72100MH2006PTC125273
1760	VASE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U63090MH2003PTC140709
1761	KORENET PRIVATE LIMITED	U72900MH2003PTC141068
1762	AMIES HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U55100MH2003PTC143160
1763	CHIRAL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U24230MH2005PTC152437
1764	DELTA QUEST PRIVATE LIMITED	U50500MH2005PTC154649
1765	SHREETECH LAB SUPPLIES PRIVATE LIMITED	U51507MH2005PTC155109
1766	HARDCORE FITNESS PRIVATE LIMITED	U93090MH2006PTC161010
1767	WAVE 3 KNOWLEDGE SERVICES PRIVATE LIMITED	U93090MH2006PTC164590
1768	EMEDIA SOFTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC127548
1769	ALFORM TUBES PRIVATE LIMITED	U24110MH1973PTC017000
1770	BASANT FILM DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U92110MH1974PTC017358
1771	COPPER CHIMNEY CATERERS PRIVATE LIMITED	U55200MH1976PTC019343
1772	INTERPUB PRIVATE LIMITED	U74300MH1980PTC023058
1773	ENARCH CONSTRUCTION PVT LTD	U99999MH1981PTC024414
1774	DIAMANT BOART PETROLEUM INDIA PVT LTD	U36912MH1985PTC036874
1775	CONCURRENT FINANCE AND INVESTMENT COMPANY PVT LTD	U65990MH1991PTC060941
1776	ATLAS PHOTORECEPTORS LTD.	U30060MH1993PLC071080
1777	NICHOLSON FINANCE CO.P. LTD	U55922MH1993PTC073242
1778	SUBHLAXMI MERCANTILE CREDIT PVT.LTD.	U65999PN1993PTC073881
1779	SYSTRAIN SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72200MH1994PTC082312
1780	LIBRA EQUFIN PRIVATE LIMITED	U65910MH1994PTC082644
1781	DEV PRAVESH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH1994PTC083783
1782	ASE FINTECS LIMITED	U99999MH1995PLC080221
1783	CONCEPT TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC092618
1784	CRYSTAL HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U85110MH1995PTC095510
1785	SHREE VISHWAKALA SERVICES COMPANY PRIVATE LIMITED	U63040MH1997PTC108347
1786	KIZ AGRICULTURE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	U01100MH1997PLC110269
1787	BINI IMPEX PRIVATE LIMITED	U18101MH1997PTC110651
1788	SUJAMO IMPEX PRIVATE LIMITED	U24110MH1998PTC115745
1789	BAIRAGI TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51496MH1999PTC118131
1790	MICRO MILLENNIUM SOFTNET (INDIA) LIMITED	U72200MH2000PLC124675
1791	DR PAWAR S HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U55100MH2000PTC125125
1792	OJAS INVESTMENTS AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U67120MH2000PTC125140
1793	MAROO INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC125429
1794	WATCH PALACE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U33300MH2000PTC125797
1795	SIGMA INFORMATICS PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC130133
1796	DOIT E SOLUTIONS (INDIA) LIMITED	U72900MH2001PLC131368
1797	HAPPY HOURS TOYMAKERS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U25202MH2001PTC131779
1798	EKYUKTA LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201MH2001PTC132003

1799	DYNAMIC AUTOMOTIVES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U34102MH2001PTC132176
1800	ROCKET ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC132667
1801	REDDY CONSTRUCTION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U45200MH2001PTC133159
1802	DEVANSH INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2002PTC135055
1803	SHREYAS AUTO INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	U34300MH2002PTC135089
1804	CIS CARGO PRIVATE LIMITED	U63010MH2002PTC137567
1805	NSK LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63040MH2002PTC137834
1806	DR. MAHMOOD'S DIAGNOSTIC POINT PRIVATE LIMITED	U85100MH2002PTC138107
1807	MARK TELEPHONES PRIVATE LIMITED	U64201MH2003PTC138690
1808	AUM PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	U92110MH2003PTC138758
1809	SARATHI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2003PTC138769
1810	SHARADA FILFAB PRIVATE LIMITED	U17110MH2003PTC140990
1811	VAYUDOOT COURIERS PRIVATE LIMITED	U64120MH2003PTC141350
1812	NAVJEEVAN MEDICAL CENTRE PRIVATE LIMITED	U85110MH2003PTC143397
1813	KHAJANCHI FILMS PRIVATE LIMITED	U92110MH2004PTC145201
1814	LEISURE ACTION SPORTS PRIVATE LIMITED	U92199MH2004PTC145738
1815	KUSUMAKAR CARS PRIVATE LIMITED	U60220MH2004PTC146285
1816	AIMS ACCOUNTING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2004PTC149479
1817	BENHUR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH2005PTC150777
1818	SUDHAN TRANSTECH PRIVATE LIMITED	U31100MH2005PTC151272
1819	QUALITY GAS PRIVATE LIMITED	U24111MH2005PTC151306
1820	INKO SHIPPING AND TRADING PRIVATE LIMITED	U35110MH2005PTC152549
1821	MONEY PLANT STRATEGIC CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74100MH2005PTC152712
1822	DIVA ETHNIC PRIVATE LIMITED	U18101MH2005PTC154866
1823	IVORY JEWELS PRIVATE LIMITED	U36911MH2005PTC154736
1824	SWADIP PHARMA PRIVATE LIMITED	U24230MH2005PTC154785
1825	PRERNA SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72900MH1999PTC120804
1826	ANKIT ROAD AND INFRASTRUCTURAL WORKS PRIVATE LIMITED	U45200MH2006PTC159032
1827	DELUX KARAN SECURITY BROKING PVT LTD	U99999MH2006PTC159461
1828	DELUXE KAARAN COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U51103MH2006PTC159568
1829	HUE FASHION PRIVATE LIMITED	U17299MH2006PTC162630
1830	CLINICAL RESEARCH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U73100MH2007PTC174499
1831	KEY FACTORS INTEGRATED COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC176242
1832	HIT OUTDOOR MEDIA PRIVATE LIMITED	U22200MH2007PTC177097
1833	HIT MEDIA AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92120MH2008PTC179087

HENRY RECHARD  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Pune, the 23rd January 2012

No. RoC/560 (5)/2012/CP/221—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sr NO.	CIN	NAME OF THE COMPANY
1	U72200MH1996PTC103588	SHREE INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2	U51909PN1999PTC014096	SUPERCOGNIZANT MARKETING PRIVATE LIMITED
3	U17111PN2005PTC020332	ROTEL SPINNING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4	U73200MH1997PTC105460	GANGOTREE DEVELOPMENT COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
5	U85120PN2006PTC022123	SPECIALITY DENTAL INSTITUTE PRIVATE LIMITED
6	U67112MH1994PTC083780	KITU TRADE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
7	U36101MH1986PTC041748	KALPAK FURNITURES PVT LTD
8	U72200PN2003PTC018633	ZIRCON INFOTEC PRIVATE LIMITED
9	U85110PN2000PTC014533	KOLEKAR HOSPITAL AND DIAGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED
10	U72200PN2000PTC014602	FWL TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
11	U74999MH1996PTC098913	UNITED MARCON PRIVATE LIMITED
12	U51909PN2002PTC016789	L'AMOUR MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
13	U65923MH1994PTC082563	CAMLIDHAN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
14	U27310MH1975PTC018109	POONA PATTERNS AND FOUNDRIES PVT LTD
15	U72200PN2000PTC015618	MAX SECURE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
16	U29299PN2003PTC017875	Pneumatech AND ConservAIR Enterprises Private Limited
17	U91990MH1981PLC024788	MALHOTRA SILVER HILLS CLUB LIMITED
18	U15499PN2005PTC020908	WEIKFIELD NUTRITIONALS AND FOODS PRIVATE LIMITED
19	U73200PN2004NPL019693	DHAMMA KULA SARVODAYA FARM PRIVATE LIMITED
20	U29219PN1992PTC069217	GARDEN IMPLEMENTS INDIA PVT LTD
21	U72200PN2005PTC020611	SUMEET INFOTECH PRIVATE LIMITED
22	U24244MH1996PTC095931	AROMA INSULATIONS PRIVATE LIMITED
23	U24231PN1991PTC063107	KETAN PHARMA PVT LTD
24	U45201PN1990PTC056496	HIRA MANEK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
25	U29309MH1994PTC078576	COMP CHARTS PVT LTD
26	U23209MH1989PTC052701	SAKAR EFFLUENT TREATMENT PVT LTD
27	U51399PN2005PTC021481	BONISONS TRADING PRIVATE LIMITED
28	U29141PN2007PTC129715	SHOEI FURNACES (INDIA) PRIVATE LIMITED
29	U29219PN2006PTC021973	ARCHIES EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
30	U65921MH1993PTC075582	GODBOLE FINANCE AND LEASING COMPANY PVT LTD
31	U72200PN2003PTC017612	TRANS TECH AUTOMATION PRIVATE LIMITED
32	U27109MH1994PTC080335	SHUBHAM ELECTROSTEELS PRIVATE LIMITED
33	U72200PN2007PTC130892	WebListic India Private Limited
34	U72200PN1999PTC014109	ISOLV PRIVATE LIMITED
35	U31909MH1994PTC078744	ROYAL TRANSMISSIONS PVT LTD
36	U55101PN2004PTC019280	COMFORT ZONE HOTELS AND CATERERS PRIVATE LIMITED
37	U45202PN2004PTC018845	SYNDICATE SHELTERS PRIVATE LIMITED
38	U65910MH1986PTC038753	LITAKA LEASING AND INVESTMENT PVT LTD
39	U26960PN1999PTC013788	SHREE KRISHNA MINE CRUSHER PRIVATE LIMITED
40	U72200PN2003PTC017745	iSoftLab Solutions Private Limited

41	U72200PN2006FTC022117	NETFABRIC TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
42	U70101MH1996PTC102377	ROMA ESTATES AND PROPERTIES PRIVATE LIMITED
43	U65993MH1987PTC042800	MUDI ROKAAN INVESTMENTS PVT LTD.
44	U72200PN2005PTC020306	INFOVORX SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
45	U74999PN2007PTC130423	Maneckji D. Petit Consultants Private Limited
46	U74900PN2008PTC132959	WesternGeco India Manufacturing Private Limited
47	U65993MH1983PTC029212	CHAITRALI INVESTMENTS AND FINANCE PVT LTD
48	U72200MH1992PTC068251	PARMAR SOFTECH AND SYSTEMS PRIVATE LIMITED
49	U29299PN2006PTC128582	TECHNO ROBOTICS AND AUTOMATION PVT LTD
50	U85110MH1995PTC086427	SHIVSAI HOSPITALS PRIVATE LIMITED
51	U72200PN2005PTC020199	Eddycranes Software Technologies Private Limited
52	U72200PN2000PTC014743	NRG TECH PRIVATE LIMITED
53	U74140PN1982PTC028126	MRG MANAGEMENT RESORUCES GROUP PVT LTD
54	U45201PN2005PTC020592	AMAR VILLAGE OF EXCELLENCE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
55	U52399MH1987PTC043917	VASUDHA SALES AND SERVICES PVT LTD
56	U29112MH1977PTC019822	MENON ENGINES PRIVATE LIMITED
57	U72200PN2006PTC128961	CUSPION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
58	U27107PN2006PTC128731	DANDEKAR FOUNDRIES PRIVATE LIMITED
59	U65993PN1989PTC053289	CHINMAYEE HOLDINGS AND CONSULTANCY P. LTD
60	U72900PN2002PTC017336	BLUECHIPS SEMICONDUCTORS PRIVATE LIMITED
61	U74920PN2003PTC017879	EMPHASIS SECURITY AND ALLIED SERVICES (PUNE) PRIVATE LIMITED
62	U31200PN1990PTC055750	MILLENIUM ENGINEERS PRIVATE LIMITED
63	U74140MH1991PTC062202	GOPALKRISHNA MILK PRIVATE LIMITED
64	U74900PN2008PTC132945	APPROPRIATE ENERGY SERVICES PRIVATE LIMITED
65	U72200PN2003PTC018156	PROKNOWN EDUCATION SERVICES PVT LTD
66	U74140MH1993PTC072129	BINA BIOTECH CONSULTANTS PVT.LTD
67	U70101PN2005PTC020903	SUYASH REALTORS PRIVATE LIMITED
68	U40108PN2008PLC132109	VIVID RENEWABLE ENERGIES LIMITED
69	U15520PN2003PTC017820	FIVESTAR S DISTILLERIES PRIVATE LIMITED
70	U61100PN1999PTC013980	MRA EXIM SERVICES PRIVATE LIMITED
71	U51909MH1975PTC018413	TENACITY ADHESIVES PRIVATE LIMITED
72	U74300PN1999PTC013546	SUNNY ADVERTISING PRIVATE LIMITED
73	U51909PN2004PTC019980	SAMIHAN SERVICES PRIVATE LIMITED
74	U65923MH1995PTC090873	PRAJYOSH INVESTMENT CONSULTANCY SERVICES
75	U29299MH1997PTC105804	METABO POWER TOOLS PRIVATE LIMITED
76	U24110PN2008PTC131267	WALWAY CHEMICALS PRIVATE LIMITED
77	U28112MH1996PTC101157	VISHVAS METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
78	U64120MH1994PTC080247	KELCONS COURIER SERVICES PRIVATE LIMITED
79	U72200PN1999PTC013660	PESH INFOTECH PRIVATE LIMITED
80	U72200PN2001PTC015731	INFOMAYA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
81	U51504MH1988PTC047662	GRAFIS MARKETING PRIVATE LIMITED
82	U72900PN2000PTC014963	INDIA OVERLAND PRIVATE LIMITED
83	U74999PN2008PTC132329	STARFISH CONSULTING PRIVATE LIMITED
84	U72900PN2006PTC129348	ISV Marketplace.com (India) Private Limited
85	U29299MH1989PTC052724	RIFOX EQUIPMENTS PVT LTD
86	U29219PN2005PTC020106	VIRGO SENSORS PRIVATE LIMITED
87	U51909PN2004PTC019377	NEEDS NFINUUM CONSUMER SERVICES PRIVATE LIMITED
88	U15205PN2009PTC133924	MELON FOODS PRIVATE LIMITED
89	U51909PN2008PTC132314	SUNDER COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
90	U72200PN2006PTC128869	MICROTEK TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
91	U21015PN2001PTC016186	SAMARTH PACKAGING PRIVATE LIMITED
92	U61100PN2004PTC019277	SEACAT MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED
93	U72200PN2002PTC017509	NEW VISION SOFTWARE PRIVATE LIMITED
94	U28110PN2009PTC133511	BHAIRAVNATH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
95	U28113PN2009PTC133508	PRABHAVATI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
96	U28113PN2009PTC133521	OSIYA ENGINEERING PRIVATE LIMITED

97	U28939PN2009PTC133506	ANUJA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
98	U28113PN2009PTC133515	VINIT ENGINEERING PRIVATE LIMITED
99	U27201PN1998PTC012586	DUPLEX INSULATIONS PRIVATE LIMITED
100	U63040PN2008PTC129302	OOSHMA TRAVEL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
101	U74900PN2008PTC132785	AXONIZE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
102	U72900PN2010PTC136075	MONDOTECH SOFTWARE PRIVATE LIMITED
103	U72200PN2002PTC017039	CYBERSHIELD INFORMATION SYSTEM ASSURANCES PRIVATE LIMITED
104	U72200PN2001PTC016593	Bangalore eTechnology Private Limited
105	U72200PN2002PTC017352	SEADBASE-ACADEMY PRIVATE LIMITED
106	U29253PN2008PTC132634	MAASAR Systems Private Limited
107	U74900PN2009PTC134651	Experient HR Solutions Private Limited
108	U72400PN2009PTC134129	Optunik Solutions Private Limited
109	U27310MH1975PTC018109	POONA PATTERNS AND FOUNDRIES PVT LTD
110	U74999PN2010PTC135577	HAK RECRUITMENT & CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
111	U80211PN2008PTC132020	Kunjee Educational Services Private Limited
112	U74200PN2008PTC131993	BASCON HI-TECH MULTY ENGINEERING PRIVATE LIMITED
113	U29199MH1994PTC078329	NORTH STAR BROAD EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
114	U24234PN2002PTC017047	A AND K HEALTH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
115	U45203PN2009PTC135251	LONAVLA SHRUSHTI INFRASTECK PRIVATE LIMITED
116	U29110MH1995PTC088137	GANDHI FABRICATION SALES PRIVATE LIMITED
117	U45209PN2005NPL020885	RIVER VALLEY INFRASTRUCTURE SERVICES PRIVATE LIMITED
118	U72900PN2005PTC020698	THINKBEYOND SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
119	U29220PN2008PTC133000	DEKTEC EQUIPMENT MANUFACTURING (INDIA) PRIVATE LIMITED
120	U67120PN1985PTC036843	DHANANJAY INVESTMENTS PVT LTD

S. D. PATIL  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shah Threads Private Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00121/1783—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Shah Threads Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aqua Fun Resorts Private Limited

Panaji-403001, the 30th July 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2010/00392/1789—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Aqua Fun Resorts Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dri Club Old Anchor Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00123/1786—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Dri Club Old Anchor Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tin Pack Private Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00126/1792—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Tin Pack Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Indiacom Directories Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00128/1796—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Indiacom Directories Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. T. N. Auto And General Engineering Co. Private  
Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00130/1799—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. T. N. Auto And General Engineering Co. Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be  
struck off the register and the said Company will be  
dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Palkan Indchem Private Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00134/1802—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Palkan Indchem Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Suprapti Packaging Private Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00136/1805—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Suprapti Packaging Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Butterfield Plastics Private Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00138/1808—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Butterfield Plastics Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Reshma Plastics Private Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00142/1811—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Reshma Plastics Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trishna Plastics Private Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00140/1814—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Trishna Plastics Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Consisent Packagers Private Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00149/1817—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Consisent Packagers Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dynamic Packagers Private Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00153/1820—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Dynamic Packagers Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pleasant Packaging Company Private Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00158/1823—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Pleasant Packaging Company Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
the register and the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Stonewall Packaging Company Private Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00165/1826—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Stonewall Packaging Company Private Limited

unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
the register and the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Relaxed Packagers Private Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00161/1829—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Relaxed Packagers Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Goan Agro Prodcuts Private Limited

Panaji-403001, the 24th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/Sec 560/2012/00132/1832—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Goan Agro Prodcuts Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Kolkata-700020, the 24th January 2012

No. RoC/WB/FTE.560/2012—Notices is hereby given  
pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies  
Act, 1956 that the name of the following Companies have  
this day been struck off the Register and the said Companies  
are dissolved :—

Sl No.	CIN	Name of the Company
1	2	3
1.	105667	M/s. Doyen Poultry Private Limited
2.	079654	M/s. Chowdhury House & Flat Construction Private Limited

1	2	3
3.	106530	M/s. Delta Batteries Private Limited
4.	119323	M/s. Handy Textiles Trading Private Limited
5.	102821	M/s. Agama Entertainment Limited
6.	106459	M/s. Callidora Mercantiles Private Limited
7.	079338	M/s. M. L. Sarkar Estate Private Limited
8.	033443	M/s. Kaveri Mopeds Private Limited
9.	116005	M/s. Rational Tieup Private Limited
10.	093673	M/s. Meera Ispat Private Limited
11.	001818	M/s. National Coal Co. Private Limited
12.	096858	M/s. Deluxe Dealers Private Limited
13.	036330	M/s. I A Commercials Private Limited
14.	111416	M/s. Logos Infotech (India) Private Limited
15.	034954	M/s. Richa Investments Private Limited
16.	043344	M/s. Sulzer Holdings India Limited
17.	039646	M/s. Shree Vishnu Holdings Private Limited
18.	037849	M/s. Anatric Investments Private Limited
19.	037654	M/s. Maxfactor Holdings Private Limited
20.	037651	M/s. Dupoint India Private Limited

HARI HARA SAHOO  
Asstt. Registrar of Companies  
W.B.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Cuttack-753014, the 19th January 2012

No. RoC/Sec.560(5)/2012/3591—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-007089	M/s. B. S. Marketing Private Limited
2.	15-007090	M/s. Azonic Technologies Private Limited
3.	15-007105	M/s. Shree Ganesh Ferro Alloys Private Limited

1	2	3
4.	15-007116	M/s. Utkal Mica and Minerals Private Limited
5.	15-007120	M/s. Narayani Sponge Iron Private Limited
6.	15-007121	M/s. Laxmi Narayani Constructions Private Limited
7.	15-007164	M/s. Arach India Consumer Health Care Private Limited
8.	15-007169	M/s. K. K. Eastcon Private Limited
9.	15-007175	M/s. Maharaja Estcon Private Limited
10.	15-007190	M/s. R. V. Associates Franchise Network Private Limited
11.	15-007199	M/s. Udratech Info Services Private Limited
12.	15-007203	M/s. Lotus Estcon and Promoters Private Limited
13.	15-007215	M/s. Leader's Webtech (India) Private Limited
14.	15-007244	M/s. Alps Realestate Private Limited
15.	15-007264	M/s. Radhey Krishna Construction Private Limited
16.	15-007265	M/s. Maalaxmi Soultions Private Limited
17.	15-007291	M/s. Arya Prabha Minerals (India) Private Limited
18.	15-007310	M/s. Gita Projects Private Limited
19.	15-007322	M/s. Sudarsan Herbs and Forests Private Limited
20.	15-007337	M/s. Oriyan Shipping Private Limited
21.	15-007352	M/s. Sizzler S Constructions Systems Private Limited
22.	15-007360	M/s. Sedate Consultancy and Services Private Limited
23.	15-007421	M/s. Deepchem Health Care Private Limited
24.	15-007452	M/s. Shree Osiya Builders Private Limited
25.	15-007465	M/s. Saswati Exports Private Limited

C. K. DAS  
Asstt. Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Cuttack-753014, the 24th January 2012

No. RoC/Sec.560(3)/2012/3649—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the

date the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-000951	M/s. Indian Carbide and Chemicals Limited
2.	15-002434	M/s. Janajyoti General Finance and Investment India Limited
3.	15-003076	M/s. Eurosia Merchant Banking Services Limited
4.	15-003316	M/s. Bethel Green Growth Limited
5.	15-003360	M/s. Anand Paribar Savings Corporation India Limited
6.	15-003525	M/s. Asian Agro Foods Limited
7.	15-003860	M/s. Jay Jay Capital Securities Limited
8.	15-004099	M/s. Diamond Orissa Agro-Tech Limited
9.	15-004206	M/s. Aaramv Media Limited
10.	15-005454	M/s. Ajanta Metalics Private Limited
11.	15-005456	M/s. Anjeneya Constructions and Transports Private Limited
12.	15-005489	M/s. Ambica Electronics Private Limited
13.	15-005500	M/s. Jaganath Security Service Private Limited
14.	15-005639	M/s. Indhradhanu Properties Private Limited
15.	15-005694	M/s. AVM Health Care Private Limited
16.	15-005888	M/s. Cynosure Securities Limited
17.	15-006067	M/s. J.B.S. Udyog Limited
18.	15-007100	M/s. Biji Motors Private Limited
19.	15-007385	M/s. Fastens Construction Private Limited
20.	15-007961	M/s. Hindustan Industrial Works Limited

C. K. DAS  
Asstt. Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Tech OPS Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46765/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tech OPS Private Limited

has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Subra Exports Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46800/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Subra Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Dapa Technologies Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46801/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dapa Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Avia Hitech Consultants Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46814/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Avia Hitech Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Sri Vijayram Granite Exports Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46818/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Vijayram Granite Exports

Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Halcyon Infotech Solutions Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46821/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Halcyon Infotech Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Clairvoyant Placement Consultants Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46832/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Clairvoyant Placement Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Aaramb G2X Technologies Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46836/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aaramb G2X Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Precitech Machining Works Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46837/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. Precitech Machining Works Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Corsa Securities Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46838/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Corsa Securities Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Conprox Technologies Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46850/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Conprox Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Krishikau Exports & Imports Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46854/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Krishikau Exports & Imports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Aiz Marketing Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46859/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. Aiz Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. KCG Hotels Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46861/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. KCG Hotels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Zephyr Controls Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46873/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Zephyr Controls Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Relion Technologies Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46877/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Relion Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Cholan Property Developers Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46878/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cholan Property Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Worldwide Printon Technologies Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46978/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Worldwide Printon Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Durai Printers Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46937/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Durai Printers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Nuyu India Private Limited

Chennai-600034, the 11th January 2012

No. 46997/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nuyu India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.  
Dy. Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

## In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chennai, the 23rd January 2012

No. 12297 to 78218/560(3)/FTE-2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No	COMPANY NAME	REGN No
1	S K NURSING HOME PRIVATE LIMITED	12297
2	STAR TAPE LIMITED	19930
3	SREVAAS ENGINEERS PRIVATE LIMITED	22224
4	SOUTHERN FOUNDATION PRIVATE LIMITED	23566
5	MADURAI INDHRA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED	25615
6	TREND POLYPACK PRIVATE LIMITED	26614
7	ASMAC INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	28122
8	SURANA HOLDINGS PRIVATE LIMITED	28169
9	MAHENDRA SHAH SECURITIES PRIVATE LIMITED	32289
10	JUPITER KNITWEARS PRIVATE LIMITED	34465
11	MENCOR INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	35720
12	AKK SERVICES PRIVATE LIMITED	37393
13	RATHOD INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	37588
14	SOUTH POINT HOLDINGS(MADRAS)PRIVATE LIMITED	38668
15	A.A.V.MEDIA AND SERVICES PRIVATE LIMITED	39445
16	LUV EXPORTS PRIVATE LIMITED	41435
17	TELEINDIA LIMITED	43874
18	ANDAMAN ISLAND RESORTS PRIVATE LIMITED	47482
19	SRI RAMS MEDICAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED	50650
20	ALFA SOURCE LINKS PRIVATE LIMITED	52666
21	RELISH FINE FOODS PRIVATE LIMITED	53252
22	EVENTUS PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED	54020
23	EXITO MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED	54223
24	TWICEWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	55089
25	AGROCOM INDIA PRIVATE LIMITED	56277
26	ZIFAM SAIMIRRA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	57243
27	REVONS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	58331
28	EASTPOINT SOLUTIONS LIMITED	61276
29	IMAGE HOMES PRIVATE LIMITED	62665
30	SURANA FOUNDATIONS LIMITED	63946
31	SBS INFRA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	65352
32	RMANS AAPARANA MALIGAI PRIVATE LIMITED	65791
33	P.K.S.CATERING PRIVATE LIMITED	65942
34	TALLURI PROPERTIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	66289
35	SANDROT CERAMIC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	66329
36	FOUR W GARMENTS PRIVATE LIMITED	66347
37	KORNATI LENO PRIVATE LIMITED	67292
38	MEYYANAAR FREIGHT SYSTEM PRIVATE LIMITED	67973

39	ASCON MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE	68417
40	ELIXIR PURIFIER CHENNAI PRIVATE LIMITED	69419
41	GRACE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	69640
42	AUTOMOTIVE COMPONENT ENGINEERING PRIVATE LIMITED	69684
43	ICON BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	69943
44	DEWSUNN TECH PRIVATE LIMITED	73886
45	ALPHABETS INFORMATION SOLUTION PRIVATE LIMITED	74495
46	KAZHUGUMALAI PRODUCER COMPANY LIMITED	74586
47	METROPOLITAN TRANSPORT CORPORATION (CHENNAI - NC	77766
48	WINKS EXIM PRIVATE LIMITED	78106
49	RENAL CARETEC CHENNAI PRIVATE LIMITED	78218

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chennai, the 24th January 2012

No. 8793 to 55068/560(3)/Suo-Moto-2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1	8793	NODULAR CASTINGS PRIVATE LIMITED
2	8815	OTTERI SASWATHA NIDHI LIMITED
3	8823	LEELA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
4	8828	RAM POLYPACKS PRIVATE LIMITED
5	8836	TRADE BLAZE PRIVATE LIMITED
6	8840	ANANTHASAYANAM INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
7	8843	MARS INVESTMENT PRIVATE LIMITED
8	8874	RENUKA ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
9	9274	VENKATAGIRI CHITS PRIVATE LIMITED
10	10176	AATHI PARASAKTHI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
11	10218	NIRMAL SEAFREIGHT PRIVATE LIMITED
12	10284	SUSRA SOLVENTS PRIVATE LIMITED
13	20018	RED EAGLE MARITIME SERVICES (COCHIN) PRIVATE LIMITED
14	20028	TIME FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED
15	35265	ANU CREDITS PRIVATE LIMITED
16	40059	J.C NATURAL GREENS POWDER PRIVATE LIMITED
17	40065	OZONE IMPEX PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
18	50302	EXODUS EDUCATIONAL SERVICES & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
19	50304	KAVITHAA LEATHER PRIVATE LIMITED
20	50306	CGI SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
21	50309	AUSTRO ENTERPRICES & EXPORTS PRIVATE LIMITED
22	50310	KANCHANA MARINE PRIVATE LIMITED
23	50315	STARLIFE TOURS PRIVATE LIMITED
24	50322	SANSAR EMBROIDERIES PRIVATE LIMITED
25	50326	MAMTHA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
26	50330	RIAN INFOTECH SERVICES PRIVATE LIMITED
27	50334	VARUNAKUBERA SECURE PRINTS PRIVATE LIMITED
28	50341	LAND MARVEL CONSTRUCTION (INDIA) PRIVATE LIMITED
29	50343	SUCHINDRUM RAM CHIT FUND PRIVATE LIMITED
30	50353	UNIQUE SLIM CARE STUDIO PRIVATE LIMITED
31	50354	ALDAN CHITS & FINANCE PRIVATE LIMITED
32	50355	HORIZON INFOLOGIC PRIVATE LIMITED
33	50356	SREE ABHINAYA SOFTWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
34	50357	ALPHA MARITECH PRIVATE LIMITED
35	50363	LAWRZUN TIMBER IMPORTERS PRIVATE LIMITED
36	50370	V3 CREATIONS PRIVATE LIMITED
37	50378	GREEN HOURS GARDENING PRIVATE LIMITED
38	50379	GEMCAN INFLATABLE'S INDIA PRIVATE LIMITED
39	50399	RECCKON INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
40	50400	DELPORT PROCESSING PRIVATE LIMITED
41	50402	NDC HYDROCARBONS PRIVATE LIMITED
42	50403	SHAMI APPAREL PRIVATE LIMITED
43	50405	GOOD & GRACE EXIM PRIVATE LIMITED
44	50411	IDEAL INTERNET CONSUMER ASSOCIATE NETWORK PRIVATE LIMITED
45	50415	MAS EXPRESS PRIVATE LIMITED
46	50418	SUN BULLION TRADING PRIVATE LIMITED
47	50419	SHINE ROCK IMPEX PRIVATE LIMITED
48	50422	NAGARAJ SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
49	50424	R G S TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
50	50425	M.M.CLINIC PRIVATE LIMITED
51	50426	SRI SAKTHI LEATHER EXPORTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
52	50427	MELKASH @ITES PRIVATE LIMITED
53	50435	BALAJI METAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED



S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
54	50436	ISWARYA AQUA PRIVATE LIMITED
55	50437	E-BACK OFFICE (INDIA) PRIVATE LIMITED
56	50438	SOMASILA GRANITES PRIVATE LIMITED
57	50439	NIPPON I T GATEWAY PRIVATE LIMITED
58	50441	MNC LOGISTICS PRIVATE LIMITED
59	50443	VSK MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
60	50444	TIME FRAME ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
61	50448	THANA MANPOWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
62	50451	ABISHEK SYSTEMS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
63	50453	PLUTUS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
64	50460	KEYES CONTAINER LINES PRIVATE LIMITED
65	50462	JAYGREENS AUDIO & VIDEO VISION PRIVATE LIMITED
66	50463	FOUNTAINHEAD INTEGRATED COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
67	50467	ALL IN IT PRIVATE LIMITED
68	50470	SQUAREMIND FOODS PRIVATE LIMITED
69	50477	VSS INTERIORS PRIVATE LIMITED
70	50480	REGIMAA INFOTECH PRIVATE LIMITED
71	50483	VAA PRINTING & PUBLISHING PRIVATE LIMITED
72	50486	PYRAMID LUBRICANT PRIVATE LIMITED
73	50488	ESAKKI JATROPHA DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
74	50493	CHENNAI METROFLASH SERVICES PRIVATE LIMITED
75	50496	ROYAL BLUE DIAMOND RESTAURANT PRIVATE LIMITED
76	50500	GRANDEUR SYSTEMS AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
77	50504	JAIDURGA TRAVELS PRIVATE LIMITED
78	50506	MEMWEAVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
79	50511	AFFINE RESEARCH & DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
80	50512	STRATEGIC SOFTWARE RESEARCH & DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
81	50513	ZING INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
82	50517	CHENNAI SMART MATRIX PRIVATE LIMITED
83	50518	KAMADENU BIOMASS PRIVATE LIMITED
84	50519	ESYS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
85	50521	MAAYA AUTOMATION PRIVATE LIMITED
86	50522	CHOVZHI CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
87	50532	FARA SUPER TRADING PRIVATE LIMITED
88	50534	A.P.M. BIOTECH PRIVATE LIMITED
89	50536	RNS AQUAMIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
90	50542	NOVA BACK OFFICE SYSTEMS AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
91	50552	ADHAVA EXIM PRIVATE LIMITED
92	50556	ECOMAX ENGINEERING SERVICE PRIVATE LIMITED
93	50557	OMNISCIENT INFO TECH PRIVATE LIMITED
94	50562	SHRAVAN HOLIDAY HOMES (INDIA) PRIVATE LIMITED
95	50570	SUMERU FOODS PRIVATE LIMITED
96	50571	GOLDQUEST MAYER'S MINT PRIVATE LIMITED
97	50573	SWELL'E TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
98	50574	MARUTHI TRANSMISSIONS PRIVATE LIMITED
99	50584	AGNI HEALTH PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
100	50590	SRI MAHALASHMI SYNCHRONISED MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
101	50591	VIGNESHWARA AQUAFARM PRIVATE LIMITED
102	50592	MAPLE DEVICE PRIVATE LIMITED
103	50599	HYUNDAI CARE IT SERVICES PRIVATE LIMITED
104	50613	WICKERS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
105	50627	AALAYAM MATRIMONIALS PRIVATE LIMITED
106	50632	CHENNAI TELNET IMPEX PRIVATE LIMITED
107	50634	CHAMPION STATIONERY SERVICES PRIVATE LIMITED
108	50645	INDAM MULTIVENTURES PRIVATE LIMITED
109	50653	GEEVEE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
110	50660	WORLDWIDE TRAVEL RELATED SERVICES PRIVATE LIMITED
111	50663	N STYLE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
112	50665	DIAL A JOB (INDIA) PRIVATE LIMITED
113	50666	REDEEMS HERBAL CARE PRIVATE LIMITED
114	50669	SR CELL SYS PRIVATE LIMITED
115	50686	PRESTON EDUCATION RESOURCE ACADEMY PRIVATE LIMITED
116	50687	SANJEEVINI SIDDHA HERBAL PRODUCTS LIMITED
117	50691	SAMSON MEDIA COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
118	50692	KR CROP CARE INDIA PRIVATE LIMITED
119	50694	BLUELINK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
120	50704	LAWBASE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
121	50705	WESTING BRAKE LININGS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
122	50709	VILVA MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
123	50712	BADHRI MARKETING PRIVATE LIMITED
124	50714	DEMETRIUS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
125	50716	SOUNDHARIYA SECURITIES PRIVATE LIMITED
126	50720	WKO FASHIONS PRIVATE LIMITED
127	50722	ISS INFO MAC PRIVATE LIMITED
128	50723	EAGLE IMMIGRATION SERVICES PRIVATE LIMITED
129	50725	DAVID EXIM PRIVATE LIMITED
130	50729	VANEKAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
131	50738	B F B IMPEX PRIVATE LIMITED
132	50748	HEALING CENTRE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
133	50754	ALPHA PET RECYCLING & PROCESSING COMPANY PRIVATE LIMITED
134	50755	APOLLO FASHIONS PRIVATE LIMITED
135	50757	RIDEMASTER FOODS & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
136	50765	ELUCIDA MINDWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
137	50775	CRAFCONS PROJECTS PRIVATE LIMITED
138	50781	VALLIAMMAI PERFECT SECURITY SERVICES (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
139	50795	ETERNAL BUILDERS CHENNAI PRIVATE LIMITED
140	50801	RAGH ANTHONY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
141	50805	GOOD SHEPHERD MILK DAIRY PRIVATE LIMITED
142	50811	MAXIM OVERSEAS VENTURES PRIVATE LIMITED
143	50819	DIGITAL HEALTH INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
144	50829	MEDI BEST HOSPITALS PRIVATE LIMITED
145	50831	SARAM EXPORTS DIRECT MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
146	50832	COASTAL INDIA TRADING SYSTEMS LIMITED
147	50845	IKON STUDIOS PRIVATE LIMITED
148	50853	PREM DEVI MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
149	50859	SOJAN ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
150	50863	DEEKSHA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
151	50866	V R G & SONS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
152	50867	E-CATS PRIVATE LIMITED
153	50871	MOHITH VASAN IMPEX PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
154	50873	SUNRISE PARTNERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
155	50876	SUCCESS FIRE SERVICE PRIVATE LIMITED
156	50877	VIDYARTTI HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
157	50879	NAIKUL INDIA PRIVATE LIMITED
158	50888	SHOREPAK FREIGHT PRIVATE LIMITED
159	50894	BOSTON HI-TECH CABLE NETWORKS PRIVATE LIMITED
160	50897	CHENTHUR MURUGAN FISHERIES PRIVATE LIMITED
161	50901	VVS GOLD JEWELLERS PRIVATE LIMITED
162	50919	ORANGE MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED
163	50922	ASB ECO HERBA FARMS PRIVATE LIMITED
164	50923	NAKSHATHRA TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
165	50928	RMR FOODS PRIVATE LIMITED
166	50929	SABARI TRANSPORT PRIVATE LIMITED
167	50940	THRIAN INFOWAY PRIVATE LIMITED
168	50943	OM GARDENS PRIVATE LIMITED
169	50946	HINTERLAND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
170	50948	ARRAY FUTURISTIX PRIVATE LIMITED
171	50955	LEVER INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
172	50967	ALANKRITHA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
173	50979	TRACK 1 NETWORKS PRIVATE LIMITED
174	50983	KAMRAN NETWORK PRIVATE LIMITED
175	50985	CELLICOMM IMPEX PRIVATE LIMITED
176	50987	AVANT-GARDE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
177	50989	GRAVURE DOTS INDIA PRIVATE LIMITED
178	50991	WINSDS PRIVATE LIMITED
179	50993	DEVI KRIPA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
180	51137	PRIME CONNECT PRIVATE LIMITED
181	51158	N.G. KIDS EDUCATION PRIVATE LIMITED
182	51170	SRI NAGAAS FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
183	51172	SRI VENKATESHWARA PROJECTS PRIVATE LIMITED
184	51174	FIRST CITY SECURITY SERVICES (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
185	51183	HERITAGE CED COATS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
186	51184	MALURAM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
187	51202	PRAXIS INFOTECH PRIVATE LIMITED
188	51203	SORRYA SKYLINK SERVICES PRIVATE LIMITED
189	51208	SRI JAYA KRISHNA HOSPITALS PRIVATE LIMITED
190	51233	VASAN MEDICAL CENTRE (THANJAVUR) PRIVATE LIMITED
191	51245	PROMETHEUS INSTITUTE OF MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
192	51256	B A B EDUCATIONAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
193	51266	AAISHA TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
194	51267	PREIYAAH GREENS PRIVATE LIMITED
195	51268	K.A.K. BUILDERS PRIVATE LIMITED
196	51278	CADIANSYS (INDIA) PRIVATE LIMITED
197	51281	AAA INSURANCE BROKING PRIVATE LIMITED
198	51288	SHREE MOOKAMBIGAI MEDIAA PRIVATE LIMITED
199	51292	RIGHT CHOICE FOODS (INDIA) PRIVATE LIMITED
200	51293	REB MECH INDIA PRIVATE LIMITED
201	51296	LASTEL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
202	51303	SVARAKHA EXPORTS PRIVATE LIMITED
203	51309	FRIENDS MEDICARE PRIVATE LIMITED
204	51310	VASANTHA PAPERS PRIVATE LIMITED
205	51313	MADURAI EXPORT APPAREL PARK PRIVATE LIMITED
206	51314	AEROBESTWAY AIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
207	51317	JAYA SUBAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
208	51321	MCRAY IMPEX PRIVATE LIMITED
209	51330	CURF METALS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
210	51336	SINCRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
211	51337	UNIQUE COSMETICS PRIVATE LIMITED
212	51343	TECHTEAM ASIA PACIFIC PRIVATE LIMITED
213	51345	LB PETROCHEM PRIVATE LIMITED
214	51347	SAS ALLIED BEARINGS PRIVATE LIMITED
215	51349	CHELLAM HOMES PRIVATE LIMITED
216	51353	BIG DEAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
217	51359	BALAJI HOME MART PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
218	51360	STROWGER PRODACT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
219	51364	AUROMIRA ESTATES PRIVATE LIMITED
220	51368	AB INITIO PHARMACODYNAMICS PRIVATE LIMITED
221	51373	KURINJI TRADING AGENCY PRIVATE LIMITED
222	51378	PSICAMORE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
223	51380	MENANG PRIYA BUILDERS LIMITED
224	51382	ZIMODE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
225	51383	N.J.M. TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
226	51391	CHAMPION AGRO EXPORTS CHENNAI PRIVATE LIMITED
227	51392	KARANEASWAR INFOTECH PRIVATE LIMITED
228	51393	SUNSHINE SYNTHETICS PRIVATE LIMITED
229	51394	JYOTHI RAJAA TEXTILES PRIVATE LIMITED
230	51402	MEHER AND MEHER IMPORTS PRIVATE LIMITED
231	51407	AFRI GLOBAL.NET PRIVATE LIMITED
232	51410	RODEM TRADERS PRIVATE LIMITED
233	51414	DISCO SUPER TOOLS PRIVATE LIMITED
234	51418	SHARON EXIM PRIVATE LIMITED
235	51422	P M D QUARRIES PRIVATE LIMITED
236	51425	PARANJOTHI WIND POWER PRIVATE LIMITED
237	51433	G.S.C. SYSTEMS PRIVATE LIMITED
238	51441	PUNNOLI SECURITY SERVICE PRIVATE LIMITED
239	51458	TRICHY NETZONE PRIVATE LIMITED
240	51460	CLIENTSOLV TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
241	51461	JAYGEENS HITECH AQUATIC & AGRICULTURAL FARMS PRIVATE LIMITED
242	51468	INVETERATE SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
243	51469	MALCOM TELE EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
244	51474	PRIME PYROTECHNICS PRIVATE LIMITED
245	51476	HIGH POINT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
246	51479	ALAGAPPA INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
247	51481	PANDAVA LEATHERS PRIVATE LIMITED
248	51484	SRI RAMYA FOODS PRIVATE LIMITED
249	51489	SAKTTHI BROADCASTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
250	51491	CHENNAI REPELLENT PRIVATE LIMITED
251	51495	SKYLINE FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
252	51498	TASKHUB LAB PRIVATE LIMITED
253	51503	ASSOCIATE COURIER PRIVATE LIMITED
254	51506	ANJAPPAR CHETTINAD RESTAURANT PRIVATE LIMITED
255	51507	RAJAPALAYAM STRUCTURAL CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
256	51508	MYSONIC MARKETING PRIVATE LIMITED
257	51515	SHAANTAS UNICARE PRIVATE LIMITED
258	51516	SSB LEATHERS PRIVATE LIMITED
259	51518	SHREEVILVAM IMPEX PRIVATE LIMITED
260	51519	CREATIVE QUILLS PRIVATE LIMITED
261	51523	MOBI NETCOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
262	51524	QUANTA COGNITO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
263	51530	SYBLEX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
264	51543	CRYSTAL FOUNDATION PRIVATE LIMITED
265	51545	NOBLE AMBATHUR FABRICATORS PRIVATE LIMITED
266	51546	AL CHEM PROJECT PRIVATE LIMITED
267	51547	ANNAMALAI AGRI CARE PRIVATE LIMITED
268	51548	INTERNATIONAL FINANCIAL BROKERAGE COMPANY PRIVATE LIMITED
269	51551	HIFI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
270	51559	SMART PLUS POWER PLANT ENGINEERS PRIVATE LIMITED
271	51561	SENTHUR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
272	51569	FABMAX SEMICONDUCTOR RESEARCH LAB PRIVATE LIMITED
273	51575	JACK MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
274	51579	CHENNAI HOMES (INDIA) PRIVATE LIMITED
275	51581	ALLWIN IT SERVICES PRIVATE LIMITED
276	51582	SEAMS TEX INDIA PRIVATE LIMITED
277	51584	SSC PETROLEUM PRIVATE LIMITED
278	51589	K.P.J. KREATIONS PRIVATE LIMITED
279	51592	REAL INDIA COURIER LIMITED
280	51598	ANTIOCH AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
281	51601	ROYAL MOBILES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
282	51603	TCPG RESTAURANT INDIA PRIVATE LIMITED
283	51607	FELIX MEDS PRIVATE LIMITED
284	51611	COSMIC HEALTHCARE RESOURCES DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED
285	51615	INTERBLOCKS INDIA PRIVATE LIMITED
286	51621	SARVEL HEXAGENS PRIVATE LIMITED
287	51627	AGR WALL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
288	51629	VIBA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
289	51633	DIGITECH ALPHA PRIVATE LIMITED
290	51636	RAAMADURAI CHITS PRIVATE LIMITED
291	51641	VIGNESH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
292	51642	SIKAMS.COM PRIVATE LIMITED
293	51643	CARMEN ACOUSTICS PRIVATE LIMITED
294	51650	PROWESS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
295	51651	SS BIO DYNAMIC AGROTECH PRIVATE LIMITED
296	51664	VENTURE GLOBAL INDIA PRIVATE LIMITED
297	51666	SHAHAN HEALTHCARE PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED
298	51669	GUIDEL EDUCATION PRIVATE LIMITED
299	51686	SAI COMWERKS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
300	51690	PALLAVARAM TANNERS ENVIRONMENT PROTECTION COMPANY PRIVATE LIMITED
301	51692	SAMUHA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
302	51709	STRATEGIC CAPITAL VENTURES LIMITED
303	51718	THINK DEVELOPMENT SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
304	51720	PICHAMIN GRANITES PRIVATE LIMITED
305	51721	ANB GENESIS ACADEMY PRIVATE LIMITED
306	51723	ENERGY CURE HOME PRIVATE LIMITED
307	51734	CREATIV FIRE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
308	51739	SOLOMON EXIM AND SERVICES PRIVATE LIMITED
309	51747	RATI GOAT FARMING PRIVATE LIMITED
310	51750	STARCITY PROPERTIES PRIVATE LIMITED
311	51753	ANNAPOORNI HOTEL (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
312	51754	MAJI CARGO PRIVATE LIMITED
313	51758	YESHUA CHEMICALS PRIVATE LIMITED



S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
314	51762	SYNCHRONIZED SYSTEM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
315	51767	MIDAS MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
316	51770	SAKS SOLAR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
317	51771	ECO-ADVANTAGE ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
318	51773	EMPIRE OIL COMPANY PRIVATE LIMITED
319	51774	FEMINA HATCHERIES PRIVATE LIMITED
320	51775	SREE ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
321	51777	KG CUISINES & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
322	51779	HACKS CONFECTIONERY INDIA PRIVATE LIMITED
323	51780	RAJYALAKSHMI ESTATES PRIVATE LIMITED
324	51785	MOLECULAR THERAPEUTICS PRIVATE LIMITED
325	51786	DHANAVRRIDHI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
326	51787	PERFECT CONTRACTORS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
327	51789	PROGENT TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
328	51790	R.S. RESEARCH AND MEDICAL CENTRE PRIVATE LIMITED
329	51797	SREE SHYAMALA FOODS PRIVATE LIMITED
330	51798	SMJ CARPETS PRIVATE LIMITED
331	51799	KARAN TV PRIVATE LIMITED
332	51806	UNI TESTMAC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
333	51807	ESS EN INFO SERVICES PRIVATE LIMITED
334	51808	BRITISH EDUCATIONAL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
335	51816	SRIAMMAN CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
336	51818	V.V.WOOD DESIGNS PRIVATE LIMITED
337	51821	SRI ARAVINDHA ANNAI FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
338	51825	CHENNAI TITANIUM WORKS PRIVATE LIMITED
339	51826	KASIPALANI LAND INDIA PRIVATE LIMITED
340	51828	LAPSI PANELS PRIVATE LIMITED
341	51830	GEE TRADE CONSULT PRIVATE LIMITED
342	51836	YASER BIN NASAR EXIM PRIVATE LIMITED
343	51839	SEAMOUNT SHELTERS PRIVATE LIMITED
344	51848	VENKATARAMANA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
345	51849	MARUDHI LINKSYS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
346	51853	ALLIANCE TRACTORS PRIVATE LIMITED
347	51855	ALAMELU MANGA DRUGS & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
348	51859	GOLD HOUSE INDIA PRIVATE LIMITED
349	51861	SMALLWALLS MEDIA PRIVATE LIMITED
350	51862	UTILE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
351	51870	H.P.M. ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
352	51873	SRI SATHYA SAI SHIPPING COMPANY PRIVATE LIMITED
353	51880	MAADAN TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
354	51881	KHYBER SYSTEMS AND SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
355	51882	JAYAM BIO MANURES PRIVATE LIMITED
356	51884	BRIGHT SUN EXPORTS PRIVATE LIMITED
357	51885	APT FOODS PRIVATE LIMITED
358	51900	NAMYANG TOURS PRIVATE LIMITED
359	51905	MOONLIGHT PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
360	51906	PACE PUMPS AND SPARES PRIVATE LIMITED
361	51909	BETAPLUS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
362	51910	MITRAJAYA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
363	51914	CHEMZZ CLEANTECH INDIA PRIVATE LIMITED
364	51915	ARRAY INFOTEC PRIVATE LIMITED
365	51917	AROKYA OILS LIMITED
366	51921	TYCHE POLYMERS INDIA PRIVATE LIMITED
367	51925	UNIPUR COOL TEK PRIVATE LIMITED
368	51926	PENGUIN MAGIC & CULTURAL PRIVATE LIMITED
369	51928	SAKTHI COMPUTER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
370	51934	MACRO AUTOMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
371	51935	ALTIUS ANIMATIONS PRIVATE LIMITED
372	51949	OM-X PROBIOTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
373	51953	GANDHARVA RECORDS PRIVATE LIMITED
374	51960	VENUS INFRASTRUCTURES & PROJECTS PRIVATE LIMITED
375	51963	REGINA INFOTECH PRIVATE LIMITED
376	51964	HARSHINI SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
377	51974	KUMARI REALTY PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
378	51981	PM CRYPTO KARE PRIVATE LIMITED
379	51983	SB AD WINGS PRIVATE LIMITED
380	51991	UDAYAKRISHNA POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED
381	51992	DJS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
382	51995	RAMANAYAKI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
383	52261	MARK EXIM PRIVATE LIMITED
384	52262	AMA CHITS PRIVATE LIMITED
385	52263	SEA MARKET INDIA PRIVATE LIMITED
386	52275	AYSHA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
387	52276	VENKATESWARAA MARINE GEL PRIVATE LIMITED
388	52281	PRO GREEN PRODUCTS PRIVATE LIMITED
389	52282	M STUDIO PRIVATE LIMITED
390	52286	CHENNAI COMFORTS PRIVATE LIMITED
391	52287	RIA LEARNING BUS PRIVATE LIMITED
392	52292	A.V.M.POLYMERS PRIVATE LIMITED
393	52295	SREE ANNAMACHARIYAA ARUNSUVAI UNAVAGAM (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
394	52296	KALVAS KID LEATHER PRIVATE LIMITED
395	52310	G.R.B EXIMP PRIVATE LIMITED
396	52313	SHENBAGA VINAYAKA BUILDERS PRIVATE LIMITED
397	52315	NATURE BIO-C MARKETING PRIVATE LIMITED
398	52316	MONTBLANC MANAGEMENT ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
399	52321	SUNGROVE TRADING PRIVATE LIMITED
400	52325	PARPIA TRADERS PRIVATE LIMITED
401	52326	ANAGAR EXIM PRIVATE LIMITED
402	52334	EN BLOC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
403	52335	ACADEX APPARELS INDIA PRIVATE LIMITED
404	52337	OKAY NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
405	52345	SWKOTM TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
406	52356	EM EXCEL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
407	52364	GREEN GALAXY IMPEX PRIVATE LIMITED
408	52369	D.G. ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
409	52370	PARIPOORNA ARPANAM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
410	52371	FAX IMPEX PRIVATE LIMITED
411	52372	OUSHAD FABRICATORS PRIVATE LIMITED
412	52373	RENA SANCE EXIM TRADERS PRIVATE LIMITED
413	52374	AURA BIZ MINDS PRIVATE LIMITED
414	52375	NATHINI REDHILLS PRIVATE LIMITED
415	52376	SMART INFOTECH SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
416	52383	DAKSHIN CHITHRA PRINTING & PUBLISHING COMPANY PRIVATE LIMITED
417	52388	JATAKA-ONE SOLUTION PRIVATE LIMITED
418	52392	JAPONICA MARKETING PRIVATE LIMITED
419	52395	K.P. KARPAGAM TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
420	52398	ASSOCIATED HYPER FOODS PRIVATE LIMITED
421	52400	MINENI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
422	52401	ACRO AGRO COMMODITIES PRIVATE LIMITED
423	52407	BEST BIO ORGANICS PRIVATE LIMITED
424	52410	U PRANAV CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
425	52416	SIERRA NETWORKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
426	52417	SIERRA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
427	52420	BAVI TRAVELS PRIVATE LIMITED
428	52432	SWARNA HOMES PRIVATE LIMITED
429	52435	SAARK ENGINEERING SPECIALTIES PRIVATE LIMITED
430	52439	OPTUS TELECOMMUNICATION PRIVATE LIMITED
431	52440	OGIRI MANPOWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
432	52442	ORBIT PETRO COMPANY PRIVATE LIMITED
433	52447	NU-LINK TRADE RESOURCES PRIVATE LIMITED
434	52454	GREENLIFE REALTY SERVICES PRIVATE LIMITED
435	52457	RIGHT LEATHER COMPANY PRIVATE LIMITED
436	52459	SRUTHI FOODS PRIVATE LIMITED
437	52460	SPRINT ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
438	52462	ACCENT INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED
439	52466	SUNMOON SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
440	52475	ARCADIA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
441	52478	SHAH PERFUMES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
442	52481	WELFIX LEAD.IN.WIRE PRIVATE LIMITED
443	52485	VIBRO TEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
444	52491	NAZARIYA KNOWLEDGE SERVICES PRIVATE LIMITED
445	52492	BAIRAVAN SECURITIES AND MANPOWER PRIVATE LIMITED
446	52497	INFI DIMES STUDIOS PRIVATE LIMITED
447	52501	EXOTIC HOMES PRIVATE LIMITED
448	52502	JIFFY MANAGEMENT RIVATE LIMITED
449	52526	ANNAI BIO-CROP PRIVATE LIMITED
450	52531	MADRAS ARTLAB PRIVATE LIMITED
451	52538	BRAHMAS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
452	52539	SAKTHI ROYAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
453	52543	ACE WORLD WIDE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
454	52546	PARCHER TRADING POINT PRIVATE LIMITED
455	52549	TIRUVÁRUR PHARMA REMEDIES PRIVATE LIMITED
456	52550	UDHAIYAM CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
457	52551	EXQUISITE HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
458	52564	TRANS-TEL INFO SERVICES PRIVATE LIMITED
459	52571	ALSTRUT INDIA PRIVATE LIMITED
460	52581	SHAKTHI LOGISTICS PRIVATE LIMITED
461	52582	VE INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
462	52584	CHENNAI REALIABLE EXPORTS PRIVATE LIMITED
463	52586	SRI VIGNESH AIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
464	52587	DAYCONNECT INDIA PRIVATE LIMITED
465	52600	AVON OXYGEN PRIVATE LIMITED
466	52602	TIRUPUR SRI MAHAGANAPATHY APPARELS PRIVATE LIMITED
467	52603	AVENTUR BIO-CHEM PRIVATE LIMITED
468	52605	ENSEMBLE LOGISTICS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
469	52607	AIDEES FINE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
470	52611	WIN STAR SHIPPING AGENCIES PRIVATE LIMITED
471	52623	MULTIPLE RECRUITING AGENCY PRIVATE LIMITED
472	52627	UDHAYAM SUBAMANGALA KALYANA MANDAPAM PRIVATE LIMITED
473	52630	KMSN SYSTEMS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
474	52635	GREEN MOUNT CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
475	52636	BINARY E PAGING PRIVATE LIMITED
476	52649	MUJEEB BUILDER PRIVATE LIMITED
477	52652	TIRUMALA LEATHERS PRIVATE LIMITED
478	52654	MUDHALAVAN ESTATES PRIVATE LIMITED
479	52655	INDRAPRIYAS COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
480	52658	ESTEEM OCEAN LINERS PRIVATE LIMITED
481	52662	CROSS BOUNDARY SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
482	52665	THRIKA FOODS PRIVATE LIMITED
483	52671	SINDHU BALAJI PLANATATION PRIVATE LIMITED
484	52677	SHREYAS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
485	52681	PERTAMA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
486	52682	TRINETRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
487	52686	MDR TRADING PRIVATE LIMITED
488	52687	FLAME IMPEX PRIVATE LIMITED
489	52692	I SOLUTIONS (INDAI) PRIVATE LIMITED
490	52698	UNICORN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
491	52703	FRICFREE LUBS PRIVATE LIMITED
492	52708	HARRISONS BIOTEC PRIVATE LIMITED
493	52727	MA-ROLLER MASSAGE AND MEDITATIONAL TOOLS PRIVATE LIMITED
494	52733	M.A.K. COMBINES PRIVATE LIMITED
495	52743	SOUTHERN PEAK CONNECTIONSS PRIVATE LIMITED
496	52750	PIJLS AQUA PRIVATE LIMITED
497	52756	ARAVIND REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
498	52757	SUNVIN TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
499	52758	S & P VENTURES PRIVATE LIMITED
500	52760	COGENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
501	52763	LEAN HIN LEE - MULTICONSTRUCTION RESOURCES (INDIA) PRIVATE LIMITED
502	52766	GULF PETROCHEM PRIVATE LIMITED
503	52767	BOUNTIFUL IMPEX PRIVATE LIMITED
504	52772	TRISTAR FORWARDERS PRIVATE LIMITED
505	52773	ICON ENERGY PRIVATE LIMITED
506	52775	TIJARA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
507	52778	SUN HOTELS PRIVATE LIMITED
508	52781	FX EDGE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
509	52783	ADVANCED COMMUNICATION LEARNING CENTRE PRIVATE LIMITED
510	52786	CHOICE FOREX PRIVATE LIMITED
511	55054	ANANDKARTHIK ESTATES PRIVATE LIMITED
512	55056	KORKAI TERMINALS PRIVATE LIMITED
513	55059	SUNCARESS FOODS PRIVATE LIMITED
514	55060	NEW VISION MARKETING PRIVATE LIMITED
515	55062	CONNECT MALAYSIA INDIA PROJECTS PRIVATE LIMITED
516	55065	HOMEPLUS PROMOTERS PRIVATE LIMITED
517	55066	NEOOBJECT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
518	55068	SIPNO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

K. LATHA PARIMALA VADANA  
Dy. Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Chennai, the 25th January 2012

No. 9426 to 58162/560(5)/2012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

S.NO	REG. NO	COMPANY NAME
1	9426	INDO FOOD EXPORTS PRIVATE LIMITED
2	9437	VTR PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
3	9438	VIDAJ ROOFINGS PRIVATE LIMITED
4	9441	NABIL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
5	9445	MODERN PRINT PRIVATE LIMITED
6	9461	VENKATESHWARA ICECREAM PRIVATE LIMITED
7	9482	CHALIANGE SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
8	9496	RAO & RAO BOTTLERS PRIVATE LIMITED
9	9502	ASHA MARKETING PRIVATE LIMITED
10	9526	NEROTH RUBBERS PRIVATE LIMITED
11	9532	KAISER ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
12	9536	HI-TECH SERVICES PRIVATE LIMITED
13	9537	APSARA PRINTERS PRIVATE LIMITED
14	9541	MINROH (INDIA) PRIVATE LIMITED
15	9544	SWASTIC HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
16	9548	THAKUR EXICO PRIVATE LIMITED
17	9557	ALLIED PHOTO COMPOSERS PRIVATE LIMITED
18	9562	RADHAVAN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
19	9583	JANCHOK PRIVATE LIMITED
20	9587	MEDALLION PACKAGING PRIVATE LIMITED
21	9589	SUNI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
22	9593	THAI SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
23	9595	JUNE (INDIA) TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
24	9604	HORAE PHARMACEUTICALS CO PRIVATE LIMITED
25	9623	ORKEYYES MINERALS INDUSTRIES AND EXPORTERS PRIVATE LIMITED

26	9647	STEELS FOILS PRIVATE LIMITED
27	9660	ANSUN CREATIVE GRAPHICS PRIVATE LIMITED
28	9672	APURNA F B & I PRODUCTS PRIVATE LIMITED
29	9690	SHAH'N'SHAH PRIVATE LIMITED
30	9725	SAKTHI GEARS PRIVATE LIMITED
31	9730	SUNTRACO MARKETING PRIVATE LIMITED
32	9754	TRICORD CONSTRUCTING COMPANY PRIVATE LIMITED
33	9760	SOUTHERN MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
34	9770	ENTERPRISING SECURITY AND INVESTIGATION SERVICES PRIVATE LIMITED
35	9771	SHRI RAMCAPSULES PRIVATE LIMITED
36	9785	XL PRESSING PRIVATE LIMITED
37	9789	JAI NITHYA PRIVATE LIMITED
38	9804	NOMIS ENGINEERING CO PRIVATE LIMITED
39	9822	SOUTH INDIA RECORDING COMPANY PRIVATE LIMITED
40	9874	PUCKAAN SCANNERS PRIVATE LIMITED
41	9876	PALAR ELECTRIC COMPANY PRIVATE LIMITED
42	9877	PRELAC ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
43	9897	PERINBAM FARMS PRIVATE LIMITED
44	9913	EAST WEST COMPUTER INSTITUTE PRIVATE LIMITED
45	9928	SENTHIL KUMAR TRANSPORT PRIVATE LIMITED
46	9943	JAMBU BALA VANASPATHI AND WHEAT FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
47	9957	ASHISH ASSOCIATE PRIVATE LIMITED
48	9960	VISHAL THEATRES PRIVATE LIMITED
49	9967	ALDAM INSTRUMENTATION PRIVATE LIMITED
50	9985	UNIVERSAL HOUSEWARES PRIVATE LIMITED
51	9998	DHENUPURI ENGINEERING ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
52	10009	MADRAS TANNERIES PRIVATE LIMITED
53	10013	GLOBE EMPLOYMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
54	10014	SHANTI VIHAR HOTEL (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED
55	10018	ROCKFORT DATA PRINTS PRIVATE LIMITED
56	10024	PALAR CHEMICALS PRIVATE LIMITED
57	10026	SAKTHI DYECHEM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
58	10028	ASTRON COMPUTER MANAGEMENT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
59	10037	TULIP ABRASIVES PRIVATE LIMITED
60	10045	MAARS TEXTILES PRIVATE LIMITED
61	10057	SABARI CARTON PRIVATE LIMITED
62	10083	SUDHIR ENGINEERING PRIVATE LIMITED
63	10091	SRIVISALAKSHI FILMS PRIVATE LIMITED
64	10096	TRICHY SRI VASAVI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
65	10107	ENDO ENARJI FOODS PRIVATE LIMITED
66	10134	PICO ART (INDIA) PRIVATE LIMITED
67	10169	WELCOME BISCUITS PRIVATE LIMITED
68	10175	BASRAM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
69	10205	SOUTHERN TALISMAN ENGINEERS PRIVATE LIMITED
70	10216	EXHIBITION CONSTRUCTION SPECIALISTS PRIVATE LIMITED
71	10227	PELICAN STATIONERY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
72	10269	ANGEL PERFUMES (INDIA) PRIVATE LIMITED
73	10302	CPU CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
74	10340	SUDEV PACK PRIVATE LIMITED
75	10359	ADROIT ENGINEERING PRODUCTS PRIVATE LIMITED
76	58162	RN SUBLIMATION COATINGS PRIVATE LIMITED.

V. C. DAVEY

Registrar of Companies

Tamilnadu, Andaman &amp; Nicobar Islands